



न्यूज डायरी

लातेहार में वज्रपात एक की मौत, दूसरा गंभीर
लातेहार। मिनिका थाना क्षेत्र के कमाही में वज्रपात से रंजीत यादव (17) की मौत हो गयी। जबकि एकज यादव गंभीर रूप से घायल है। उसे लातेहार सदर अस्पताल के आइसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस घटना में आठ अन्य लोगों को भी हल्की चोटें आयी हैं।

स्कूल की छत पर गिरी आकाशीय बिजली
पलामू। मेदिनीनगर के एमआरएमसीएच के जीएनएम स्कूल की छत पर शनिवार की दोपहर वज्रपात होने से स्कूल की छत की दीवार टूट गयी। जिससे स्कूल के बाहर लगा सीसीटीवी क्षतिग्रस्त हो गया। गंभीरता से ही उस वक्त छत पर कोई नहीं था।

सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपित गिरफ्तार
रांची। सदर थाना क्षेत्र के कोकर में बर्थ डे पार्टी से लौट रही छात्रा के साथ चार लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने शनिवार को दो नाबालिग आरोपितों को निरुद्ध और दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

महिला को बंधक बना सोने-चांदी के गहने लूटे
जमशेदपुर। परसुडीह थानांतर्गत हरहरगुड प्रेम कुंज निवासी अजीत शर्मा के घर नकाबपोश अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने अजीत शर्मा की पत्नी प्रिया शर्मा को बंधक बनाकर सोने-चांदी के गहने लूट लिये।

17 जुलाई से काम पर लौटेंगे 1300 जनसेवक
रांची। दो महीने से अधिक से चल रही झारखंड के जनसेवकों की हड़ताल सरकार के स्तर पर हुई पहल के बाद खत्म हो गयी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ वार्ता में जनसेवक संवर्ग का ग्रेड पे यथावत रखने पर सहमति बनी।

पश्चिम बंगाल में नहीं होगा राज्यसभा चुनाव
कोलकाता। बंगाल से राज्यसभा (रास) चुनाव के लिए भाजपा के डी उम्मीदवार रथींद्र बोस ने नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद यह साफ हो गया कि सातों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जायेंगे।

पूर्व विधायक एचएम प्रभाकर नहीं रहे
रांची। पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर का शनिवार को रांची के रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। वह राज धनवार क्षेत्र से 1977, 1985 और 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गये थे।

वाहना आभूषण
खोना (किंकी) : 56,400 ₹/10 ग्राम
चांदी : 77,000 ₹/10 किंकी

मोदी के स्वागत में तिरंगे के रंग से जगमगाया बुर्ज खलीफा विश्व को बेहतर बनाने में जुटे भारत और यूएड : मोदी

दोनों में कई करार, पीएम ने राष्ट्रपति को बताया भाई एजेंसी

अबू धाबी। फ्रांस दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पेरिस से शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएड) की एकदिवसीय यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे। उन्होंने यूएड के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए। विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को लेकर जानकारी साझा की है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच



एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ। खाड़ी देश के दौरे की समाप्ति पर पीएम ने लिखा प्यारा संदेश- विश्व को बेहतर बनाने में जुटे भारत और यूएड। पीएम मोदी का यहां शानदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत में प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा तिरंगे के



रंगों से रोशन किया गया था। उनके आगमन से पहले शुकुबरा को बुर्ज में लाइट-एंड-साउंड शो के दौरान उनकी तस्वीर भी प्रदर्शित की। जिसके बाद एक संदेश आया कि आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

आपसी संबंध और लेस बनाने पर चर्चा : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अबूधाबी के शिक्षा विभाग ने शनिवार को अबू धाबी में आइआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। आइआईटी दिल्ली के पूर्व डीन शिक्षाविद को आईआईटी अबू धाबी का समन्वयक बनाया गया है। यूएड के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर पीएम मोदी ने चर्चा की। पीएम मोदी की यूएड यात्रा के केंद्र में ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्र हैं। (शेष पेज 11 पर)

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा बीआईटी की उपलब्धियों पर सबको गर्व

मैं यहां का छात्र रहा हूं, पूरी मदद करूंगा : हेमंत

मेसरा में सिंगल विंडो सिस्टम से समस्याओं का हल होगा
यह देश का तीसरा सबसे बड़ा तकनीकी संस्थान
कैम्पस में आते ही कुछ अलग ही अहसास होता है

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। बीआईटी मेसरा के 69वें स्थापना दिवस समारोह में शनिवार की सुबह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और शाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। दोनों ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल ने कहा कि बीआईटी मेसरा के पूर्व छात्रों ने इंजीनियरिंग, टेक्नोक्रेट, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के रूप में हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी उपलब्धियां राष्ट्रीय

सीमाओं से परे फैली हुई हैं। इस पर हम सब को गर्व है।

वहीं सीएम ने कहा कि बीआईटी मेसरा देश का तीसरा बड़ा तकनीकी संस्थान है। इसी प्रकार का देश का भारी उद्योग इंडस्ट्री संस्थान एचईसी, देश का पहला फर्टिलाइजर इंस्ट्रुटी इसी राज्य में बना। बीआईटी आकर मुझे अलग ही अहसास होता है। मैं आज यहां बतौर मुख्यमंत्री उपस्थित हूँ। मैं यहां का छात्र रहा हूँ और आज यहां के वाइस चांसलर मुझे चीफ मिनिस्टर साहब कह कर संबोधित कर रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव है, जिसको मैं स्वयं ही समझ सकता हूँ। सीएम ने कहा, कल ही देश ने एक चंद्रयान-3 रवाना किया है। इस चंद्रयान में हमारे झारखंड के लोगों की भी बड़ी भूमिका है। इसका प्लेटफॉर्म

बीआईटी का 68वां स्थापना दिवस समारोह



एचईसी से बनाया है और मेकन की भी बड़ी भूमिका है। झारखंड के कई वैज्ञानिकों का भी चंद्रयान में योगदान है। सीएम ने कहा, इस तरह इस राज्य को अपने संस्थानों

पर पूरा गर्व है। बीआईटी मेसरा आज नये आयाम को छू रहा है। इसके पीछे यहां के लोगों का कठिन परिश्रम और ईमानदार प्रयास है। मेरा छात्र जीवन यहां बीता है :

अश्विन का जादू इंडीज पर ऐतिहासिक जीत
डोमिनिका। रविचंद्रन अश्विन (71 रन पर सात विकेट) के करिश्मयी प्रदर्शन के बूते भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच तीसरे दिन शुकुवार को पारी और 141 रन से जीत लिया। भारत की मिली यह जीत एशिया के बाहर के देश में मिली सबसे बड़ी जीत है। जीत के हीरो अश्विन ने मैच की दोनों पारियों में 131 रन देकर 12 विकेट झटकें। आठवीं बार 10 विकेट लेने के अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की। मेजबान टीम ने पहली पारी में 150 रन बनाये थे। जवाब में भारत ने पांच विकेट पर 421 रन बना कर समाप्त घोषित कर दी।

बीआईटी देश का तीसरा बड़ा तकनीकी संस्थान

सीएम ने कहा कि बीआईटी मेसरा देश का तीसरा बड़ा तकनीकी संस्थान है। इसी प्रकार का देश का भारी उद्योग इंडस्ट्री संस्थान एचईसी, देश का पहला फर्टिलाइजर इंस्ट्रुटी इसी राज्य में बना। एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंस्ट्रुटी बोकारो स्टील प्लांट भी इसी राज्य में बना। इसी राज्य में देश का पहला माइनिंग इंस्टिट्यूट खुला। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां नेतरहाट स्कूल है। इस स्कूल से बड़ी संख्या में आईएएस एवं आईपीएस भी बनकर लोग बाहर निकले हैं। राज्य वासियों के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1952 में देश का यह तीसरा तकनीकी संस्थान झारखंड प्रदेश में स्थापित हुआ। सभी ने अलग-अलग तरीके और नजरों से सजाने और संवराने का प्रयास किया है।

सिंगल विंडो सिस्टम

सीएम ने कहा कि बीआई मेसरा परिसर के लिए भी सरकार कार्ययोजना तैयार कर रही है। यहां की सभी समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का इंतजाम किया जायेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड को प्रकृति ने भरपूर खनिज संपदा दी है। खूबसूरत वादियां हैं। इसे और बेहतर तरीके से सजाना है। सीएम ने कहा कि लगातार हालात बदल रहे हैं और प्रकृति उस बदलाव के तहत काम भी कर रही है। रांची में बड़े-बड़े तालाब हैं लेकिन उनके हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। अगर इसे नहीं सुधारा गया तो आने वाले दिनों में स्थिति काफी खराब होगी।

मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि हमने ऐसा वक्त इस परिसर में बिताया है जब हमारा देश एक बड़े रिफॉर्म की ओर बढ़ रहा था। बीआईटी के छात्र जीवन को याद

करते हुए सीएम ने कहा कि एक ऐसा वक्त था जब यहां आपस में जंगल हुआ करता था। यह अपने आप में एक शहर है। उन्होंने कहा- अब हालात बदल गये हैं, अब तो

यहां रेलवे स्टेशन भी बन गया है। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां पढ़ता था तो यह इलाका इतना समृद्ध नहीं था। अब काफी बदलाव आ गया है, जिसे देखकर खुशी होती है।

बाबूलाल ने लिया प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज, कहा- खिलेगा कमल

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को झारखंड प्रदेश भाजपा की कमान संभाल ली है। प्रदेश कार्यालय में पदभार संभालने के बाद भाजपा के उमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष का पदभार लेने से पहले बाबूलाल ने भगवा पगड़ी पहनी और दफ्तर में हवन किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस बार कमल खिलेगा। मौके पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रदेश अध्यक्ष चैंबर तक उन्हें ले जाकर चादर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। (शेष पेज 11 पर)



डेंगू रोधी माह (जुलाई 2023)

डेंगू/चिकनगुनिया संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से होता है

याद रखें- प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे, 20 मिनट- अपने घर एवं आस पास मच्छरों के प्रजनन को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करें।

क्या करें

- डेंगू/चिकनगुनिया फैलाने वाले एडिस मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं, इसलिए पानी के बर्तनों, पानी की टंकी आदि को ढक कर रखें। घर के आस-पास सफाई रखें।
- जब भी सोयें, मच्छरदानी के अंदर ही सोयें।
- एडिस मच्छर हमेशा दिन के समय काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें।
- डेंगू/चिकनगुनिया बुखार के उपचार के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। अगर डेंगू/चिकनगुनिया के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
- मच्छरों से बचाव के लिए घर की खिड़की तथा दरवाजे पर जाली लगवायें

क्या नहीं करें

- घर के आस-पास या छत पर प्रयोग में न आने वाले बर्तन, टायर आदि न रखें एवं घर में फूलर, बाल्टी, फूलदान, फ्रिज ट्रे में पानी जमा नहीं होने दें।
- टूटे हुए बर्तन, प्रयोग में नहीं आने वाली बोतलें, टिन, बेकार के टायरों को जमा न रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में इन्हें में पानी जमा होता है, जिसमें एडिस मच्छर पनपते हैं।
- बिना मच्छरदानी के नहीं सोयें।
- शरीर को पूरी तरह न ढकने वाले कपड़ों का प्रयोग नहीं करें।
- बुखार होने पर उसे अनदेखा नहीं करें।
- बगैर जाली लगे खिड़की तथा दरवाजे शाम एवं सुबह में खुले न रखें, क्योंकि इस समय मच्छरों का प्रकोप अधिक रहता है।

तेज बुखार, जोड़ें एवं मांसपेशियों में दर्द को अनदेखा न करें, यह डेंगू/चिकनगुनिया हो सकता है।

ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार



खबर एक नजर में

राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। बताया जाता है कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी।



गुंजन सिंह दिल्ली में प्रदेश प्रभारी से मिलें

रांची। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी की अध्यक्ष गुंजन सिंह ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय, दिल्ली में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला कांग्रेस के कार्यक्रमों का प्रतिवेदन सौंपा। इस दौरान आगामी लोकसभा एवं विधानसभा 2024 की तैयारी पर भी चर्चा की तथा कहा कि महिला कांग्रेस प्रदेश, जिला एवं प्रखंड तक सक्रिय है।



शैल प्रभा पर चलेगी विभागीय कार्यवाही

रांची। ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव शैल प्रभा कुजूर पर विभागीय कार्यवाही चलेगी। कार्मिक विभाग ने सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी रमाकांत सिंह को जांच संचालन पदाधिकारी बनाया है। शैल प्रभा कुजूर पर धनबाद नगर निगम की जमीन से अक्रिमण हटाने में अनियमितता बनते एंव टैफिक सिग्नल की खरीद में गड़बड़ी करने का आरोप है। पुरे मामले में डीसी ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसके बाद नगर विकास विभाग ने झारासे सेवा के इस अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा कार्मिक विभाग से की थी। शैल प्रभा कुजूर से 15 दिनों में लिखित बचाव बयान मांगा गया है।

प्रभात कुमार यादव की जमानत अर्जी खारिज

रांची। एनआइए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में लातेहार में तेतरियाखाड़ कोलियरी आगजनी मामले में जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के सहयोगी प्रभात कुमार यादव उर्फ ड्रिपल यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सात जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपी ने जमानत की गुहार लगाते हुए 19 मई को जमानत अर्जी दाखिल की थी। एनआइए ने लातेहार में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन द्वारा जबरन वसूली के मामले में पांच अगस्त 2021 को सुजीत सिन्हा, अमन साव समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें प्रभात यादव का नाम शामिल है।

दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कैद की सजा

रांची। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन संबंध बनाने के जुर्म में दोषी करार संदीप कुमार उर्फ संदीप साव को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्त को 11 जुलाई को दोषी ठहराया है।

जल संसाधन सचिव व अवर सचिव सशरीर हाजिर हों : हाईकोर्ट

रांची। दुमका में पदस्थापित जूनियर इंजीनियर के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर विभागीय कार्रवाई में बेसिक सेलेरी नीचे कर दिए जाने को चुनौती देने वाली जगन्नाथ प्रसाद साह की अवमानना याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर जल संसाधन विभाग के सचिव एवं उप सचिव को अगली सुनवाई 21 जुलाई को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि प्रतीत होता है कि कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि 16 जून 2023 को कोर्ट ने सरकार को 30 जुलाई 2019 के कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने अन्याया अगली सुनवाई में जल संसाधन विभाग के उप सचिव को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन मामले की पुनः सुनवाई होने पर न तो उपसचिव हाजिर हुए और न ही कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

अब दिनेश गोप की पत्नी से पूछताछ करेगी इडी

खबर मन्त्र व्यूरो

रांची। टेरर फंडिंग मामले में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय गोप ने बी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली है। एनआइए के बाद इडी ने जेल में बंद दिनेश गोप से पूछताछ कर चुकी है।

झामुमो ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा

भाजपा ने झारखंड में ऐसे नेता को पार्टी की कमान सौंपी जो विधायक दल के नेता तक नहीं बन पाये

खबर मन्त्र व्यूरो

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्या ने शनिवार को भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक ऐसे नेता के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी है, जो 2019 के बाद विधायक दल का नेता तक नहीं बन पाये। उन्होंने सर्वांगीण लहजे में पूछा कि क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरने वाली भाजपा के पास संगठन का एक भी व्यक्ति नहीं, जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष बनने की काबिलियत है। सुप्रियो ने कहा कि बाबूलाल कहे तो मोरहाबादी में कुचुबमीनार बनवा देंगे। भाजपा कार्यालय के चारों तरफ नेट लगवा देंगे। कहीं बाबूलाल मरांडी छत पर चढ़ कर कूद न जाएं।



मध्य प्रदेश की घटना पर भाजपा साध लेती है चुप्पी

सुप्रियो ने भाजपा के स्नेह मिलन पर निशाना साधा। भाजपा के लोग आदिवासी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी घटना भूल गए। आदिवासी के सिर पर पेशाब करने वाले भाजपा के नेता पर बोलना भूल गए। पटना में भाजपा नेता पुलिस पर मिर्ची का पाउडर फेंकते हैं और लाठीचार्ज होता है। भोपाल में पीएम मोदी एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी कहते हैं। अभियुक्त को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाया जाता है।

बाबूलाल के अंदर समाया हुआ है डर

सुप्रियो ने कहा कि भाजपा वाले सिर्फ किस्सा-कहानी सुना रहे हैं। बाबूलाल मरांडी दिल से भाजपाई भी नहीं बन सके हैं। भाजपा के अंदर भी भाजपा है। इनमें पुराना भाजपा, रघुवर भाजपा, अर्जुन भाजपा, जेवीएम भाजपा और एक नया भाजपा भी है, जिसके नेता पिछले दिनों अध्यक्ष थे। बाबूलाल मरांडी को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कि जब 2024 में यहां का लुटिया डूब जाएगी तो इन्हें हटाने में आसानी होगी। फिर किसी बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले दिन ही बाबूलाल को अंदर से डर लग रहा है। बकौरिया गोली कांड, तपकरा गोली कांड और मुरहू गोली कांड पर अब बाबूलाल नहीं बोलेंगे। डोमिसाइल आंदोलन में बाबूलाल मरांडी ने माचिस लगाने का काम किया था। तीन आदिवासी युवकों की मौत हुई थी। इसका खुलासा भी 24 जुलाई को हो जाएगा।

2024 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेगी भाजपा

सुप्रियो ने कहा कि भाजपा का हाल 2009 और 2004 की तरह होने वाली है। केवल एक सीट कोडरमा भाजपा के पास थी। 13 सीट हमारी थी। 2024 में एक भी सीट भाजपा नहीं जीतेगी। बाबूलाल सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। सड़कों पर रघुवर दास के खिलाफ संघर्ष करने वाले बाबूलाल मरांडी कभी हमारे साथ थे।

विधायक बेचने वाले नेता हैं बाबूलाल

सुप्रियो ने कहा कि 14 साल तक भाजपा को कोसने वाले बाबूलाल से लोग सबूत मांगेंगे। इन्होंने विधायक बेचने का काम किया है। कहां गयीं सुचित-नैतिकता की बातें। भाजपा ने जो निर्णय लिया, उसके लिए पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ।

झारखंड के अदिवासी-मूलवासी भाजपा के नहीं हो सकते

सुप्रियो ने कहा कि झारखंड के मूलवासी जानते हैं कि झारखंड खैरात में नहीं मिला है। आंदोलन में हजारों लोगों की जान गयी। घर तोड़े गए, केस हुआ है। ऐसे में झारखंड के आदिवासी-मूलवासी कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। वे जानते हैं कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्ट को खत्म करके कॉरपोरेट को घुसाने का काम भाजपा के लोग करेंगे।

वेतनमान को लेकर मोरहाबादी में गरजे राज्य के हजारों टेट सहायक अध्यापक

सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप कहा- मांगें नहीं मानी गयीं तो होगा आंदोलन

मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे टेट पास शिक्षकों को जिला प्रशासन ने मोरहाबादी में ही रोका

खबर मन्त्र व्यूरो

रांची। टेट पास सहायक अध्यापक शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे। मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेराव को निकले सहायक अध्यापकों को प्रशासन ने रोक दिया। शिक्षकों को उग्र होते देख प्रशासन के लोगों ने सीएमओ से वार्ता कराने आश्वसन दिया। इसके



बाद अधिकारियों ने सीएमओ से संपर्क किया परंतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण उनसे वार्ता नहीं हो पायी। मुख्यमंत्री के सलाहकार पिटू श्रीवास्तव ने शिक्षा सचिव से बात करने की कोशिश की, लेकिन शिक्षा सचिव के डुमरी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में रहने कारण

सहायक अध्यापकों को समायोजित करते हुए वेतनमान की मांग की गयी। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को सचिव और मुख्यमंत्री के पास पहुंचा देंगे। ओएसडी ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि वेतनमान के लिए एक जल्द उच्च स्तरीय बैठक हो। इस पर शिक्षकों ने कहा कि यदि जल्द वेतनमान के लिए उच्च स्तरीय बैठक नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा। वार्ता के दौरान महाधिवक्ता की राय और 20 वर्षों का अनुभव एवं शिक्षक बनने की सारी अहता के आधार पर तमाम टेट पास को वेतनमान देना होगा। 50% आरक्षित सीटों पर टेट पास

गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

रांची। रंगदारी और लेवी से पैसे जुटाने और उससे हथियार खरीदकर आतंक फैलाने के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के खिलाफ एटीएस ने विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि अमन श्रीवास्तव गैंग पर लेवी के पैसे से हथियार खरीदकर आतंक फैलाने लिये गोली-बारी व आगजनी कर व्यवसायियों-डेकेदारों में खौफ कायम करने का काम करता था। उसके गुर्गों-सहयोगियों के माध्यम से दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी और आगजनी की घटना को अंजाम दिलाता था। रंगदारी के रूप में मिलने वाली राशि हवाला के माध्यम से रिश्तेदारों तक पहुंचता था। एटीएस को अनुसंधान के दौरान इस गिरफ्तार के फंडिंग, आर्थिक स्रोत व हवाला चैनल का भी पता चला है। मालूम हो कि अमन श्रीवास्तव को 16 मई को महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से वासी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था।

8 अगस्त को जमशेदपुर में होगा प्रदेश छात्र अधिवेशन राज्य की वर्तमान गठबंधन सरकार नीति एवं नियोजन में विफल: सुदेश कु. महतो

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। आज विश्व कौशल दिवस के मौके पर आप सभी युवाओं का राजनीति में पदापन हो रहा है। युवाओं को राजनीतिक कौशल सीखने की सख्त जरूरत है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसकी व्यवस्था पार्टी करेगी। मौजूदा सरकार में राजनीतिक सकौशल की कमी है। यही वजह है कि सरकार कोई भी नीति बनाने और निर्णय लेने में विफल है जिसका खामियाजा आप जनता को भुगतना पड़ रहा है। उक्त बातें रांची हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पार्टी मिलन समारोह में पार्टी अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो ने कहा। जेएमएम के लिए 1932 मुद्दा लेकिन पूरा करने का माद्दा नहीं : 1932 के मुद्दे पर सरकार घेरते हुए श्री सुदेश महतो ने कहा कि सरकार और जेएमएम के लिए 1932 मुद्दा हो सकता है लेकिन उनके अंदर

इसे लागू करने का माद्दा नहीं है। 1932 सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का राजनीतिक एजेंडा है। सुदेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जो अब शिक्षा मंत्री भी हैं उनको यह भी पता नहीं है कि अभी तक पिछले साल की किताबें भी बच्चों को नहीं मिली है और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से तीन साल से साईकल का वितरण नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर एक मोर्चे पर विफल है चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो या शिक्षा देने की। इसी का नतीजा है कि आज 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। दसवीं के बाद 11वीं में पर्याप्त सीट नहीं होने की वजह से कितने बच्चों को या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती या घर से कई किलोमीटर दूर जा कर पढ़ाई करनी होती है। आगामी 8 अगस्त को जमशेदपुर में प्रदेश छात्र अधिवेशन का आयोजन होगा।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, गढ़वा

जिला योजना अनाबद्ध निधि अन्तर्गत शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित अल्पकालीन ई-निविदा संख्या – 01/2023-24/NREP/GARHWA दिनांक 03.07.2023 जो PR 301367 Rural Development(23-24)D द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, के शर्तों में संशोधन किया जाता है जो इस प्रकार है –

- वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :- 22.07.2023
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 31.07.2023 अपराह्न 5:00 बजे तक।
- कार्यालय प्रकोष्ठ गढ़वा में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ-पत्र की मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रती जमा करने की तिथि एवं समय:-01.08.2023 को 03:30 अपराह्न तक।
- निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि स्पष्ट पोस्ट के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। यह निविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि स्पष्ट पोस्ट के माध्यम से भेजा जाने वाला निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि निर्धारित तिथि को समय से पूर्व प्राप्त हो जाय। समय से पूर्व प्राप्त निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि पर ही विचार किया जायेगा।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 02.08.2023 पूर्वाह्न 11:30 बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, रा0ग्रा0नि0, कार्यक्रम, गढ़वा।
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0:- 9431586961
- निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक/अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निविदाकार के नाम/खाता से ही निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में कार्यपालक अभियंता, रा0ग्रा0नि0, कार्यक्रम, गढ़वा के पक्ष में भुगतये होगा जो लौटाया नहीं जायेगा। निविदा की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

कार्यपालक अभियंता रा0ग्रा0नि0 कार्यक्रम, गढ़वा

PR.NO.302446 NREP(23-24):D

कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम

पत्रांक 2581/ दिनांक 14.07.2023 आम सूचना

अपर अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगम, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 328 (AMD) दिनांक 06.12.2022 के आलोक में पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम शहरी क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग (स्वास्थ्य) के तहत संचालित किये जाने वाले Urban Health and wellness Centre के संचालन हेतु चिकित्सकों की सेवा प्राप्त किया जाना है। चिकित्सकों के घयन हेतु दिनांक 25.07.2023 को मेदिनीनगर नगर निगम को पूर्वाह्न 12:00 AM बजे को Walk in interview निर्धारित किया गया है। इच्छुक निजी चिकित्सकों से निम्नांकित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं0	विवरणी	आवश्यक शर्तें
01.	पदनाम	General Duty Medical Officer
02.	मूल्यांकन शैक्षणिक योग्यता	मेडिकल कॉलेज/एच आर डिप्लोमा से मान्यता प्राप्त/किती भी संस्थान से M.B.B.S. की डिग्री।
03.	उम्र सीमा	अधिकतम 67 वर्ष (सिविल सर्जन के माध्यम से निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव पर 70 वर्ष तक के चिकित्सकों की सेवा प्राप्त की जा सकती है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष के लिए मान्य होगी।)
04.	मानदेय	₹10 63000/- (दसलक्ष हजार रुपये मात्र)
05.	कुल सिक्तियां	01 (एक पद) तथा प्रतीक्षा सूची में 02(दो) जो परीक्षा परिणाम के तिथि से 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
06.	अभ्यन्त चिकित्सकों द्वारा अभियंता के लिए नियमित/कैडवेलर हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।	
07.	मानदेय भुगतान में नियमानुसार TDS कटौती की जाएगी।	
08.	Walk in Interview में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।	
09.	कार्य दिवस सोमवार से शनिवार (शुक्र व शनि 8 घण्टे) समय 10:00AM To 5:00 PM	

दिनांक 25.07.2023 को मेदिनीनगर नगर निगम को पूर्वाह्न 12:00 AM बजे Walk in Interview के लिए अपना बायोडाटा, सभी मूल प्रमाण पत्र एवं दो सेट छायाप्रति के साथ मेदिनीनगर नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

ह0/—
नगर आयुक्त-सह-प्रशासक मेदिनीनगर नगर निगम।

PR.NO.302437 District(23-24):D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा

जिला योजना अनाबद्ध निधि अन्तर्गत अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या – 02/RI/2023-24/RWD/GARHWA दिनांक – 14.07.2023

1.कार्य का विवरण :-

क्र0	प्रमण्ड	आई-नटी विक्रेता संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	अंशकित राशि अंक में (लाख में)	अंशर में	परिमाण विवरण की राशि	अंशान की राशि	कार्य समप्ति की अवधि
1	मेराल	RWD/GARHWA/03/2023-24	तराके में REO रोड से शिव नादा तक पथ निर्माण। (0.900 कि0मी0)	67.141	सड़कस लख चौडह हजार एक री रूपये।	10000	135000	तीन महिना
2	गढ़वा	RWD/GARHWA/05/2023-24	करवा में मुडन नहर पुल की020 रोड से प्राथमिक विद्यालय होते हुए कुमरिया रोड तक पीसीटी पथ निर्माण। (0.995 कि0मी0)	69.890	उपरोध लख नवारी हजार रूपये।	10000	140000	तीन महिना
3	मेराल	RWD/GARHWA/06/2023-24	लोढावांग स्वास्थ्य उपकेंद्र से पुडुआ PMSGY रोड तक पथ निर्माण। (0.800 कि0मी0)	85.242	चौबीस लाख पचास हजार दो री रूपये।	10000	171000	तीन महिना

- वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :- 22.07.2023
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 31.07.2023 अपराह्न 5:00 बजे तक।
- कार्यालय प्रकोष्ठ गढ़वा में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ-पत्र की मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रती जमा करने की तिथि एवं समय:- 01.08.2023 को 03:30 अपराह्न तक।
- निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि स्पष्ट पोस्ट के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। यह निविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि स्पष्ट पोस्ट के माध्यम से भेजा जाने वाला निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि निर्धारित तिथि को समय से पूर्व प्राप्त हो जाय। समय से पूर्व प्राप्त निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि पर ही विचार किया जायेगा।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 02.08.2023 पूर्वाह्न 11:30 बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, रा0ग्रा0नि0 कार्य प्रमण्डल, गढ़वा।
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0:- 9431586961
- निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक/अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निविदाकार के नाम/खाता से ही निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में कार्यपालक अभियंता, रा0ग्रा0नि0, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा के पक्ष में भुगतये होगा जो लौटाया नहीं जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा

PR 302434 Rural Development(23-24):D

सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचायें : दीपक प्रकाश

खबर मन्त्र व्यूरो

रांची। भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा ही देश को विश्व गुरु बना सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों को हमें अलग तरीके से परोसाना होगा। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के पास संगठन चलाने का लंबा अनुभव है। उनमें राज्य के कुशासन से मुकाबला करने की क्षमता है। बाबूलाल चुनौतियों का सामना करते हुये राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर कमल खिलायेंगे। इसके पहले संथाल समाज के धर्म गुरुओं, पाहन ने श्री मरांडी को मंच पर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि श्री मरांडी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता तन, मन, धन व लाठी की सख्त संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्य कर रहे लोगों के मन में कार्यकर्ता भाव जिंदा रहे और साथ के कार्यकर्ताओं के प्रति परिवार जैसा अपनत्व बना रहे। लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर



कड़िया मुंडा ने कहा कि बाबूलाल जी को संगठन से लेकर सरकार चलाने तक का सभी अनुभव है। उन्होंने बाबूलाल जी को सुझाव देते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर आप आगे बढ़ें और पार्टी के लक्ष्य तक पहुंचने का काम करें। एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी पार्टी के लिये नये नहीं हैं जब झारखंड गठन के पूर्व भाजपा अपना विस्तार कर रही थी तब से इन्होंने पार्टी को सौंचा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाबूलाल जी कोई नया चेहरा नहीं हैं। हम सभी उनके कार्यों से विफले हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि हर संगठन का एक क्रम है। दायित्व परिवर्तशील है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय ने किया। मौके पर पार्टी के तमाम पदधारी शामिल थे।

परीक्षा पास कराने के नाम पर पुलिसकर्मियों से 50 लाख की वसूली का आरोप, डीजीपी बोले-होगी जांच

खबर मन्त्र व्यूरो

रांची। विस्थापित भवन धुवां में ट्रेनिंग कर रहे कुंदन कुमार नाम के पुलिसकर्मियों ने परीक्षा पास कराने के नाम पर सुशांतों घोष नामक व्यक्ति पर पुलिसकर्मियों से 50 लाख की वसूली करने का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मियों कुंदन कुमार ने डीजीपी समेत झारखंड पुलिस से इसकी लिखित शिकायत की है। लिखित शिकायत में कहा गया है कि 26 जून को विस्थापित भवन धुवां में सिपाही से एएसआई की प्रोन्नति के लिए हुई परीक्षा में ए. कंपनी के चेस्ट नं. 77 और बी कंपनी के चेस्ट नं. 96 से करीब 50 लाख रुपये (प्रति व्यक्ति 15

मामले की होगी जांच : डीजीपी इस मामले में डीजीपी अजय कुमार सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच होगी और इस मामले को दिखवाते हैं।



मामले की होनी चाहिए त्वरित जांच : झारखंड पुलिस में एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि मामला गंभीर है, ऐसे मामले की त्वरित जांच होनी चाहिए। पुलिसकर्मियों का किसी भी तरह का दोहन बर्बाद नहीं किया जायेगा।

हजार को दर) की वसूली की है। राजभवन के गेट नंबर 1 के पास दिया गया पैसा : शिकायत पत्र में कहा कि हाल ही में राजभवन के गेट नंबर-1 पर सुशांतों घोष नामक व्यक्ति को परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसा दिया गया। वह व्यक्ति गवर्नर हाउस का कथित बड़ा

पदाधिकारी है। जिसने डीजीपी को कहकर सबको पास कराने की बात कही। राजभवन स्थित गेट नं. 1 के सीसीटीवी में सभी की तस्वीर की कैद हुई है लेकिन जैसे ही सुशांतों घोष को पता चला कि सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वहां से भाग गया।

फर्जी तरीके से सेना में भर्ती कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़, एक आरोपी धरया

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों से पैसे वसूल कर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मिलिट्री इंटीलोजेंस की सूचना के आधार पर नामकुम थाना की पुलिस ने छापेमारी कर एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से मार्कशीट, मेडिकल से संबंधित गोपनीय दस्तावेज और अन्य प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं। इसके अलावा संस्थ के मोबाइल में फर्जी भर्ती से संबंधित कई



रिकॉर्डिंग भी मिली है। यह रैकेट फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर प्रत्येक अभ्यर्थियों से 50 हजार वसूलता था। जानकारी के मुताबिक, सेना की सेंट्रल कमान की एमआई को इस बात की सूचना मिली थी कि रांची में सेना की रिज्यूटमेंट रैलियों में पैसा देकर फर्जी तरीके से मेडिकल टेस्ट पास कराया जा रहा है।

बीआइटी मेसरा के 68वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों व शिक्षकों को किया संबोधित

नीति आयोग के कार्यों पर बरसे सीएम, कहा

यही रवैया रहा तो डिजास्टर आयेगा

खबर मन्त्र व्यूटो

रांची। बीआइटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने नीति आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कार्य हो रहा है एक दिन राज्य में डिजास्टर आयेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नीति आयोग कि टीम झारखंड आची थी, कई मसलों पर बात हुई, लेकिन जिस तरीके से नीति आयोग काम कर रहा है और जिन नीतियों के तहत काम कर रहा है, वह राज्य में डिजास्टर लायेगे और हम बचने की स्थिति में नहीं होंगे। नीति आयोग की टीम से उन्होंने सवाल किया कि जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधन का दोहन किया जा रहा है वह किस लेवल पर जाकर रहेगा। आप पहाड़ को तोड़ कर कोयला निकाल रहे हैं वहां बात समझ आ रही है, लेकिन धान पैदा करने वाले खेत से जिस तरीके से



आप कोयला निकाल रहे हैं, क्या वहां धान फिर से पैदा होगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में अधिकारियों ने इस बात को माना कि झारखंड का शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा और दूसरी शिक्षा में काफी आगे बढ़ रहा है, जो काफी सराहनीय है। राज्य में चलाई जा रही योजनाओं के लिए उन्होंने पूरे राज्य की सराहना की।

लगातार घट रहे पेड़ों पर सीएम ने जतायी चिंता

हेमंत सोरेन ने कहा कि अब शहरीकरण बढ़ रहा है लोग पेड़ों

को काट रहे हैं और हालात बदलते जा रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो एयर कंडीशन कमरे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहां हर कमरे में एसी लग गया है। हमने शहर के लोगों को ऑफर दिया है कि एक पेड़ लगाओगे तो 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। फ्री देना हमारी आदत नहीं है और न हमारी चाहत है। मुफ्त में चीजें लेना सबकी आदत है, तो हमने सोचा कि इस लालच में ही लोग एक पेड़ लगा लेंगे। आज नहीं तो कल सभी लोगों को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा ताकि प्रकृति की हरियाली बची रहे।

खबर मन्त्र व्यूटो

रांची। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि युनिया तेजी से विकसित हो रही है और सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है। पिछले दशकों के सिद्ध मॉडल निरर्थक होते जा रहे हैं। हम नए हो रहे हैं। सभी क्षेत्रों में चुनौतियां हैं जिनके लिए आधुनिक समाधान की आवश्यकता है। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन शनिवार को बीआइटी मेसरा के 68वें स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियों व शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है और हर समाधान की कोई न कोई समस्या होती है। हालांकि, मुझे विश्वास है कि इस



पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में युवा इंजीनियर व वैज्ञानिक करें मदद

राज्यपाल ने उम्मीद जतायी है कि बीआइटी मेसरा झारखंड राज्य और देश के लोगों की भलाई के साथ-साथ आर्थिक समृद्धि के लिए इंटीलिजेंस, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, सैटेलाइट संचार, बिजली उत्पादन और वितरण, जल संसाधन प्रबंधन और कई अन्य क्षेत्रों में योगदान देगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराहनीय नेतृत्व किया है। दुनिया, आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए उत्सुकता से तकनीकी समाधान तलाश रही है ऐसे में भारत के युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को चाहिए कि इस कार्य में सफलता हासिल करने में मदद करें।

संस्थान के छात्र इन चुनौतियों से निपटने और विशिष्टता के साथ देश

और पेशे की सेवा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर हटिया दो नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू, जांच जारी

रांची। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर हटिया से दो नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया गया है। दोनों गुमला के भरनो थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। गुमला पुलिस की सूचना पर हटिया डीएसपी और जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने छापेमारी कर एक घर से दोनों को बरामद किया है। दोनों नाबालिग लड़की को झारखण्ड से बाहर ले जाने के लिए भरनो से रांची लेकर आया था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली और दोनों लड़की का रेस्क्यू किया गया है। पुलिस की छानबीन जारी है।

पीपी कंपाउंड में तीसरे तल्ले से गिरकर 90 वर्षीय महिला की मौत, मामला संदेहास्पद

रांची। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित पीपी कंपाउंड में तीसरे तल्ले से गिरकर दर्शन करी नाम की 90 वर्षीया महिला की मौत हो गई। हालांकि पुलिस के मुताबिक, महिला के तीसरे तल्ले से गिरने का मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला के गिरने के काफी देर के बाद पुलिस को घटना की जानकारी हुई। सोशल मीडिया में घटना की खबर चलने के बाद पुलिस को इसका पता चला। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गयी।

आचार्यकुलम विद्यालय में अलंकरण समारोह का आयोजन, दिलायी गयी शपथ

रांची। आचार्यकुलम विद्यालय में शुक्रवार को अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति ने विद्यालय के चारों सदनों के कप्तानों को अलंकृत कर कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलायी। बता दें कि आपस सदन के अन्वेषा पॉल और श्रेष्ठ माधुर, तेजस सदन के इशिका प्रजापति और तक्षशील आदित्य शरण वायु सदन के गिन्नी पुरोहित और आदित्य राज जबकी पृथ्वी सदने के संजना चटर्जी, अविनाश कुमार और हेड गर्ल आरोही पाठक और हेड बॉय वैभव उपाध्याय चर्चवित किए गए हैं। विद्यालय की प्राचार्या सुजाता करी एवं पूज्य स्वामी दिव्यदेव जी ने चयनित सभी सदस्यों को पदों से अलंकृत कर उन्हें कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई।

रिम्स में हिमोफीलिया ट्रीटमेंट सोसाइटी की मनी छठी वर्षगांठ, दी गयी जानकारी

रांची। हिमोफीलिया ट्रीटमेंट सोसाइटी ने शनिवार को छठी वर्षगांठ महिला समूह के नेतृत्व में मनाया। मौके पर डॉ गोविंद जी सहाय ने इलाज की व्यवस्था पर प्रकाश डाला। वहीं डॉ मिनी रानी अखोरी ने हिमोफीलिया मरीजों के साथ व्यवहार को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की, जबकि डॉ पार्थ चौधरी ने कहा कि राज्य के लिए रिम्स का यह सेंटर मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। वहीं, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ स्वाति ने हिमोफीलिया बीमारी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुक्ता जयसवाल, तरुण हरिओम और संजय उपस्थित थे।

दोनों पैर से दिव्यांग डिंपल मिश्रा आत्मविश्वास और हुनर के साथ भर रही है होसले की उड़ान

रांची। जब किसी इंसान के दोनों पैर काम ना करते हो और वह उड़ना चाहे तो बस उड़ने के लिए उसके होसले ही उसके साथ होते हैं और इन्हीं होसलों के साथ उड़ रही है चार भाई-बहनों में सबसे छोटी बहन जिसने कभी स्कूल की दहलीज तक पाव नहीं रखा, वह आज समाज के लिए एक मिसाल बन गई है, जी हां हम बात कर रहे हैं एचएससी की डिंपल मिश्रा की। बचपन से ही डिंपल मिश्रा के दोनों पैर काम नहीं करते हैं लेकिन डिंपल मिश्रा ने हार नहीं मानी और अपने हाथों की हुनर की बदौलत आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। डॉक्टर वाइव्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित मेले में इन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। यह स्टॉल एसोसिएशन के द्वारा इन्हें निःशुल्क दिया गया है। आप इनके स्टॉल पर आएं तो आपको मिलेगा मोतियों से बना हुआ पर्स, मैट, ज्वेलरी सहित अन्य सामग्री आसानी से आपको इनके स्टॉल पर मिल जाएगी। यह सिर्फ व्यापार नहीं करती बल्कि गरीब व असहाय बच्चों को अपने काम का हुनर भी सिखाती हैं जो बिल्कुल निशुल्क होता है। खास बात यह है कि पैसा देने के बाद भी वह किसी पैसे वालों को यह हुनर नहीं सिखाती। 2016 में तत्कालीन राज्यपाल द्रौपति मुर्मू के हाथों सम्मानित भी हो चुकी हैं।

चिकित्सकों ने बच्चों के पोषण पर की चर्चा

रांची। इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईपीई) रांची शाखा की कार्यशाला रिम्स के ट्रॉमा सेंटर स्थित ऑडिटोरियम में हुई। पहले दिन राज्य भर के शिशु रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों के विस्तारित पोषण पर चर्चा की गयी। एम्स देवघर से आए डॉ सार्थक दास, वर्धमान मेडिकल कॉलेज के डॉ तारकनाथ घोष, डॉ सुनिता कात्यायन और डॉ अमर वर्मा ने व्याख्यान दिये। डॉ कल्यायन ने स्तनपान और उसके फायदों पर चर्चा की। डॉ सार्थक ने प्रेटम और कम वजन वाले बच्चों में पोषण को कायम करने के उपायों पर अपना विचार रखा। डॉ अमर वर्मा ने सिलियक बीमारी और बच्चों के मोटापा रोग से लड़ने के उपाय बताये। कार्यक्रम का उद्घाटन रिम्स के निदेशक डॉ राजीव गुप्ता द्वारा किया गया।

सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के सेल्फी विजेताओं को मिला पुरस्कार

समाज से जुड़ने के लिए भी हो राजनीति : संजय

खबर मन्त्र व्यूटो

रांची। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में हुई सेल्फी प्रतियोगिता के विजेताओं को शनिवार को पुरस्कृत किया गया। यह आयोजन सांसद संजय सेठ ने अपने केंद्रीय सांसद कार्यालय में किया था। लगभग तीन दर्जन विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सांसद के हाथों पुरस्कार पाकर विजेता प्रतिभागी काफी खुश दिखे। सेल्फी विजेताओं ने कहा कि उन्हें भी पहली बार एहसास हुआ कि मोबाइल के माध्यम से भी पुरस्कार जीता जा सकता है। श्री सेठ ने कहा कि रांची लोकसभा



क्षेत्र के कलाकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें आयोजित किया गया सेल्फी प्रतियोगिता भी एक तरह की कला की प्रदर्शनी थीए क्योंकि फोटोग्राफी भी एक कला ही है। मुझे भी खुशी हो रही है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारे पास सैकड़ों की संख्या में

सेल्फी आई, जिसमें हमने लगभग 5 दर्जन बेस्ट सेल्फी का चुनाव किया। आज उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि ऐसे आयोजन से हमें सीधे जनता से जुड़ने का मौका मिलता है। इस अवसर पर इस सेल्फी प्रतियोगिता के संयोजक रमेश कुमार, मुकेश काबरा, प्रमोद सिंह, मनोज साहू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

बिजली कर्मी अगस्त में करेंगे हड़ताल

खबर मन्त्र व्यूटो

रांची। झारखंड बिजली वितरण निगम के लगभग दो हजार कर्मचारी आने वाले महीने में हड़ताल पर आने की योजना बना रहे हैं। इसके लिये झारखंड उर्जा विकास निगम के कर्मचारियों ने झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन की बैनर तले निगम प्रबंधन को चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि हड़ताल में जाने वाले सभी कर्मचारी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं। जो राज्यभर में

बिजली व्यवस्था का संचालन करते है। इसमें तकनीक कर्मचारियों के साथ बटनपंप संचालक समेत अन्य कर्मी शामिल होंगे। इसके पहले दिसंबर में पावर वर्कर्स यूनियन की ओर से हड़ताल बुलाई गयी थी। हड़ताल मुख्य रूप से प्रमोशन के लिये किया जायेगा। वहीं, एक अगस्त को रांची विद्युत आपूर्ति कार्यालय में कर्मियों का विरोध प्रदर्शन होगा। यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि अगर प्रबंधन कर्मियों के हड़ताल को

गंभीरता से नहीं लेती है तो आंदोलन और भी उग्र किया जायेगा। रांची जिला के कर्मियों का प्रमोशन बाधित : आशीष ने बताया कि निगम के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मी को प्रमोशन क्षेत्रीय महाप्रबंधक की अनुशंसा पर दी जाती है लेकिन रांची में ऐसा नहीं हो रहा है। प्रमोशन के लिये कई बार विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक से अपनी बात को रखा गया। बावजूद प्रमोशन के मामले पर लटकता जाता रहा है।

नेत्रदान करने वाले 11 परिवारों को सम्मान

खबर मन्त्र व्यूटो

रांची। जवान बेटे की मौत को भूल नहीं पा रहे हैं लेकिन खुशी इस बात की है कि आज उसकी आंखें दुनिया देख रही है। भले ही वो हमलोगों के बीच नहीं फिर भी उसके साथ रहने का एहसास होता है। यह कहते हुए रेणु गुप्ता की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दरअसल रेणु के 28 वर्षीय बेटे सिद्धांत राज की मौत हो गयी। इसके बाद पति जयराज प्रसाद चंदन के निर्णय पर अपने बेटे के नेत्रदान करने का निर्णय लिया।

रेणु गुप्ता हजारीबाग के मांडू की रहने वाली है और मिडिल स्कूल में शिक्षिका है। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर सोटो ने रिम्स के प्रशासनिक भवन में कार्यक्रम आयोजन कर नेत्रदान करने वाले 11 परिवारों को सम्मानित किया। रिम्स में अब तक 95 लोगों का किया गया कॉर्निया ट्रांसप्लांट : निदेशक डॉ आरके गुप्ता ने कहा कि 2018 में रिम्स में कॉर्निया ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई थी। टीम भावना के साथ काम करते हुए ट्रांसप्लांट शुरुआत किया गया। 18

अगस्त को पहली बार रिम्स के नेत्र विभाग में कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुई। अब तक 95 कॉर्निया का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। डॉ आरके गुप्ता ने कहा कि अब लॉस ट्रांसप्लांट शुरु करने की योजना है। एक व्यक्ति के अंग दान करने से बच सकती है 8 लोगों की जान डीन डॉ विद्यापति ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान करने से सात से आठ लोगों को की जान बचाई जा सकती है। हालांकि लोगों में जागरूकता की कमी है और

अंगदान को लेकर भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। यूरोलॉजी के एचओडी डॉ अरशद जमाल ने कहा कि यह विज्ञान की उपलब्धि है कि हम सफलतापूर्वक दिये गये अंग का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रिम्स में कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सेवा शुरू हो गयी है। अब बारी है किडनी ट्रांसप्लांट की है। मौके पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ हिरेन्द्र बिरुआ, चिकित्सा उपाधीक्षक डॉ शैलेश त्रिपाठी, नेफ्रोलॉजी विभाग की डॉ प्रजा पंत, रिम्स नेत्र विभाग के चिकित्सक-कर्मचारी मौजूद थे।

डंगरा टोली चौक में स्थित सावित्री कॉम्प्लेक्स में खुला जोहार रेस्टोरेंट



भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने किया उद्घाटन

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। रांची के डंगरा टोली चौक स्थित सावित्री कॉम्प्लेक्स के दूसरे तल्ले में शनिवार को भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव

ने जोहार रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर में रेस्टोरेंट का खुलना समृद्धि का परिचायक है। लोग यहां परिवार के साथ भोजन का आनंद उठा पायेंगे। संचालक सरबजीत राज और गौरव हलदर ने बताया कि जोहार रेस्टोरेंट में कॉन्टेनेंटल, चाइनीज के साथ स्वादिष्ट भोजन की भी सुविधा है। होम डिलीवरी भी उपलब्ध है।

29 जुलाई को होगा शुभारंभ, सिनेमा थियेटर के अलावा कई ब्रांड्स के प्रतिष्ठान लगायेंगे चार चांद

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। रांची के न्यू मार्केट चौक, रातू रोड के पास आकाशवाणी के सामने मॉल ऑफ रांची का शुभारंभ 29 जुलाई को होने जा रहा है। अपने शुभारंभ से यह मॉल रांची शहर की रौनक में चार चांद लगा देगा क्योंकि इस मॉल में देश विदेश के नामी गिरामी ब्रांड्स के शोरूम सुसज्जित होंगे। मॉल ऑफ रांची के डायरेक्टर नीतीश अग्रवाल के अनुसार यह मॉल ढाई लाख स्क्वायर फीट में अत्याधुनिक भवन निर्माण शैली के अनुसार निर्मित हुआ है। अपनी निर्माण शैली, भव्यता, साज-सज्जा और समुचित प्रबंधन में मॉल ऑफ

छटे फ्लोर पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और लैटेस्ट गेमिंग जॉन होगा उपलब्ध

स्टारकेड सेंटर भी झारखंड वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं प्रकाश झा के सिनेमा स्क्रीन्स पीजेजी सिनेमा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। कुछ ऐसे भी ब्रांड्स आने वाले हैं जो झारखंड में पहली बार मॉल ऑफ रांची में लोगों को लुभाएंगे। नीतीश अग्रवाल ने आगे बताया कि मॉल ऑफ रांची 8 फ्लोर्स हैं और टोटली सेंट्रली एयरकंडीशंड है। इसमें लिफ्ट और एक्सक्लेटर का समुचित और सुरक्षित प्रबंध है। मॉल में आने वाले लोगों को पार्किंग की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए मॉल में 2 फ्लोर्स में पार्किंग भी है। कुल मिला कर ऐशो आराम से लेकर मॉर्डन लाइफस्टाइल को सुकून देने वाला हरेक संसाधन यहां उपलब्ध होगा। जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग, युवक युवतियों

रांची बेमिसाल होगा। इस मॉल में देश विदेश के सुप्रसिद्ध ब्रांड्स के

तकनीकी उन्नति से निकले सकारात्मक परिणाम

राज्यपाल ने कहा कि अब हम भविष्य की यात्रा की ओर आगे बढ़ गए हैं। हमने महामारी के दौरान तकनीकी नवाचार भी देखा। आर्थिक गतिविधियां अब पट्टरी पर हैं, विकास दर बढ़ रही है। स्टार्ट-अप को सरकार समर्थन दे रही है। खुले, नवोन्मेषी और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था बनेगा। तकनीकी उन्नति से सभी लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम आने चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन से देश में आयेगा एक आदर्श बदलाव

राज्यपाल ने कहा कि मैं यहां सिर्फ भारतीय शिक्षण संस्थानों जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और भी कई संस्थानों के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। बाणभक्त की कादंबरी, लगभग 1400 साल पहले के नालंदा के शुरुआती चरण के समकालीन, एक सच्चे शिक्षित व्यक्ति का वर्णन करती है, जिसने कई कलाओं या कलाओं में महारत हासिल की है। इसमें इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों के अलावा भाषाएं और साहित्य भी शामिल हैं। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के पूर्ण कार्यान्वयन से एक आदर्श बदलाव आएगा। मुझे विश्वास है कि बीआईटी मेसरा इस परिवर्तनकारी परिवर्तन का एक उदाहरण स्थापित करेगा। नीति के लोकाचार को अपनाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ाएगा।

खबर एक नजर में

पूर्व विधायक के निधन पर स्पीकर शोकाकुल

रांची। पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर का शनिवार की सुबह रांची के रिम्स में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने दिवंगत आत्मा की शांति के ईश्वर से प्रार्थना की है। स्पीकर ने कहा कि उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हरिहर प्रभाकर राज धनवार विधानसभा क्षेत्र से 1977, 1985 और 1990 में विधायक चुने गये थे।

छूटे शिक्षकों की सेवा सत्यापन और वेटन वृद्धि कार्य संपन्न

रांची। रातू प्रखंड के छूटे हुए शिक्षकों का सेवा सत्यापन एवं वेटन वृद्धि का कार्य शनिवार को किया गया। शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रातू ने छूटे शिक्षकों की सेवा का सत्यापन किया। इस दौरान राज्य प्रतिनिधि राष्ट्रीय शैक्षिक महासच रांची जिला झारखंड अजय कुमार, महामंत्री अरुण कुमार और सम्मानित सदस्य छट्टू साहू और दीपक चौधरी की उपस्थिति थे।



रिम्स में टीओ और टीसी लिए दो अभ्यर्थी चयनित

रांची। रिम्स में टेक्निकल कंसल्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर के दो पदों के लिए हुए साक्षात्कार का परिणाम घोषित किया गया है। इसमें निलेश कुमार का चयन किया गया है, जबकि इंद्रनील पान और पम श्रीनिवास को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। वहीं, पीएसएम विभाग के अधीन संचालित स्टेट सेंटर ऑफ एक्ससीलेंस सिवियर एक्वेट मालन्यूट्रेशन में निकाले गए टेक्निकल कंसल्टेंट के पद पर राकेश कुमार का चयन किया गया है, जबकि आशुतोष कुमार और नीरज कुमार को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। दोनों ही चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के अंदर सेवा देने का निर्देश दिया गया है।

महिला के मकान पर दबंगों ने किया कब्जा

रांची। रांची की एक विधवा महिला ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगायी है। इस संबंध में महिला न सिर्फ राष्ट्रपति को पत्र लिखी है, बल्कि महिला आयोग से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुकी है। जब महिला न्याय के लिए कोतवाली थाना जाती है तो उसे डरा धमका कर भगा दिया जाता है। फोन कर जेल जाने की धमकी दी जाती है। जानकारी के मुताबिक, महिला अंजू देवी लालपुर में किराए के मकान में रहती हैं। उनके पति की संपत्ति अपूर बाजार में है। 15 साल पहले उनके पति अरुण शर्मा की मौत हो गई है। अंजू देवी का कहना है कि उसकी संपत्ति पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब वह संपत्ति की मांग की या दुकान खाली करने के लिए दुकानदार संतोष सोनी को बोला तो उसके साथ अभद्रता की गई। उसके बच्चों को पीटा गया और उन्हें वेश्या बोला गया। महिला ने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह जान दे देगी।

मेले में हुई जमकर खरीदारी

रांची। डॉक्टर वाइफ एसोसिएशन के द्वारा आयोजित मेला शनिवार को संपन्न हो गया। झुमा सरकार ने कहा इस बार मेला अच्छा रहा। बनारसी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग साड़ी, कुर्ती, कुर्ती सेट, सजावटी समान, हैड बैग, गिफ्ट बकेट, जयपुरी शोपीस, पूजा चौकी, जर्मन सिल्वर के पूजा के बर्तन खूब बिके।



रातू रोड में नवनिर्मित मॉल ऑफ रांची बना हुआ है टॉक ऑफ रांची

रांची। रांची के न्यू मार्केट चौक, रातू रोड के पास आकाशवाणी के सामने मॉल ऑफ रांची का शुभारंभ 29 जुलाई को होने जा रहा है। अपने शुभारंभ से यह मॉल रांची शहर की रौनक में चार चांद लगा देगा क्योंकि इस मॉल में देश विदेश के नामी गिरामी ब्रांड्स के शोरूम सुसज्जित होंगे। मॉल ऑफ रांची के डायरेक्टर नीतीश अग्रवाल के अनुसार यह मॉल ढाई लाख स्क्वायर फीट में अत्याधुनिक भवन निर्माण शैली के अनुसार निर्मित हुआ है। अपनी निर्माण शैली, भव्यता, साज-सज्जा और समुचित प्रबंधन में मॉल ऑफ



रांची बेमिसाल होगा। इस मॉल में देश विदेश के सुप्रसिद्ध ब्रांड्स के शोरूम के अलावा मॉर्डन गेम फैशन शॉप और लाइफस्टाइल से जोन, फूडजॉन, सिनेमा स्क्रीन, जुड़े प्रतिष्ठान होंगे।

विधि- व्यवस्था में निपुण, धुन में भी है माहिर पुलिस बैंड

कुचेर सिंह

रांची। देश का पहला महिला पुलिस बैंड झारखंड से है। 21 मैचों वाला यह बैंड अखिल भारतीय पुलिस बैंड कॉम्पटीशन का परफॉर्मिस जयपुर, पंजाब समेत अन्य राज्यों में दे चुकी है। बैंड में शामिल 21 महिलाएँ हैं जो बैगपाइपर, साइड ड्रमर और बेस ड्रस्ट्रमेंट बजाती हैं। बैंड पहली बार झारखंड से बाहर परफॉर्मिस दे रहा है और अवार्ड जीत कर देश व राज्य का नाम रोशन कर रही है। देश भर में झारखंड पुलिस का मान बढ़ाने के लिए 17 जुलाई को झारखंड के डीजीपी अनजय कुमार

झारखंड ने देश को दिया पहला महिला पुलिस बैंड, कल डीजीपी करेंगे सम्मानित



सिंह सम्मानित करेंगे।

विधि-व्यवस्था में निभा रही हैं भूमिका : झारखंड जैप 10 में पदस्थापित 21 सदस्यीय दल अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में प्रस्तुति देने के बाद

देश ही नहीं, राज्य में अव्वल बैंड में शामिल हो गई है। महिला बैंड में शामिल महिला पुलिसकर्मी झारखंड हाईकोर्ट, विधानसभा, प्रोजेक्ट बिल्डिंग समेत राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को

“महिला बैंड वर्तमान में विधि-व्यवस्था संभाल रही है। यह राज्य ही नहीं, देश के लिए गौरव की बात है।”

धनंजय कुमार सिंह कमांडेंट, जैप 10

संभाल रही हैं।

गूंज उठे पहले महिला पुलिस बैंड के स्वर : जो बातें हम शब्दों में नहीं अभिव्यक्त कर सकते, उन्हें संगीत में पिरो देना सबके बस की बात नहीं। देश के 21 सदस्यों वाले पहले महिला पुलिस बैंड ने

झारखंड के लोकगीत, देशभक्ति और रोमांटिक गानों को संगीत के जरिए बयान किया। इनकी जिद है अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में सबसे अव्वल आना और इसी की तैयारी के लिए यह बैंड जयपुर आया। चुनौती यह है कि इस प्रतियोगिता में अब तक पुरुष पुलिस बैंड ही हिस्सा लेते आए हैं। इस महिला बैंड ने पहली बार अपने राज्य से निकल कर किसी दूसरे राज्य में प्रस्तुति दी है। हालांकि यह बैंड इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा

है। यह सिर्फ प्रतियोगिता के उद्घाटन पर प्रस्तुति देगा।

2010 में बना सशस्त्र बैंड : इस महिला पुलिस बैंड की अगुवाई कर रही कांस्टेबल मीनाकुमारी ने बताया कि बैंड बनाने के पीछे कारण झारखंड की महिला बटालियन परेड का प्रतिनिधित्व करना है। यह बैंड 2010 में 21 महिला कांस्टेबल के साथ शुरू किया। इसको सशस्त्र बैंड नाम दिया गया है। इसमें मैजर्स बैगपाइपर, साइड ड्रमर और बेस ड्रस्ट्रमेंट को बजाती हैं। रोज सुबह-

बर्थडे पार्टी से लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म

खबर मन्त्र संवाददाता

कोकर में वारदात

दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

साथ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए सदर इलाके के एक रेस्टोरेंट में गई हुई थी। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उस दौरान चारों लड़के भी उसी के साथ लौट रहे थे। अचानक एक सुनसान जगह पर चारों ने उसे छेड़खानी करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर चारों ने उसे पास ही एक सुनसान जगह ले गए और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद चारों अपराधियों मौके से फरार हो गए।

नाबालिग ने परिजनों को दी घटना की जानकारी : नाबालिग छात्रा ने पुलिस को बताया है कि किसी तरह वह झारखंड की देर रात



अपने घर पहुंची और अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की जानकारी प्राप्त होने के बाद माता-पिता अपनी बेटी को साथ लेकर देर रात ही सदर थाना पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है। बलात्कार की शिकार नाबालिग छात्रा सभी आरोपियों को पहचानती

हैं, क्योंकि वे उसी मोहल्ले में रहता है। बताया जाता है कि उन्हीं में से एक का बर्थडे भी था, जिसकी पार्टी में नाबालिग छात्रा गई हुई थीं। मामला संज्ञान में आते ही सदर थाने की टीम ने शनिवार की सुबह तक दो नाबालिगों को निरुद्ध कर लिया जबकि दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को रांची के सदर अस्पताल में छात्रा की मेडिकल जांच भी करवाई गई है।

सिटी बस कर्मियों ने किया नगर निगम का घेराव

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। जवाहर लाल नेहरू शहरी बस सेवा कर्मचारियों ने शनिवार को रांची नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। सिटी बस सेवा कर्मियों के इस घेराव कार्यक्रम को सीपीआई ने भी सहयोग किया। घेराव से पहले सीपीआई नेता और बस कर्मचारी अल्बर्ट एक्का चौक में एकत्रित हुए। जिसके बाद रैली के रूप में सभी नगर निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। घेराव कार्यक्रम के तहत निगम बस कर्मियों व भाकपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने रांची नगर निगम के मुख्य गेट को तीन घंटे तक बंद रखा। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन से मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पहले से समय तय नहीं होने के

कारण नगर निगम की ओर से 17 जुलाई को मिलने का समय दिया गया। ाकपा नेता अजय सिंह ने बताया कि निगम की ओर से 2010 से अभी तक कार्य कर रहे कर्मियों का वेरिफिकेशन नगर आयुक्त अपनी निगरानी में करायें। नियमावली को अनुरा शहर में बसों का संचालन हो, सभी बसों में भाड़ा निर्धारित किया जायें। रेट चार्ट लगायें और टिकट उपलब्ध कराया जायें। महिला बस पर महिला कर्मचारी सुनिश्चित कराया जायें। सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान बैंक अकाउंट में किया जायें। इस दौरान नगर आयुक्त से इन मांगों पर उचित कारवाई करने की अपील की। कार्यक्रम में सिमरन मिंज, किरण कुमारी, मोनिका कुमारी, अजय चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे।

जिस विषय में रुचि हो, उसी में कॅरियर बनाएं : विनय मिश्रा

रांची। चाणव्य आइएएस एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय कुमार मिश्रा ने शनिवार को कहा कि जो बच्चे प्लस टू कर लिये हैं। वह अपने कॅरियर का चुनाव अपने मन से करें ताकि उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि यही वह समय होता है जब एक विद्यार्थी अपने पूरे जीवन को निर्धारित कर

सकता है कि जिंदगी को उसे किस ऊंचाइयों तक ले जाना है। बता दें विनय मिश्रा चाणव्य आइएएस एकेडमी लालपुर में छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर झारखंड हेड अनुराग मिश्रा, अभिनव मिश्रा व सत्यम कश्यप मौजूद थे।



जिस विषय में रुचि हो, उसी में कॅरियर बनाएं : विनय मिश्रा : हजारीबाग के बड़कागांव स्थित एनटीपीसी कोल परियोजना चर्चा

झारखंड में आगेनाइज्ड क्राइम का फैला है जाल, जेल से रची जा रही हत्याओं की साजिश

वसूलने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं वो जेल से हत्याओं की साजिश भी रच रहे हैं। कई बड़े अपराधी जेल के अंदर से ही मौबाइल फोन के सहारे अपने गुणों के सहयोग से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। हाल के महौने की कई ऐसी हत्या घटनाएँ सामने आयी हैं, जिसके तार जेल के अंदर बंद अपराधियों से जुड़े थे।

जेल में रची गयी थी ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की हत्या की साजिश : हजारीबाग के बड़कागांव स्थित एनटीपीसी कोल परियोजना चर्चा

में कोयला उत्खनन का काम कर रहे ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की बीते 9 मई को हत्या कर दी गयी थी। इस हत्या की साजिश पंजम बंगाल के कोलकाता जेल, दुमका सेंट्रल जेल और हजारीबाग सेंट्रल जेल में अप्रैल माह में बनी थी। कोलकाता जेल में बंद अमन साहू ने दुमका जेल में बंद अपने गुणों से संपर्क किया। इसके बाद उसके गुणों ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद अपने गुणों से संपर्क किया और हजारीबाग जेल से मॉनिटरिंग करते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया। ड्रग पेडलर डॉली ने सेंट्रल

जेल से रची थी हत्या की साजिश सराइकेला के आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के फिरोज अंसारी की हत्या मुस्तफा अंसारी ने करायी थी। मुस्तफा अंसारी ने अपने पिता साबिर हुसैन की हत्या का बदला लेने के लिए घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद अपनी बुआ ड्रग पेडलर डॉली परवीन के साथ मिलकर साजिश रची थी। आरोप है कि साबिर की हत्या में फिरोज ने की थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बीते छह जुलाई को मुस्तफा अंसारी, अब्दुल करीम और मो. दिलदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बिपू खान की हत्या की साजिश भी जेल में रची गयी थी रांची के बरियारू थाना क्षेत्र के एदलहातु के टॉटे चौक स्थित अखड़ा के पास छह जून की देर शाम बिपू खान उर्फ तनवीर आलम की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड की साजिश बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद राज वर्मा ने रची थी। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर गठित एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड में शामिल दो सहजिव और श्रीवास्तव, मोहम्मद आरिफ, अंकित कुमार सिंह, दीपक कुमार सिंह और

अकाउंटेंट संजय सिंह की हत्या की प्लानिंग जेल में की गयी रांची के जमीन कारोबारी स्व. कमल भूषण के अकाउंटेंट संजय सिंह की हत्या की साजिश जेल में बंद डब्लू कुजूर और राहुल कुजूर ने रची थी। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर गठित एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड में शामिल दो शूटर समेत पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संदीप प्रसाद, आकाश कुमार, विवेक कुमार शर्मा, डब्लू कुजूर की पत्नी सुशीला कुजूर और शाहिल बाड़ा शामिल था।

इन्टरव्हील क्लब ऑफ ने किया पौधारोपण रांची।

अंतरराष्ट्रीय संस्था इन्टरव्हील क्लब ऑफ स्वर्णरेखा ने शनिवार को कर्मटोली स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संस्था की अध्यक्ष माला श्रीवास्तव और सचिव सोमा भादुड़ी ने किया। पर्वारण संरक्षण के उद्देश्य के तहत बच्चों को जल संरक्षण की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्लब ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका सूफिया खातून को पीधा देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में क्लब के उपाध्यक्ष सुप्रिता लाल, कोषाध्यक्ष नीता शेखर, आइएसओ अर्चना त्रिवेदी, एडिटर सुपमा सिन्हा और कामिनी भारती ने हिस्सा लिया।

सिल्वर और गोल्ड प्लेडेट है म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट : राजस्थान ब्रास बैंड के इंस्ट्रुमेंट प्लूट पर सिल्वर और गोल्ड प्लेडेट हैं। इन्हें खासतौर पर यूएसए से मंगवाया गया है। क्योंकि इंडियन इंस्ट्रुमेंट को हाई पीच पर प्ले किया जाता है। यूएसए में लो पीच पर प्ले किया जाता है।

एक नजर में

यज्ञ-हवन से ज्ञान में होती है वृद्धि : एसके मिश्रा

रांची। डीएवी पब्लिक स्कूल हेहल के सभागार में शनिवार को प्रातः विशेष महा हवन का आयोजन किया गया। इसके उपरान्त विद्यालय के प्राचार्य एसके मिश्रा थे उन्होंने सर्व भवन्तु सुखिनः की कामना से यज्ञ कुंड में आहुतियां प्रदान की। इसके बाद उन्होंने यज्ञ का महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्राण तथा वैदिक धर्म का सार है। यज्ञ के द्वारा मानव जीवन के लिए प्रेरणा दी गई है। यज्ञ ही संसार में श्रेष्ठतम काम है। उन्होंने कहा कि यज्ञ को केवल भौतिक कर्मकांड न समझा जाये, अपितु इसको आध्यात्मिक रूप से समझकर इसका आध्यात्मिक अनुष्ठान आवश्यक है। यज्ञ हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है एवं ज्ञान वृद्धि एपरिवार में सुख-शान्ति लाने का स्रोत है। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक एके अमरेश, एनके दुबे, आपी गोयल, पीएस दास, प्रभात कुमार, बी कार्तिक, एके मिश्रा आदि सभी शिक्षक-शिक्षिकायें उपस्थित थे।



11 निर्धन जोड़ों का सामूहिक विवाह आज

रांची। श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट द्वारा रविवार को 11 निर्धन जोड़ों का आदर्श सामूहिक विवाह के रजिस्ट्रेशन का कार्य संपन्न हो गया। संत स्वामी सदानंद महाराज द्वारा संचालित श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट एवं स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट (रजि.) रांची के संयुक्त तत्वाधान में आज 11 जोड़ों का आदर्श सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जायेगा। जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। विवाह आचार्य शंकर लाल जी शास्त्री, गौरव कुमार शास्त्री एवं उनके सहयोगियों द्वारा संस्था के निष्ठावादी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में सम्पन्न कराया जायेगा। मंदिर परिसर में आये हुए 500 बरातियों के चाय नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था संस्था के तरफ से की गई है। इस दौरान श्री कृष्ण प्रणामी अन्नापूर्णा भंडारे का वितरण संस्था के द्वारा किया जाएगा। इस महान कार्य में संस्था के अध्यक्ष हुंगरमल अग्रवाल उपाध्यय निर्मल जालान, राजेन्द्र अग्रवाल, मनोज चौधरी, प्रमोद सारस्वत, निर्मल छवनिका, विशाल जालान, पवन पौदार, ओमप्रकाश सरावगी, विष्णु सोनी, सुरेश चौधरी वनद्विप साहू, परमेश्वर साहू, धीरज कुमार गुप्ता, रमेश पांडेय, सुशील हलधर एवं आलोक सिंह अहम योगदान है।

10वीं के टॉपों को किया गया सम्मानित

रांची। निर्मला कान्टेंट हाई स्कूल में शनिवार को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय टॉपर रहे छात्र-छात्राओं को सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि विद्यालय की सचिव सीमा शर्मा तथा प्राचार्य विजय कुमार शर्मा ने किया। इसके बाद विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पूरे छात्र छात्राओं के लिए स्वागत गीत गाये। विद्यालय की सचिव ने कहा कि विद्यालय अपने छात्र- छात्राओं की सफलता से पहचाना जाता है तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे छात्र-छात्रा को सम्मान देना अपने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आत्मविश्वास तथा प्रगति की राह दिखाता है। प्राचार्य विजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह विद्यालय मात्र दो छात्रों से शुरु हुआ था। आज यहां के छात्र-छात्रा सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित होकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। यह पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है। श्री शर्मा ने कहा कि विद्यालय 25 वर्षों से लगातार छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्प है तथा आगे भी छात्र-छात्राओं को सफलता की मंजिल पर पहुंचाने का काम करता रहेगा। मौके पर विद्यालय की सीनियर प्रिन्सिपल शिल्पी रानी, शिक्षक-शिक्षिका सुधीर कुमार, पंकज कुमार, शिवानी कुमारी, अनोमा एक्का, आशुतोष कुमार तथा अभिभावक उपस्थित थे।



मजन के सुर ताल से श्याम मंदिर गूंजा

रांची। आओ आओ भोग लगाओ बाबा श्याम जी के भजन के सुर ताल से हरभू रोड का श्री श्याम मंदिर गूंज रहा था। अवसर था 71वीं श्री श्याम भंडारे का। प्रत्येक शनिवार को निरंतर श्री श्याम भंडारा होता है। श्री श्याम मित्र मंडल के पहले महामंत्री विश्वनाथ नारसरिया व उप मंत्री अनिल नारनली की अगुवाई में भंडारे के यजमान परिवार सुरारी लाल अग्रवाल, मंजू देवी अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, खाटू नरेश, लहू गोपाल, शालिग्राम जी, शिव परिवार, हनुमान जी व गुरुजनों को भंडारे का प्रसाद अर्पित कर परिवार के लिए खुशहाली की प्रार्थना की। मंडल के अध्यक्ष सुरेश सरस्वगी की निगरानी में मंदिर में ही खाटू नरेश का प्रिय भोग चूरमा खीर, वैजिटेबल पुलाव, राजमा मखाने की दाल, चिप्स का प्रसाद निर्मित किया गया था। श्री गणेश जी महाराज की जल जयकारों के बीच श्री श्याम भंडारे का प्रसाद वितरण प्रारंभ किया गया लगभग 3500 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।



श्री हेसल हनुमान मंदिर का मना वार्षिकोत्सव

रांची। हनुमान मंदिर रोड स्थित श्री हेसल हनुमान मंदिर का दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया गया। सुबह 8 बजे 101 माताओं-बहनों द्वारा कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से देवी मंडप होते हुए जतरा मैदान से मंदिर प्रांगण तक निकाली गई। सुबह 10 बजे वेदी पूजा के बाद महाआरती, श्री हनुमान चालीसा पाठ एवं भंडारा (महाप्रसाद) वितरण किया गया। इस वार्षिकोत्सव समारोह में सभी ने अपनी भागीदारी निभायी। मौके पर रमेश सिंह, भरत काशी साहू, भैरव सिंह, अशोक यादव, उत्तम यादव, शैलेश्वर दयाल सिंह, नीतू सिंह, अमृतेश पाठक, बैजू सोनी आदि ने श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए।



**पुरियो गांव में टनका से दो दुधारू गाय मरी**

इटकी। प्रखंड के पुरियो गांव में शनिवार को टनका के चपेट में आने से दो दुधारू गाय की मौत हो गयी। जानकारी के मुताबिक गो पालक किसान महेश गोप दोनों गायों को चारा देकर एक पेड़ के नीचे बांध रखा था। इसी दौरान करीब ढाई बजे बुदा बादी के बीच टनका गिरी जिसकी चपेट में आकर दोनों गायों की मौत हो गयी। वही कुछ दूरी पर खड़ी संचिता देवी को भी टनका का झटका लगा। हलांकि उसकी हालत ठीक बताई गई है।

एक अगस्त को ई पाँस मशीन बंद रखेंगे पीडीएस दुकानदार

राहे। प्रखंड के पीडीएस दुकानदारों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि एक अगस्त से अपनी ई पाँस मशीन बंद रखेंगे। बैठक के बाद दुकानदारों ने बीडीओ राहें को अपनी 10 सूत्री मांग पत्र देकर आंदोलन की जानकारी दिया है। मांग पत्र के माध्यम से कहा गया है कि दुकानदारों को 14 माह से कमीशन नहीं दिया गया है। मौके पर विनोद कुमार महतो, देवेंद्र नाथ महतो, महेश्वर महतो, साहबान खान, हलधर महतो, नवल किशोर महतो आदि मौजूद थे।

राहे के बसंतपुर गांव में पीसीसी सड़क का शिलान्यास

राहे। प्रखंड के बसंतपुर गांव विधायक सुदेश महतो ने 350 फीट पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पीसीसी सड़क विधायक निधि के राशि से निर्माण किया जायेगा। मौके पर विधायक ने कहा कि गांव में मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जायेगा। जल्द ही बदलाव दिखेगा। मौके पर संजय सिद्धार्थ, सुनिल सिंह, रंग बहादुर महतो, रामापति मुंडा, बालेन्दु महतो, मनोज मेहता आदि मौजूद थे।

भगवा ध्वज गुरु का प्रतीक : आरएसएस

खलारी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम मैक्लुस्कीगंज के शंकर निकेतन कार्यालय में आयोजित किया गया। गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में कार्यलय प्रमुख पशुपतिनाथ ने कहा कि सूर्य की लालिमा के प्रतीक के रूप में आरएसएस का भगवा ध्वज शक्ति व समर्पण का भाव उजागर करता है। जीवन के कठिन मार्ग को परस्त करने के लिए गुरु का होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना गुरु के मनुष्य दिशाहीन हो जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने भगवा को गुरु के रूप में पुष्प अर्पण किया। मौके पर जितेंद्र नाथ पांडेय अनिल गंडू मुकेश साहू नंदलाल गुप्ता किशोर गंडू सुरज यादव पवन झा तारकेश्वर प्रसाद गौनू गंडू रमेश गंडू मौजूद थे।

गायत्री परिवार ने

चलाया प्रज्ञा अभियान खलारी। उक्तमित मध्य विद्यालय महावीर नगर उपर टोला के प्रांगण में प्रधानाचार्य रंथु साहू के नेतृत्व में शांतिकुज के प्रतिनिधि सतर सिंह और राजू यादव के द्वारा देव संस्कृति विषयविद्यालय की ओर से प्रज्ञा अभियान चलाया गया। जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को भावी पीढ़ी को सुधारात्मक प्रौढ़ शिक्षा साथ ही भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा और बाल संस्कार शाला तथा नशा मुक्ति से संबंधित वीडियो दिखाये गए।

जन्म-मृत्यु को नजदीक से देखने वालों के लिए नर्सिंग बेहतर**विकास इस्टीव्यूट ऑफ नर्सिंग में लैप लाइटिंग समारोह**

खबर मन्त्र संवाददाता

ओरमांड्री। विकास इस्टीव्यूट ऑफ नर्सिंग में शनिवार को आयोजित लैप लाइटिंग समारोह में नर्सिंग की छात्राओं को सेवा की शपथ दिलाई गई। वहीं छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साइजर्जी कोमलबल के एचआर मेधा दास ने समारोह का उद्घाटन की और कहा सेवा का दूसरा नाम नर्सिंग प्रोफेशन है। उन्होंने कहा जो निःस्वार्थ भाव से सेवा क्षेत्र में आना

टीपीसी ने जमीन कारोबारी से फिर मांगी 50 लाख की रंगदारी**तीन के खिलाफ केस पुलिस कर रही जांच**

खबर मन्त्र संवाददाता

रातू। प्रतिबंधित टीपीसी उद्योगियों ने जमीन कारोबारी कमरूल हक से शनिवार को करीब 10 बजे तीसरी बार रंगदारी मांगी। संगठन के आलोकजी ने उन्हें धमकाया कि रुपये दो नहीं तो छलनी कर देंगे। 9 जुलाई को भी आलोक ने 50 लाख रंगदारी मांग उन्हे जान मारने की धमकी दी थी। श्री हक ने

जिप सदस्य ने किया मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण

सोनाहातू। मनरेगा योजना में हो रही अनियमितता पर ग्रामीणों के शिकायत मिलने पर जिला परिषद सदस्य मंजू सिंह मुंडा ने शुक्रवार को प्रखंड के गलरु पंचायत के मुरुतडीह गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पाया कि मनरेगा योजना के तहत राघव महली के सूअर सेड निर्माण पर काफी अनियमितता पाया गया। मुरुतडीह निवासी कांशीनाथ महली के खेत में चल रहे कूप निर्माण कार्य में अनियमितता पायी गई। इस संबंध में जिप सदस्य मंजू सिंह मुंडा ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में चल रहे मनरेगा योजना में काफी अनियमितता देखा गया है। प्रखंड क्षेत्र में हो रही अनियमितता को लेकर जल्द ही जन प्रतिनिधि डीडीसी से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी को दी बधाई

खबर मन्त्र संवाददाता

ओरमांड्री। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पदभार संभालने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हर्ष जताते हुए बधाई दी गई है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का सम्मान में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमलेश राम के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे थे। इसकी जानकारी देते हुए कमलेश राम ने बताया सभी कार्यकर्ता बाजपाजके के साथ अरगोडा चौक से पैदल कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे।

मांडर : बीआरसी कैंपस सोसई में ग्रामीण विद्यार्थी सम्मान समारोह

मांडर। ग्रामीण मेधा विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को बीआरसी कैंपस सोसई में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के रूप में झारखण्ड कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिकी एवं स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिकी उपस्थित हुए। की शुरूआत अतिथियों के दीप प्रज्वलन से हुआ। इस कार्यक्रम में मांडर प्रखण्ड के सभी मैट्रिक और इंटर पास करीब 1321 विद्यार्थियों को ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर कर सम्मानित किया गया। ग्रामीण मेधा सम्मान

परिजनों की बढ़ी चिंता

फुटकलटोली निवासी कमरूल हक प्रखंड अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष और झामुमो कार्यकर्ता हैं। वह मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। समाजसेवा से उनका गहरा ताल्लुक है। तीन-दुखियों की सेवा उनकी दिनचर्या है। इसके बावजूद संगठन की उन पर बुरी नजर है। पीडित परिवार हलकान हैं। वह किसी अनहोनी की आशंका को लेकर चिंतित हैं।

से कहा था कि ताज का नाम केस से हटवा दीजिये मैं इम्तियाज से मिलकर आपके मामले को रफा.दफा करा दूँगे। लेकिनए कमरूल हक ने ऐसा नहीं किया। इधर थानेदार सपन महथा ने बताया कि कमरूल हक को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गयी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही रंगदारी मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सनातन धर्म के लोगों को छेड़ना बंद करें : संजय वर्मा**करा के चांपी गांव में सनातन धर्मावलंबियों की बैठक में चर्चा**

खबर मन्त्र संवाददाता

करा। जरियागढ़ थाना क्षेत्र के चांपी में सोमवार 17 जुलाई को सामूहिक जलापण करने को लेकर सनातनी भाइयों की बैठक समाजसेवी सुधीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक किया गया। इस बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रावर्तन प्रमुख हिन्दू जागरण मंच संजय कुमार वर्मा व विशिष्ट अतिथि विश्व हिन्दू परिषद खूंटो जिला मंत्री वीरेंद्र सोनी हुए। संजय वर्मा ने कहा कि सनातनी धर्म के लोगों को इसाई धर्मावलंबी द्वारा छेड़ना बंद करें, हमारे देवी देवता व मठ मंदिरों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। वीरेंद्र सोनी



ने कहा कि पहली सोमवारी की दिवरी पातरा में शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए आप सुधीर सिंह को दूसरे धर्मावलंबी के लोगों ने रोका यह जघन्य अपराध है। शिवजी हमारे देवस्थल पर पूर्व से विराजमान हैं और रहेंगे। हमारे कंकन में हिंदुत्व का वास है। धर्मांतरण कराना बंद करें उसे रोकोए टोको नही तो ठोकने को

मौके पर थे मौजूद। मौके पर चितामणि सिंह, विश्व हिंदू परिषद कार्यकारी अध्यक्ष रामप्रसाद साहू, शिव कुमार केशरी, रवि मिश्रा, दिलीप शर्मा, रूपेश सोनी, सुरत नारायण सिंह, राजकुमार सिंह, नगेंद्र सिंह, विजय नाथ सहदेव, किरण देवी, विनय गुप्ता के अलावा करा, लाणु, तोरणा, खूंटो, गुमला के दर्जनों गांव के लोग शामिल थे। काम सनातनी करे। ऋषि नाथ सहदेव हिन्दू जागरण मंच प्रदेश अध्यक्ष राजपरिवार पालकोट जलाभिषेक में भाग लेंगे। बैठक में

मौके पर थे मौजूद

आए सभी लोगों ने दीप को साक्षी मानकर सपथ लिया कि जो हमारे देवी देवता व मठ मंदिरों की रक्षा जान देकर करेंगे।

लोवाडीह में प्रखंड और महानगर कांग्रेस का कार्यक्रम सम्मेलन

खबर मन्त्र संवाददाता

नामकुम। शनिवार को लोवाडीह के साई धर्मशाला में प्रखण्ड और महानगर कांग्रेस का कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि खिलजी विधायक राजेश कच्छप उपस्थित थे। अपने संबोधन में विधायक श्री, कच्छप ने कहा कि आज भाजपा की सरकार ने देश में बेहिसाब महंगाई बड़ा दी है, आमजन महंगाई से जूझ रहे हैं। सरकार ने देश को अछान,अबनी के हाथों बेच दिया है और महंगाई तथा कालेधन और अन्य मुद्दों से लोगों का ध्यान इस मुद्दे से भटकाने के लिए धर्म

के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। विधायक श्री, कच्छप ने कहा कि हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी हिन्दुस्तानी है,यहाँ पर जाति और धर्म की राजनिति करने वालों को जनता सबक सिखएगी। विधायक श्री, कच्छप ने आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकान्त सुहाय के सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार सहाय ने कहा कि पूरे रांची लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कर 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है।

वाई सदस्यों ने बीडीओ को सौपा ज्ञापन

खलारी। खलारी प्रखंड के 14 पंचायत के वाई सदस्यों को हेमंत राज के सरकार में मानदेय नहीं मिला। इसके लिए वाई सदस्य के सदस्यों ने खलारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से जवाब तलब किया। वाई सदस्यों में से राखी देवी वाई .09 तुरी मध्य पंचायत खलारी प्रखण्ड की वाई सदस्य है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव होने के लगभग 05 वर्ष हो जाने वाले हैं लेकिन अब तक वाई सदस्यों का मासिक वेतन नहीं मिला है। इसके लिए पत्र के माध्यम से प्रखण्ड ,खलारीह को अपनी स्थिति से अवगत भी करा चुकी है। अथवा इसकी जानकारी भी लेनी चाही है परन्तु आज तक मेरा वेतन आया है और ना हि प्रखण्ड से कोई संतुष्ट जवाब मिला है। वहीं इस संबंध में पूर्व जिला परिसद अध्यक्ष रतिया गंडू ने कहा कि वाई सदस्यों का मानदेय सरकार दे।

समर्पणदीप बीएड कॉलेज का मना स्थापना दिवस विद्यार्थियों ने बिखेरी कला की छंटा, गीत-नृत्य का चला दौर

खबर मन्त्र संवाददाता

रातू। समर्पणदीप बीएड कॉलेज के 11वें स्थापना दिवस पर उत्सवी माहौल रहा। कॉलेज में काफी चहल.पहल रहा। बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित समारोह का उद्घाटन संस्थान के अध्यक्ष अभिषेक सिंह, सचिव एनके गुप्ता, कोषाध्यक्ष विकास पोद्दार, प्रबंध समिति के सदस्य जितेंद्र प्रसाद, विशाल सिंह, शैलेंद्र सिंह और विभागाध्यक्ष दशरथ महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। घंटों गीत-नृत्य का दौर चला। विद्यार्थियों ने मनमोहक कला की छंटा बिखेरी। शिक्षाप्रद नुक्कड़ का मंचन किया गया। स्मृति वर्मा ने नृत्य प्रस्तुत कर

**कार्यक्रम में लिया हिस्सा**

आनंद कुमार भगत, शशि कुमारी तिकी, अखुतानंद मिश्रा, सजीत महतो, हरजीत कौर, ऋतु जाया केरकेट्टा, शालिनी सिन्हा, कन्हाई महतो, अनिल साहू, दिनेश महतो, शिवराज भगत, हर्षा गोयल, नौरज कुमार, रानू तिवारी, आशीष, दिनेश, आसिस्ता, सुप्रिया, सुधीर, नंदकिशोर, विजय, मनोहर, विभा महतो, विनीता कुमारी, रोशन, भीम, प्रशांत, सौम्या, अर्वना, पुरुषोत्तम, हरेन्द्र व आरती आदि।

खुब वाहवाही लूटी। जमकर हंसी-मिश्रा, क्षितिज सिन्हा, वासिफ ठिठौली भी हुवा। छात्र-छात्राओं ने शाह, कैन्था केशरी व लिना कुमारी ने किया। जबकि धन्यवाद की कोशिश की। संचालन दीक्षा जापन कुमारी पुष्पा सिंह ने दिया।

एक नजर में

किसानों के बीच मडुआ बीज का वितरण

पिस्कानगड़ी। शनिवार को नगड़ी प्रखंड परिषद में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन मिलेट्स न्यूट्रिशन योजना के अंतर्गत प्रखंड के किसानों के बीच सीड मिनिफिट (मडुवा, रागी का बीज) का वितरण किया गया। विते पंचायत के जोगी टोली गांव एवं देवरी पंचायत के सुगदा तथा बसिला गांव के 52 किसानों के बीच 2 विन्टल 8 किलो बीज का वितरण किया गया। प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीरबल तिमगाए सांसद केदार महतोए उप प्रमुख अफसाना परवीणए प्रखंड तकनीकी प्रबंधक बरदानी लकड़ाए सहायक प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सुमित कुमार लकड़ा की उपस्थिति में किसानों के बीच बीज का वितरण किया गया। मौके पर अनिमा उराइन सीता देवी मनोज उरांव सोमरा कोमल मुंडा रामदेव उरांव जतरु उरांव जोगीटोली गांव के किसान मिलन टोपो अनिल मुंडा कुमुदनी लंडा संजय टूटी चारो उरांव शांति देवी सहित कई किसान एवं बीडी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

**बेड़ो: मृतक के परिजनों को दिया अनाज**

बेड़ो। बेड़ो प्रखंड के हरिहरपुर जामटोली पंचायत के बोदा गांव में मांडर विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता सन्नी टोपो के प्रतिनिधि महादेव कुजर ने मृतक के परिवार को अनाज मुहैया कराया। महादेव कुजर ने कहा कि हमारे भाजपा नेता सन्नी टोपो गरीबों के मसीहा हैं। ये हमेशा अपने मांडर विधान सभा क्षेत्र के लोगों की मदद व सुख दुख में हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं मौके पर रंजन गुप्ताए सुनील ओहदार सुदामा ओहदार पंसस फुलमनी देवी रमेश उरांव नारायण महली व बुदु उरांव समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल, रामगढ़। शुद्धि पत्र**

इस कार्यालय के निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 01/2023-24 जिसका PR No. 302192 (Rural Work Department) के द्वारा प्रकाशित निविदा में योजना का नाम "सोलिया ग्राम के पलानी झरना पथ पर RCC Culvert निर्माण कार्य" के स्थान पर "DMFT योजना अन्तर्गत सोलिया ग्राम के पलानी झरना पथ पर RCC Culvert निर्माण कार्य" पढ़ा जाए। अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी। कार्यपालक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रामगढ़। PR 302424 Rural Work Department(23-24)D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, राँची (पर्यटन, कला-संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य शाखा) दूरभाष संख्या- 9110130529 Email - dsoranchigov@gmail.com

क्र० सं०	आयोजन/कार्यक्रम का नाम	निर्धारित आयु सीमा	आयोजन स्थल	रिपोर्टिंग का समय
1	खेलो इण्डिया नयन ट्रायल कार्यक्रम, 2023-24	10 से 14 वर्ष तक (बालक/बालिका)	बिरसा मुन्डा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी, राँची	दिनांक-17 से 18 जुलाई, 2023 तक समय- पूर्वाह्न 07:00 बजे से।

निम्न व शर्तें:-

- आवेदन/खिलाड़ी झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उक्त नयन ट्रायल में भाग लेने प्रतिभागी अपने साथ 1 पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र मूल एवं छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है।
- यह नयन ट्रायल नि:शुल्क है एवं किसी प्रकार का कोई भ्रष्टा देय नहीं होगा।
- निर्भय हेतु आवेदक आयोजन स्थल के निबंधन काउन्टर से आवेदन प्रारूप प्राप्त करेंगे तथा उक्त समय मरकर जमा करेंगे।
- दिनांक-17 से 18 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न 07:00 बजे तक बिरसा मुन्डा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी, राँची में कार्यक्रम की जाएगी।
- कुमार (मोबाइल नम्बर 7990907289) को रिपोर्टिंग करेंगे।
- जिला समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

PR 302470 Art Culture Sports and Youth Affairs (23-24)_D

कार्यालय: जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूँटी। अति अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विभागीय राज्यदेश सं० 12 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना तथा अन्य योजना अंतर्गत जिला के विभिन्न जलाशय में अधिष्ठापित पुराने जेजों में मोनोसेक्स तिलापिया, पंगेशियस एवं अन्य उपयुक्त मत्स्य बीज का संचयन कराया जायेगा। तदनुसार प्राप्त राज्यादेश के अधीन पंगेशियस बीज उत्पादकों से पंगेशियस एवं मोनोसेक्स तिलापिया बीज की आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता से मोहर बन्द लिफाफा में इच्छा की अभिव्यक्ति का आवेदन दिनांक 25/07/2023 समय मध्याह्न 12:00 बजे तक अयोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवश्यक शर्तें:-

- आपूर्तिकर्ता को अपने नौजी खर्च पर स्वस्थ एवं जीवित अवस्था में अच्छे गुणवत्ता वाले पंगेशियस अथवा मोनोसेक्स तिलापिया बीज को केज स्थल तक पहुंचाकर आपूर्ति करना होगा एवं कम से कम 15 दिनों की उत्तरजीविता जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की जाएगी।
- आपूर्ति की जाने वाली पंगेशियस बीज प्रति कि० ग्रा० 500-600 पीस एवं मोनोसेक्स तिलापिया बीज प्रति कि० ग्रा० 2000 से 2500 पीस से अधिक संख्या की नहीं होनी चाहिए।
- मोनोसेक्स तिलापिया की आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- पंगेशियस एवं मोनोसेक्स तिलापिया बीज का सरकारी दर 1.50/-/रुपया प्रति पीस है (परिवहन सहित)
- चयनोपरांत पंगेशियस एवं मोनोसेक्स तिलापिया बीज का आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता को काली सूची में नाम डाल दिया जाएगा।
- आपूर्तिकर्ता का प्रस्ताव रद्द करने का अधिकार बिना कारण बताये क्य समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूँटी। PR 302463 Fish(23-24)D

समय

संवाद

आपका आंगुलक सीधा, बिना आपकी दीवार या किसी सहारे के खड़ा है तो इसका साफ मतलब है कि वह पढ़ा लिखा व शालीन व्यक्ति है, उसे अपने ऊपर और अपने शरीर पर विश्वास है और इसी कारण उसे खड़े होने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति शायद सफाई पसंद और एटिकेट युक्त भी है और इसी कारण अपने हाथ, पैर या जूते को आपकी दीवार पर बिना टिकाए सीधा खड़ा है और दीवारों को गंदा नहीं कर रहा है। यदि आपका आंगुलक दीवार पर पैर या अपना जूता टिका कर खड़ा है तो इसका साफ तात्पर्य है कि ना सिर्फ उसका शैक्षिक स्तर कम है बल्कि वो सफाई पसंद भी नहीं है और उसे दूसरों की परवाह भी कम है।

आपके खड़े होने का ढंग और आपका जीवन



अजयदीप बाधवा

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खड़े रहने की मुद्रा से आपके व्यक्तित्व

और आपकी शिक्षा का पता चलता है? जी हाँ, यह सच है कि हमारे सार्वजनिक स्थलों पर खड़े होने के ढंग से हमारे बारे में लोगों को बहुत कुछ पता चलता है। पढ़े लिखे और वास्तविक शिक्षित लोगों का खड़े होने की मुद्रा सदैव उन्हें औरों से अलग बनाती है। आप के घर की जब भी घंटी बजे और आप दरवाजा खोलें, तो सामने खड़े आंगुलक के खड़े होने के ढंग से उसकी शिक्षा, व्यक्तित्व, शालीनता और नजरिए का अंदाज लगा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप अगर आपका आंगुलक एक हाथ दरवाजे या दीवार पर रखकर उसके सहारे खड़ा है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसका शैक्षिक स्तर थोड़ा कम है। उस व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास भी कम हो सकता है और इसी कारण उसे मात्रा एक या दो मिनट खड़े होने के लिए भी सहारा चाहिए! यदि आपका आंगुलक दीवार पर पैर या अपना जूता टिका कर खड़ा है तो इसका साफ तात्पर्य है कि ना सिर्फ उसका शैक्षिक स्तर कम है बल्कि वो सफाई पसंद भी नहीं है और उसे दूसरों की परवाह भी कम है। आप अपने घर की दीवारों को बहुत खर्च कर उनका रंग रंगन करवाते हैं



पर इसकी समझ आंगुलक को शायद नहीं है; वह अपने पैरों को दीवारों पर टिका कर खड़ा है जिसका साफ तात्पर्य है कि उसे आपकी दीवारों को गंदा करने से कोई परहेज नहीं है। उसका साफ रहने या किसी संस्थान को साफ रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है और संभवतः उसने अपने शरीर, घर और कार्यालय को भी ऐसा ही गंदा रखा होगा। अगर आप सामने वाले आंगुलक को सीधा खड़ा न पाकर थोड़ा हिला डुलता हुआ पाते हैं तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह आंगुलक अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं है और जीवन में वह रचलता है र सिद्धांत को ज्यादा मानता है।

उसे शारीरिक भाषा के विज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। इसके विपरीत अगर आपका आंगुलक सीधा, बिना आपकी दीवार या किसी सहारे के खड़ा है तो इसका साफ मतलब है कि वह पढ़ा लिखा व शालीन व्यक्ति है, उसे अपने ऊपर और अपने शरीर पर विश्वास है और इसी कारण उसे खड़े होने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति शायद सफाई पसंद और एटिकेट युक्त भी है और इसी कारण अपने शरीर पर बिना टिकाए सीधा खड़ा है और दीवारों को गंदा नहीं कर रहा है। आप इसी प्रकार सड़क पर या लिफ्ट में या

सार्वजनिक स्थलों पर खड़े व्यक्ति के बारे में भी उसके खड़े होने के ढंग से उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं और उन से किस प्रकार निबटना है, इस की भी योजना बना सकते हैं। हालांकि उपरोक्त नियम बीमार लोगों पर लागू नहीं होते हैं। जो विद्यार्थी नौकरी आदि के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो अपने खड़े होने के ढंग और शारीरिक मुद्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलत मुद्राएं उनके कैरियर में विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। **(कांस्ट अकाउंटेंट, वित्त/ कर सलाहकार, कैरियर सलाहकार)**

प्रभु राम अपने जीवन के सभी स्थितियों में धैर्यवान बने रहे

स्वामी सत्यानंदजी सरस्वती



किसी भी निर्माण की प्रक्रिया छोटे से आरंभ होती है। धीरे-धीरे आरंभ होकर वह प्रक्रिया बड़ा रूप ले लेती है। कोई भी प्रक्रिया में आरंभिक तेजी हार का कारण भी बनती है। व्यवहार जगत में मैराथन दौड़ वही जीतता है जो आरंभ में अपनी उर्जा बचाता है और अंतिम में अपनी पूरी उर्जा लगा देता है। धैर्य से ही निर्माण होता है। भक्ति का निर्माण भी जीवन में धैर्य से ही होता है। राम के जीवन में भी धैर्य असीम था। वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद पूरे देश के तीर्थों का भ्रमण करने के बाद भी चिंतन में ही थे। ब्रह्म ज्ञान के लिए मिला जीवन किस ओर जा रहा है। कोई तो मिले जो हमें इस बात को बतावे। इसी बीच गुरु विश्वमित्र यज्ञ की रक्षा के लिए उनसे मिलने आये तब उन्होंने उन्हें ज्ञानी मानकर अपनी समस्या बतायी। तब विश्वमित्र ने कहा कि गुरु विशिष्ट के होते हैं क्या समझा सकता हूँ, वे हमारे भी गुरु हैं और हमने जो कुछ ज्ञान हासिल किया है वे उनकी कृपा से ही सही है।

जिज्ञासा का परिपक्व होना राम समझते थे कि विशिष्ट तो उनके कुल के गुरु हैं एक सामान्य पूजा-पाठ करने वाले व्यक्ति है। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि विशिष्ट ब्रह्म ज्ञानी हैं तब वे विशिष्ट के पास गये और पूछा कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं यह बात हमें पता नहीं था। विनम्रता पूर्वक श्री राम ने पूछा कि आपने उस स्तर का ज्ञान मुझे क्यों नहीं दिया। विशिष्ट ने कहा आपकी जिज्ञासा आज परिपक्व हुई है इसलिए आज मैं आपको ज्ञान दूंगा। आदमी जो भी ज्ञान-तप-ज्ञान करता है उससे जिज्ञासा पैदा होना चाहिए। यह जिज्ञासा ज्ञान का होना। ज्ञान

के लिए गुरु स्थान और गुरु की भूमिका होगी। यही ज्ञान हर काल में रहा है सिर्फ स्थान और व्यक्ति बदल गये हैं। राम के काल में गुरु विशिष्ट, कृष्ण के काल में दुर्वासा और आधुनिक काल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, स्वामी परमहंस दयाल जी और स्वामी जी ने ज्ञान को संरक्षित किया प्रचार और प्रसार किया। योग्य पात्र को खोजा और उन्हें प्रदान किया। धन से ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,वानप्रस्थ और संन्यास चार अवस्था से मनुष्य गुजरता है।

गृहस्थी के लिए भी सन्यास की अवस्था है। जीवन के सभी जवाबदेही निभाते हुए सन्यासी का जीवन भरत ने जीया था। योग्य, अतिव्यक्त व्यक्ति का मिलने का क्रम जारी रहता है। पूर्ण सम्पन्न से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रकृति में भी इसका उदाहरण है। यमुना का गंगा में सम्पन्न के बाद यमुना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। गंगा सागर में मिलकर समर्पित हो जाती है। इसी प्रकार पूर्ण सम्पन्न से ही ज्ञान मिल सकता है जिसके बाद कुछ भी पाश शेष नहीं रह सकता है। **(ब्रह्म विद्यालय सह आश्रम छोटका राजपुर, बक्सर बिहार।)**

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है मोदी की विदेश नीति



पंकज सिन्हा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में विश्व पटल पर भारत को नए सिरे से स्थापित किया। अभी हाल ही में मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रवास कूटनीति के खयाल से बेहद सफल माना जा रहा है। हालांकि कुछ चरमपंथी मुस्लिम संगठनों ने मोदी के भाषण का वहिष्कार किया लेकिन उस वहिष्कार से भी भारत की रणनीति को फायदा ही हुआ है। भारत की विदेश नीति में आखिर क्या बदलाव आया। खास बात यह है कि मोदी का कार्यकाल अपनी खास विदेश नीति के लिए भी जाना जाता है। मोदी सरकार की विदेश नीति पिछली सरकारों से कैसे भिन्न रही है।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने प्रथम शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही अपनी विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट कर दी थी। अपने प्रथम शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित दक्षिण के सभी नेताओं को आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं अपने पहले विदेश दौरे के लिए उन्होंने भारत के पड़ोसी मुल्क भूटान को चुना तो दूसरी बार पीएम बनने के बाद वह पहली विदेश यात्रा मालदीव की की। मोदी प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में पहले दिन से विदेश नीति और विदेशों में भारत की छाप छोड़ना प्रारंभ कर दिया था। अगस्त 2014 में भारत के पड़ोस के अलावा

पहली विदेशी यात्रा के दौरान मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अच्छे संबंध बनाए। अरब देशों के विरोध के बावजूद इजरायल की यात्रा कर पूरे विश्व को भारत के बदलते और आत्मनिर्भर विदेश नीति का परिचय दिया है। पीएम मोदी के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, क्रांति शब्द के सबसे अच्छे मायनों में आप क्रांतिकारी नेता हैं। आपके इजरायल आने से पहले हमारे 3000 वर्षों के अस्तित्व में कोई भी भारतीय नेता इजरायल नहीं आया था। आप ऐसा करने वाले पहले भारतीय नेता हैं।

इस साल अप्रैल तक उन्होंने 67 विदेश यात्राएं की थीं। इनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की यात्रा भी शामिल है। भारत की विदेश नीति के मामले में सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका के साथ संबंधों में आया है। दशकों तक एक दूसरों को चिंता भरी निगाहों से देखने के बाद अब भारत और अमेरिका सबसे नजदीकी रणनीतिक साझेदार हैं। कई ऐसे बुनियादी समझौतों को मंजूर किया है, जिस पर दोनों पक्षों को राजी होने में कई साल लग गए। अमेरिका अब भारत को नई दिल्ली की मांसकों के साथ की नजदीकी के चश्मे से नहीं देखता। भारत भी अमेरिका को इस्लामाबाद से उसके रिश्तों के चश्मे से नहीं देखता। भारत और अमेरिका के सैन्य और रणनीतिक तौर पर गैर नाटो देशों में सबसे नजदीकी रिश्ते हैं। इस साझेदारी को बनाने में नरेंद्र मोदी का निर्णायक हाथ रहा।

आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वित्तीय साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार अब 162 अरब डॉलर से ज्यादा

का है। 20-22 अरब डॉलर का तो हथियारों का ही सौदा है। हमने अमेरिका के साथ सारे बुनियादी समझौतों पर मंजूरी तो दे ही दी है। इनमें से कुछ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मंजूर हुए, जो नजदीकी संबंधों का आधार बढ़ाने के लिए हैं। हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चर्चा करके आज सारे मुद्दों पर जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे रिश्तों को एक नया आयाम दिया है।

अमेरिका के साथ भारत के इस रिश्ते से रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये बात यूक्रेन के साथ ताजा संकट में साफ हो गई। कीव के साथ करीबी संबंध बनाए रखने के साथ-साथ भारत ने ये भी साफ कर दिया कि हमारी विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रहेगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने 2022 के रउड समिट के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। यूक्रेन के साथ रूस के जंग के बीच जहां अमेरिका समेत कई देश रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रहे थे, वहीं, भारत ने रूस से तेल आयात की भी मंजूरी दी। इस फैसले की पश्चिमी देशों ने आलोचना भी की, लेकिन नई दिल्ली ने सीधा जवाब दिया।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अगर यूरोप के देश, पश्चिमी देश और अमेरिका इतने चिंतित हैं, तो वो ईरानी तेल को बाजार में क्यों नहीं आने देते? वेनेजुएला के तेल को क्यों नहीं इजाजत देते? उन्होंने तेल के बाकी सारे स्रोत घेर लिए हैं और वो कहते हैं कि बाजार जाकर अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा सौदा मत करो। मेरे विचार से

ये उचित बात नहीं है। मोदी के प्रथम कार्यकाल में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का मामला हो या अनुच्छेद 370 हटाने का मसला भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया है। दोनों मसलों पर पाकिस्तान पूरी तरह से अलग-थलग हो गया। इस दौरान मोदी सरकार ने रूस और अमेरिका दोनों विरोधी देशों के साथ अपनी रिश्तों में निकटता बनाए रखी। मजबूत नेता के नेतृत्व में मजबूत भारत की यही छवि दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों को भा रही है। और उन्हें भारतीय होने पर गर्व हो रहा है, इससे पहले ऐसा कोई भारतीय नेता नहीं रहा, जिसका विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ ऐसा जुड़ाव रहा हो।

अप्रवासी भारतीयों को भारत के विकास की दिशा से जोड़कर काम पर लगाया, बल्कि भारतीय मूल की पहली, दूसरी, तीसरी और बाद की पीढ़ियों का साथ लिया। इजरायल ने अपने अस्तित्व के लिए ये तरकीबें अपनाई थीं। मेरे विचार से भारत दूसरा देश है जिसने ये कुशलता ग्रहण की है। कोरोना महामारी काल में भारत ने वैकसीन डिप्लोमेसी में एक मिसाल बनाई है। कोविड जब चरम पर था, तो भारत टीके निर्यात करने वाले पहले देशों में शामिल रहा। गुयाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था, उन्हें एक दोस्ताना भारत के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साझेदारी के लिए तैयार हो। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि संकट के दौरान भी वो एक भरोसेमंद साझेदार है। भारतीय

कूटनीति की पहुंच ने दुनिया भर में परेशान भारतीय नागरिकों को राहत दी। यूक्रेन, यमन और अब सूडान में फंसे भारतीय नागरिक, प्रधानमंत्री के बनाए नजदीकी रिश्तों के कारण मुश्किल हालात से सही सलामत निकल पाए। आज भारत एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ताकत के तौर पर स्थापित हो चुका है। जिसको शायद सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक चुनौती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से भारत को ठोस वित्तीय फायदे भी हुए हैं। भारत को 1.4 अरब नागरिकों की ज़िंदगियां बेहतर करने के सपने को पूरा करने के लिए सीमाओं पर स्थिरता का रहना जरूरी है। खासकर चीन के साथ भूगोलिक-रणनीतिक रिश्ते सुधरने चाहिए। बेशक चुनौती बहुत बड़ी है। इसमें भारतीय कूटनीति की कुशलता और प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल टच की आजमाइश होगी।

उनकी तस्वीरें भारतीय विदेश नीति को परिभाषित करती हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास से भरा एक मजबूत नेता। एक मजबूत भारत का प्रतिनिधि। एक ऐसा देश जो आर्थिक विकास कर रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जिसे पश्चिमी देश विस्तारवादी चीन के मंसूबों पर विराम लगाने वाले एशिया के शक्तिशाली देश के तौर पर देखते हैं। भारत को ये अहम स्थान हमारी क्षमता, खासकर प्रधानमंत्री की दूसरे नेताओं के साथ साझेदारी में काम करने की क्षमता के कारण मिला है। **(लेखक: प्रदेश प्रशिक्षण सह प्रमुख, भाजपा झारखंड)**

रात में न सोने का परिणाम



अनुष्का चौधरी

नींद का खाना सेहत का रोगा, कई बीमारियों की जड़ है अनिद्रा, अच्छी नींद के लिए शरीर का थकना बेहद जरूरी है। आज के युवा रात में सो नहीं रहे क्योंकि वे नौकरी ही दूसरे देश की करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं।

सेहत को लेकर यह नसीहत पुरानी है कि नींद अच्छी तो स्वास्थ्य भी अच्छा है। पर बहुत कम ही लोग हैं जो नींद और सेहत के संबंध के गंभीरता को समझते हैं। मौजूदा जीवनशैली तनाव बढ़ाने वाली है। साथ ही खानपान को लेकर भी लोग ज्यादा सतर्क नहीं रहते हैं। साथ ही अपेक्षित शारीरिक श्रम का भी लोगों के जीवन में अभाव है। इस कारण लोग तेजी से कई गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। अच्छी नींद के लिए हमें सबसे पहले अपनी जीवनशैली में सुधार करना होगा और कुछ बातों का सख्ती से नियमित पालन करना होगा। इसी तरह शाम होने के बाद ज्यादा चाय-कॉफी से दूर रहें तो आपका शरीर किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। फिर आपको मजबूरी में बिस्तर पकड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले अपने बिस्तर पर पर्याप्त समय दिया करें। नौकरी के तनाव का भी बहुत असर नींद पर पड़ता है।

बदलता पर्यावरण और विनाश की घंटी



FOR SALE, DUE TO COVID

ममता और करुणा की प्रतीक मां और मातृभूमि



सुधांशु कुमार

मां और मातृभूमि की महिमा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। क्योंकि वह अपरंपरा

संस्थापक स्व. डॉ. अभय कुमार सिंह वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मूद्रक, प्रकाशक मंजू सिंह द्वारा चिरौंटी, बोडोया रोड, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक अविनाश ठाकुर* फोन : 9570848433 पिन:- 834006 e-mail khabarmantra.city@gmail.com R.N.I No. JHAHIN/2013/51797 *पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।

होती है। मां के पालन-पोषण से ही हर तरह का व्यक्तित्व सजता-संवरता-निखरता है। सारा संसार जनता और मानता आया है कि व्यक्तित्व निर्माण की पहली पाठशाला मां है, उसकी ममतामयी गोद है और उसकी बाल्यकालीन छत्रछाया ही होती है। इसलिए हर सफल व्यक्तित्व अपनी मां के प्रति आजीवन श्रद्धावन्त रहते हैं। मैं भी अपवाद नहीं हूँ। मुझे भी अपनी मां और मातृभूमि से गहरा लगाव था, है और रहेगा। निःसंदेह, उपर्युक्त पंक्तियां मां-बेटे के आत्मीय संबंधों को दर्शाती हैं, जो पिता-पुत्र संबंधों से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ समझी जाती हैं। इनमें एक पंक्ति हृदय तो मैं दिखलाता नहीं पर तेरी परवाह करता हूँ मांह अत्यंत मार्मिक है। यह पंक्ति अधिकांश परदेशी पुत्र के अंतमन की ध्वनि है। इसलिए तुम्हारे बिछड़ने की सूचना ने मुझे स्तब्ध कर दिया, क्योंकि बिछड़ने के पूर्व हुई वार्ता की याद ने मुझे भरोसा दिलाया था कि मेरी मां अभी है और रहेगी भी। परंतु बिछड़ने से पहले न कोई संवाद, न कोई बात, न मुझे एक बार पुनः याद दिलाया कि मां चाहती थी कि मैं दूर रहकर जल्लिह्त में अच्छा करूँ। परंतु अंतिम क्षणों में मैं मां तेरी परवाह



करने में चूक कर गया। यह दर्द एवं पीड़ा मुझे तुम्हारी याद हमेशा दिलाती रहेगी और आज मैं इसी भाव से स्मरण करते हुए अपने को खुले हृदय से अभिव्यक्त कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरी मां भी सुंदर, सलीनी, अद्भुत एवं अनुकरणीय प्रतिभा की धनी थी। यद्यपि स्कूली शिक्षा से दूर रही, फिर भी व्यवहारिक शिक्षा की धनी थी। जीवन में शिक्षा की उपयोगिता को व्यवहारिक धरातल पर समझने वाली थी। भले ही आज तुम मेरे साथ नहीं, परंतु तुम्हारी दी हुई शिक्षा एवं सोच ने मुझे जो शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया था, वह अतुलनीय है। आज उसी धरोहर एवं आधारशिला पर उत्पन्न, पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित होकर वट वृक्ष के रूप में, मैं आज जिस रूप में भी खड़ा हूँ, वह तुम्हारा ही उपकार है। मां, आपकी प्राण वायु पाकर एवं आपकी शिक्षा-दीक्षा से मन-प्राण वायु पाकर, सामाजिक सरोकार की चेतना को मन-आचरण में धारण कर, सामाजिक परिवर्तन की चाह को मन-विचार में संजोकर, निज ग्राम, राज्य एवं राष्ट्र की सेवा के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की प्रेरणा तुम्हीं से मिली। अतएव मेरी प्रेरणा स्वयं तुम्हीं थी। लगभग अड़सी-नब्बे वर्षीय दिवंगत मां, तुझे नमन। कोटि कोटि नमन। मां, मैं तुम्हें कैसे स्मरण करूँ, कैसे विनम्र श्रद्धांजलि दूँ। भारतीय सामाजिक संस्कृति और हिंदू रीति-रिवाज से तुम्हें श्रद्धांजलि देने की जितनी औपचारिकताएँ हैं, वह मैंने पूर्ण मनोयोग एवं निष्ठा से की है। यदि कोई कमी रह गई हो तो, मुझे जहां से भी देख रही हो,

वहीं से क्षमा करते हुए अपना असीम आशीर्वाद एवं ऊर्जा देना, मां! जहां तक मुझे बचपन की याद है, साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी निज ग्राम में शिक्षा के महत्व का प्रचार प्रसार पूर्व से ही होने के कारण यहां के परिवेश में शिक्षा प्राप्त कर उन्नति के मार्ग की राह स्थानीय नागरिकों के मन में पहले से ही खुली मिली थी। जैसा कि मैंने बुजुर्गों और अपने माता-पिता से सुना था कि हमारे ग्राम में शिक्षा का अलख 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से ही प्रारंभ हो चुका था। उस समय ही मिडिल स्कूल की स्थापना से जनपद अग्रणी कुछ चिन्हित ग्रामों में मेरा ग्राम पुरैनी भी शिक्षा का केंद्र बिंदु था, जो अपनी अनुशासित व महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण लोकप्रिय रहा। मसलन, उस समय मिडिल स्कूल में कार्यरत शिक्षकों, जिनको हम बचपन में मास्टर साहब कहते थे, कुछ का नाम मैंने भी सुना है, जिनमें मास्टर मुकुंदी सिंह, मास्टर रामचंद्र सिंह जो पुराने शिक्षक थे। वहीं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा के समकालीन शिक्षकों में आदर भाव के साथ जाने-माने योग्य शिक्षक, जो आज इसे दुनिया में शायद नहीं हैं, अधिकांशतः नहीं हैं, मैं मास्टर

मकसूद हुसैन, मास्टर विक्रम सिंह, मास्टर मौखिका सिंह, मास्टर विश्वंभर सिंह, मास्टर मूलचंद्र, मास्टर संग्राम सिंह, मास्टर राजेंद्र सिंह आदि अग्रगण्य रहे, जिनकी पारखी नजर एवं पैनी शिक्षण पद्धति की कसौटी पर तराशे गए विभिन्न हौनहार छात्र आज लोकतंत्र के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं। वहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरी माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने में प्रेरणा स्रोत गुरुजनों का भी र?मरण करना चाहूँगा। उनमें क्रमशः श्रद्धेय श्री अतीक अहमद खान, श्री नरेश चंद्र थापन, श्री यशपाल सिंह, डॉक्टर डी कुमार, प्रोफेसर जगदंबा सिंह, प्रोफेसर पीसी गुप्ता, प्रोफेसर डॉ. एचपी तिवारी आदि ऐसे प्रबुद्ध गुरुजन हैं और रहे हैं, जिनकी प्रेरणा सदैव ऊर्जा एवं सफलता का मार्ग प्रशस्त करती रही है। वहीं, कर्मभूमि के रूप में प्रयागराज की पवित्र भूमि और गंगा जी की पतिता पावनी जलधारा ने सदैव मातृभूमि के साथ कर्मभूमि की पवित्रता के महात्म्य को सिद्धता प्रदान करते हुए अनगिनत प्रबुद्ध योग्य विलक्षण प्रतिभा को धनी नागरिकों की श्रृंखला का उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराया।



स्पीड न्यूज

सिद्ध कान्हू मैदान में पौधरोपण

रामगढ़। सिद्ध कान्हू जिला मैदान परिसर में शनिवार को पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीए अजीत जायसवाल, रामचरित वर्मा, दिवाकर प्रसाद, डॉ रंधीर, शंकर साव, अनिल कुशावाहा शामिल हुए। सीए अजीत जायसवाल ने कहा कि हमलोग पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अभियान एक माह तक जारी रहेगा। इस दौरान हम वृक्षारोपण के साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का भी कार्य करेंगे।

आजसू का कार्यकर्ता सम्मेलन आज

कुजू। मुरपा स्थित आजसू मांडू प्रखंड कार्यालय में आजसू कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नरेश महतो व संचालन जिला उपाध्यक्ष जयकिशोर महतो ने किया। बैठक में मुख्य रूप से आजसू मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रविवार को हजारीबाग में पार्टी का आयोजित लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मांडू विधानसभा क्षेत्र 6 प्रखंड के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। सुदेश महतो का नयामोड़, मांडू व चरही में भव्य स्वागत किया जायेगा। मौके पर हेमलाल महतो, लालचंद महतो, तेजनाथ महतो तेजु, जगदीश आडवाणी, रमेश चौधरी, गुडू करमाली, अमित टाकुर, मुकेश महतो, संदीप अग्रवाल, संदीप महतो, अशोक कुमार, प्रकाश पटेल आदि मौजूद थे।

जुबिली कॉलेज में स्वच्छता अभियान

भुरकुंडा (रामगढ़)। जुबिली कॉलेज एनएएस इकाई एक एवं दो के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वयंसेवकों ने कॉलेज परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में जमे कूड़ा-करकट एवं झाड़ियों की साफ-सफाई की। प्राचार्य प्रो.एनके तिवारी ने स्वयंसेवकों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपने घर एवं आसपास के क्षेत्र को साफ-सूथरा रखना हमसबों का दायित्व है। अभियान को सफल बनाने में जानहवी, सिमरन, कुमकुम, रागिनी, सोनी, राजा खान, तारा शंकर, सुजल, सागर, सोनू, विरेन्द्र, अमित आदि का विशेष योगदान रहा।

इलेक्ट्रीशियन हेलपर को पीटा

भुरकुंडा (रामगढ़)। ओपी क्षेत्र अंतर्गत सेंट्रल सौर के सात नंबर नीचे धौड़ा में दो युवकों ने सीसीएल के इलेक्ट्रीशियन हेलपर परमेश्वर मुंडा की जमकर पीटाई कर दी। घटना की सूचना भुरकुंडा ओपी में भी दी गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को सीसीएल बरका-सयाल प्रक्षेत्र के सेंट्रल सौर में बिजली का काम चल रहा था। सीसीएल के चार विद्युतकर्मी सात नंबर नीचे धौड़ा में ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहे थे। इसी क्रम में दो युवकों ने गाली-गलौज एवं दुर्व्यवहार करते हुए सीसीएल के इलेक्ट्रीशियन हेलपर परमेश्वर मुंडा (52वर्ष) सौर टिपला निवासी को बुरी तरह पीटा दिया। घटना में परमेश्वर मुंडा के आंख के उपर और बांये हाथ की उंगली में काफी चोट लगी है। घायल परमेश्वर मुंडा का भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराया गया।

खुशबू रानी ने किया पदमार ग्रहण

भुरकुंडा (रामगढ़)। सोन्दा डी पंचायत में नयी पंचायत सचिव खुशबू रानी ने शुक्रवार को पदमार ग्रहण किया। स्थानीय मुखिया उपेंद्र शर्मा व पंचायत समिति प्रतिनिधि डब्लू पांडेय ने खुशबू रानी का स्वागत करते हुए शुभकामनाओं के साथ पदमार ग्रहण कराया। मौके पर पिंकी कुमारी को नया राशन कार्ड दिया गया। साथ ही बुध उरांव का वृद्धा पेंशन की स्वीति दी गई। उपेंद्र शर्मा व डब्लू पांडेय ने कहा कि पंचायत सेवक नरेश हजाम सहित अब दो पंचायत सचिव हो गए हैं। इससे पंचायत के कार्यों में तेजी आयेगी। साथ ही कार्यों का निष्पादन ससमय हो पायेगा।

पंचायत का होगा विकास : प्रमुख

भुरकुंडा (रामगढ़)। पतराटू पैम के टापू पर शुक्रवार को पतराटू प्रखंड के जनप्रतिनिधि की बैठक हुई। बैठक में पतराटू प्रखंड प्रमुख कौशल्या देवी एवं नमाम पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। कौशल्या देवी ने कहा कि सभी एकजुट होकर अपने-अपने पंचायत के चहुंमुखी विकास के लिए मुखिया के साथ मिलकर कार्य करें। साथ ही जन समस्याओं के समाधान के प्रति हर सार्थक कदम उठाने की बात कही। मौके पर ज्योति गुप्ता, विजयलक्ष्मी, अनीता जैन, रानी, मृदुला पंडित, सुनीता देवी, बेबी कुमारी, ममता देवी, कंचन कुमारी समेत कई लोग मौजूद थे।

गिद्दी सी में खुला ई बाइक का शोरूम

गिद्दी। गिद्दी सी-नयामोड़ मुख्य मार्ग पर डाडी प्रखंड मुख्यालय के समीप ई व्हीकल मोटरसाइकिल शोरूम का उद्घाटन झामुमो के केन्द्रीय सदस्य राज कुमार महतो, डाडी वीडोओ संतोष गुप्ता, सीओ निशांत अंबर, 20 सूत्री अध्यक्ष लखनलाल महतो, जिप सदस्य डाडी भाग 2 पिंकु देवी ने किया। संतोष गुप्ता ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय के समीप बाइक बाजार में ई व्हीकल शोरूम नहीं रहने से ग्राहकों में कमी खेल रही थी। इस मौके पर शोरूम के संचालक राजेश महतो व दिलीप को बधाई भी दी।

दंपति से एक लाख रुपया छीना

कोरपे। दंपति मटवारी बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से एक लाख रुपये निकाल कर घर आनेपुरी की ओर लौट रहा था कि बाबुगांव-देवांगना रोड में एक बाइक सवार दो व्यक्ति ने पैसों का बैग छीन लिया और वे फरार हो गए। कोरपे थाना में पीडित दंपति के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

सीसीएल सीएमडी ने बरका-सयाल प्रक्षेत्र के कई खदानों का किया निरीक्षण, कहा

कई नयी खदानें जल्द चालू होंगी

खबर मन्त्र संवाददाता

उरीमारी/भुरकुंडा (रामगढ़)। सीसीएल के नवनियुक्त सीएमडी डॉ वी वीरा रेड्डी ने शनिवार को बरका-सयाल प्रक्षेत्र का दौरा कर खदानों का निरीक्षण किया।

बरका-सयाल महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह ने सीएमडी वी. वीरा रेड्डी को पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। महाप्रबंधक कार्यालय में सीएमडी वी. वीरा रेड्डी ने सीसीएल बरका-सयाल प्रक्षेत्र के अधिकारियों, संवेदक एवं कोयला ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक की। इसके बाद सीएमडी वीरा रेड्डी, बरका-सयाल महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह एवं कई अधिकारियों के साथ बिरसा परियोजना पहुंचे, उन्होंने कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान सीएमडी ने बिरसा परियोजना, न्यू बिरसा और उरीमारी परियोजना के पोटंगा वकंशप का निरीक्षण किया।

उत्पादन और सुरक्षा को लेकर रेडी ने दिये कई दिशा-निर्देश

निरीक्षण के क्रम में भुरकुंडा परियोजना के बलकुदरा आउटसोर्सिंग एवं हाथोदाड़ी खदान होते हुए सीसीएल सोन्दा रेलवे साइडिंग पहुंचे जहां अधिकारियों से जानकारी लने के पश्चात कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएमडी ने कहा कि बरका-सयाल प्रक्षेत्र में प्रोडक्शन बेहतर है और काम भी ठीक से हो रहा है। उत्पादन लक्ष्य मामले में एरिया का परफॉर्मेंस अच्छा है। उन्होंने कहा कि बलकुदरा माईंस जल्द ही चालू हो रहा है। केके माईंस और सौदा डी की माईंस से भी कोयले का उत्पादन जल्द शुरू हो जाएगा। इस दौरान भुरकुंडा के बंद बांसगढ़ा और हाथोदाड़ी भूमिगत खदान के संबंध में उन्होंने कहा कि माईंस क्यों बंद है इसकी रिपोर्ट देखेंगे। हालांकि भूमिगत खदान में मैनुअल तरीके से



हाथोदाड़ी भूमिगत खदान का निरीक्षण करते सीसीएल के सीएमडी।

अब प्रोडक्शन संभव नहीं है। मास प्रोडक्शन करना है। इसके लिए माईंस में टेकोलॉजी एडवेंट हो पाएगा की नहीं इसकी स्टडी की जाएगी। कम प्रोडक्शन पर माईंस अब मैनुअली चालू नहीं किया जा सकता है। सीएमडी के दौर के क्रम में सीसीएल बरका-सयाल महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक अपरेशन विनोद कुमार,

उरीमारी पीओ दिलीप कुमार, बिरसा परियोजना के खान प्रबंधक रामेश्वर मुंडा, भुरकुंडा पीओ मनोज कुमार पाठक, सयाल पीओ सुबोध कुमार, एरिया सर्वे अफिसर मधुकर श्याम झा, एसओ माइनिंग अजय मेहता, क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी एनके सिंह, एसओ (एक्स.) केआर भवन, प्रिंस कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

आगाज कार्यशाला में दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारी

रामगढ़। शहर में अखिल भारतीय युवा मंच और रामगढ़ चेतना शाखा ने संयुक्त रूप से आगाज नामक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अतिथियों ने कहा कि संगठन के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में कई अभियान संचालित किए जा रहे हैं। कार्यशाला में प्रांत स्तर पर रांची शाखा, रांची समर्पण शाखा, रांची साउथ शाखा, रांची साउथ जागृति शाखा, खुटी शाखा, झुमरीतेलैया शाखा, झुमरीतेलैया प्रेरणा शाखा से अध्यक्ष, सचिव एवं कई सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का उद्देश्य शीर्ष नेतृत्व में प्रत्यक्ष संवाद, प्रांत में चल रहे प्रोजेक्ट्स के विषय में जानकारी, अपने बातों को खुले मन से रखने और अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के संविधान के तहत नियमों के बारे में जानकारी साझा करना था।

शिक्षा से ही देश और समाज का होता है विकास : सुनीता

विधायक ने वाई 9 में मरार स्कूल की चारदीवारी निर्माण का किया शिलान्यास

खबर मन्त्र संवाददाता

रामगढ़। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, जिससे समाज और देश का विकास संभव है। यह बात शनिवार को रामगढ़ नगर परिषद के वाई 9 में मरार स्कूल की चारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंची विधायक सुनीता चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के कोई भी समाज व देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों



ना आ जाएं, अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करें। इस चहारदीवारी का निर्माण पूरा हो जाने से स्कूल परिसर में बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। विद्यालयों में बेहतर शिक्षा का लाभ छात्र-छात्राओं को प्राप्त हो इसके लिए हमलोग सजग एवं सक्रिय हैं।

कार्यक्रम में आजसू पार्टी नगर परिषद सचिव राजेंद्र महतो, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनुपमा सिंह, तिवारी महतो, नरेश महतो, देवेन्द्र प्रसाद, वाई 9 पार्षद शिव शंकर मिश्रा, जिला संगठन सचिव गुड्डू सिंह, उमेश प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे।

चरही : खदान में डूबी चरही गांव में ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए करें जागरूक : डीडीसी

चरही। शनिवार को सीसीएल के बंद पड़े खदान ब्लॉक नंबर 42 के गहरे पानी से आठ वर्षीय संजना कुमारी शव पानी में तैरता हुआ मिल गया। जिसे एक नाव के माध्यम से सीसीएल चार कर्मियों ने निकाला। वीते शनिवार को संजना अपनी मां और भाई बहन के साथ उक्त खदान में कपड़ा धोने और नहाने के लिए गई हुई थीं नहाने के क्रम में तीनों बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। मां ने दो बच्चों को बचाने में सफल हुई लेकिन संजना को बचाने का पूरा प्रयास की लेकिन गहरे पानी में डूब जाने के कारण मां उसे नहीं बचा पाई। शनिवार को संजना का शव खदान के गहरे पानी में तैरता हुआ ग्रामीणों ने देखा। जिसकी जानकारी पिंडरा मुखिया देवलाल कुमार को मिली ग्रामीणों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को तैरता देख वहीं पड़ी सीसीएल के नाव पर चार कर्मी सवार होकर शव को पानी से बाहर निकाला।

रामगढ़। समाहरणालय के जिला परिषद स्थित सभागार में शनिवार को उप विकास आयुक्त रोबिन टोपो की अध्यक्षता में स्वच्छता पर कार्यशाला हुआ। कार्यशाला के दौरान सर्वप्रथम यूनिसेफ सहयोगी संस्था डेबनेट, निर्भय कुमार द्वारा पीपीटी के माध्यम से सभी को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 से सभी मानकों की विस्तार से जानकारी दी गई। उप विकास अधिकारियों, कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित कर आमजनों को स्वच्छ सर्वेक्षण



करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने सॉलिट/लिविड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सभी सम्बंधित अधिकारियों, कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित कर आमजनों को स्वच्छ सर्वेक्षण

ग्रामीण 2023 के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने नाडेप एवं ग्रेवाटर मैनेजमेंट, घरेलू कचरा का प्रबंधन आदि का कार्य स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के मानकों के अनुरूप ही करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने किये गए कार्य का प्रतिवेदन जिला स्तर पर भी उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। कार्यशाला में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रामगढ़, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सहित अन्य उपस्थित थे।

श्री अगसेन स्कूल में मना इमोजी डे

भुरकुंडा। श्री अगसेन स्कूल भुरकुंडा में शनिवार को वर्ल्ड इमोजीडे मनाया गया। बच्चों ने घर से विभिन्न प्रकार की इमोजी बनाकर लाया था। शिक्षक एचके सिंह ने बताया कि इमोजी जपानी भाषा के शब्द इ (पिक्चर) और मोजी (पात्र) से मिलकर बना है। साल 1990 में जापान में शिगेताका कुरीता ने पहली इमोजी बनाई थी। शिगेताका की बनाई इमोजी को वहां की टेलीकॉम कंपनी टोकोमो ने अपने टेक्स्ट मैसेज में शामिल किया था। जापानी डिक्शनरी में इसे 1977 में शामिल किया गया।

शिविर में सौ से अधिक मरीजों की हुई जांच

खबर मन्त्र संवाददाता

बरही। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा हजारीबाग जिला इकाई के तत्वाधान में चित्रांश परिवार बरही के सौजन्य से एनएच डाक बंगला में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगा। जिसमें 44 दांत और 55 आंख के मरीजों की जांच की गई। जिन्हें आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया।

शिविर का उद्घाटन प्रदेश उपाध्यक्ष गिरवर नंदन प्रसाद, कार्यकारी हजारीबाग जिला उपाध्यक्ष वृज मोहन प्रसाद, जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष



अर्चना कुमारी सिन्हा महामंत्री रश्मि बिहारी लाला, अनुमंडलीय अस्पताल के डीएस सह बरही चित्रांश परिवार के डॉ प्रकाश ज्ञानी, शैलेंद्र सिन्हा, अजीत कटरियार, महेश श्रीवास्तव आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि कायस्थ

समाज ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों पर आधारित जनहित के कार्यक्रम कर रहा है। जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मरीजों के नेत्र और दांत की जांच कर उचित मार्गदर्शन करेगे।

शिविर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई के माया शंकर वर्मा, अनूप सिन्हा, संजय कुमार सिन्हा, शशिकांत, रुपेश बिहारी लाला इत्यादि मौजूद थे। जिसे सफल बनाने में बरही चित्रांश परिवार के संजय कुमार सिन्हा, कुणाल कतरियार, अमित कुमार सिन्हा, प्रभात कुमार सिन्हा आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई।

पीएचसी गोरियाकरमा में नहीं हो रहा इलाज

खबर मन्त्र संवाददाता

बरही। प्रखंड अंतर्गत गोरियाकरमा पंचायत की मुखिया कुमारी मीरा ने बताया कि गोरियाकरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मात्र हाथी के दांत बनकर रह गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्तर से स्वास्थ्य केंद्र को सुसज्जित रूप से निर्माण होने के बावजूद ग्रामीणों का इलाज नहीं हो पा रहा है। केंद्र में सुविधाओं का घोर अभाव है। पंचायत मुखिया कुमारी मीरा ने स्वास्थ्य उपाधीक्षक को पत्र लिखकर मांग किया है कि उक्त स्वास्थ्य केंद्र में संपाह में



कम से कम दो दिन चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया जाए। सेवा दे रहे चपरासी की सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है, नए चपरासी को नियुक्त किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, विलडिंग की मरम्मत को तत्काल करवाया जाए ताकि यहां कार्य कर रहे कर्मचारियों को

पेशेदानी न हो। उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रतिदिन खुला रखा जाए, जिस जगह का स्टाफ है उसे वहीं रखा जाए। महीने में उपाधीक्षक डॉ ज्ञानी प्रकाश भी केंद्र का दौरा स्वयं करें, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में उन्हें आसानी होगी। इसके अलावा उन्होंने अन्य विषयों से उपाधीक्षक को अवगत करवाते हुए उचित सुविधा मुहैया कराने का आग्रह किया है।

केंद्र में सप्ताह में कम से कम दो दिन चिकित्सक को प्रतिनियुक्त करें उपाधीक्षक : मुखिया

पेशेदानी न हो। उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रतिदिन खुला रखा जाए, जिस जगह का स्टाफ है उसे वहीं रखा जाए। महीने में उपाधीक्षक डॉ ज्ञानी प्रकाश भी केंद्र का दौरा स्वयं करें, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में उन्हें आसानी होगी। इसके अलावा उन्होंने अन्य विषयों से उपाधीक्षक को अवगत करवाते हुए उचित सुविधा मुहैया कराने का आग्रह किया है।

एक नजर में

संतोष व दीपक के परिवार को मिलेगा पचास हजार

हजारीबाग। बड़ा अखाड़ा में नगर के केशरवानी परिवार के बुद्धिजीवियों तथा समाजसेवियों की बैठक प्रदेश महामंत्री भगवान केशरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नगर अध्यक्ष सुरेंद्र केशरी सचिव विकास केशरी, अनिल केशरी, अर्जुन केशरी, उमेश केशरी, सोनू केशरी, वंदन केशरी, अजय केशरी, राजकुमार केशरी, जीतेंद्र केशरी, अंकित केशरी, शुभम, विकास बिंदू समेत दर्जनों लोग उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से स्व संतोष केशरी और स्व दीपक केशरी के शोक संतोष परिवार को किस प्रकार आर्थिक सहयोग किया जाए इस पर विचार विमर्श किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने बड़ चढ़कर आर्थिक सहयोग करने के लिए तत्पर भी दिखे, कई लोग सामर्थ्य के अनुसार सहयोग राशि बैठक में जमा भी कर दिए जो लगभग 50000 रुपये के करीब हो गया जिसे समाज के लोग 1,2 दिन में उस परिवार तक पहुंचा देंगे। बैठक में उपस्थित सभी के द्वारा अपने स्वजातीया बन्धुओं से अपील की गई कि उक्त परिवार को अधिक से अधिक बड़ चढ़कर आर्थिक सहयोग करें। आज ही एक बैंक खाता ईस गुप में डाल दिया जाएगा जिसमें सहयोग राशि भेज सकते हैं। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष सिलहरे पंडित को अन्य सरकारी सहायता भी दिलाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। बैठक के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर मृतक के पवित्र आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।

सिद्ध कान्हू युवा खेल क्लब का गठन

सिद्धकान्हू। बनारसो पंचायत भवन सभागार में मुखिया चंद्रशेखर कुमार की अध्यक्षता में सिद्ध कान्हू युवा खेल क्लब का गठन को लेकर आम सभा हुई, जसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष अविनाश कुमार पांडेय को बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष सत्येंद्र पांडे एवं सचिव भीम कुमार महतो चुने गए। कार्यकारिणी सदस्यों में रबीब अंसारी, करीम अंसारी, महेंद्र यादव, अरुण कुमार, सूरज कुमार पासवान, इमाम हुसैन, राजू महतो, सुरेश राम, सहदेव राम, मुकेश पासवान, राजू कुमार यादव, शेख करीम, अजय टाकुर, रामचंद्र राम, करीम अंसारी, राजू महतो, राजू यादव, अविनाश कुमार, पवन यादव, अरविंद पांडे, इमाम हुसैन, मुकेश पासवान, राजू यादव, फैलाश राम, गंगाधर महतो, सूरज पासवान, विजय हासदा, एप्पू हसदा, हर्षवर्धन कुमार, शेख बिलाल, वीरेंद्र कुमार, परवेज आलम, अरुण कुमार यादव, चंद्रशेखर, शेख करीम, जितेंद्र महतो, विशेश्वर महतो, चितामन महतो, रोहित महतो, सुनील महतो, जय नारायण महतो, प्रसादी यादव, विष्णु गुप्ता, शिवलाल टूडू, राजू रविदास, उपेंद्र सोरेन, बिलाल आलम, राज कुमार, सुंदरलाल, नरेश यादव, विष्णु पांडे और शेख सदांम बनाए गए।

हेल्थ कैंप में 170 ग्रामीणों का हुआ इलाज

बड़कागांव। पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के तत्वावधान में बरियात् गांव में हेल्थ कैंप लगा। गांव के 170 लोगों ने इलाज करवाया। इन सभी को मुख्य रूप से मौसम बदलने की वजह से होने वाली समस्याएं जैसे सांस लेने में दिक्कत, छात्रिया, वायरल फीवर इत्यादि जैसी समस्याएं थी जिसका उपचार पकरी बरवाडीह के मेडिकल विभाग की ओर से डॉक्टर सागर कुमार और डॉक्टर विदुषी श्रीवास्तव ने किया। मौततकव है कि पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना नियमित अंतराल पर मुफ्त चिकित्सा शिविर परियोजना प्रभावित इलाकों में लगाता है।

बेदिया का बड़कागांव व केरेडारी का दौरा आज

बड़कागांव। झामुमो केंद्रीय सचिव सह झारखंड परिवहन प्राधिकार सदस्य संजीव कुमार बेदिया रविवार को बड़कागांव एवं केरेडारी का दौरा करेंगे। बड़कागांव में झामुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा सुबह 10:00 बजे बेदिया का स्वागत किया जाएगा। संगठन को मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। तत्पश्चात केरेडारी प्रखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान बेदिया कंडाबेर माता स्थान जाएंगे माता का दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगे। कंडाबेर पंचायत में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।



हजारीबाग में ट्रेड लाइसेंस की हुरी जांच

हजारीबाग। फरहत अनिसी, नगर प्रबंधक के नेतृत्व में वाई 11 तथा 32 में स्थित व्यावसायिक भवनों यथा बंसन बैंक (योगेंद्र प्रसाद), गुणमोहर इंटर कॉलेज, मानसरोवर सोसाइटी, कैरियर गाइड और मुमुलिका स्वीट्स के द्वारा भरे गए स्वकर निर्धारण पत्रों का भीतिक सत्यापन किया गया जिसमें टीम के द्वारा भवन मालिकों द्वारा भरे गए क्षेत्रफल एवं किये जा रहे प्रयोग में भिन्नता पाई गई। नगर निगम द्वारा इन्हें डिमांड नोटिस भेजी जाएगी। साथ ही टीम के द्वारा व्यवसायिक दुकानों की भी जांच की गई जिनके द्वारा ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया गया है उनके द्वारा मौके पर ही ट्रेड लाइसेंस प्राप्त किया गया इस टीम में श्री धर्मेश राय, सहायक ; रितिका के शेखर एवं रितिका एवं निगम के तहसीलदार थे।

उत्कर्मित उच्च विद्यालय खैरा में अनिमियतता!

टाटीझरिया। खैरा पंचायत अंतर्गत उत्कर्मित उच्च विद्यालय खैरा करमा में विद्यालय विकास कोष से प्रधानाध्यापक भागीरथ पंडित द्वारा राशि की बंदर बाट अपनी मनमानी कर दुरुपयोग का आरोप प्रति वर्ष 2022-23 की घटना विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष अरविन्द केशरी द्वारा लगाते हुए दायित्व पर जांच कर कानूनी कार्यवाही हेतु हजारीबाग जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीसी, टाटीझरिया बीडीओ को लिखित आवेदन देकर मांग किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्कर्मित उच्च विद्यालय खैरा करमा के दोनो खंडों 1 से 8 व 9 से 10 कक्षा के विद्यालय विकास कोष में विभिन्न मदों को मिलाकर कुल 118000 (एक लाख आठरह हजार रुपये की राशि प्राप्त हुआ था, जिसे विद्यालय विकास कार्य एवं छात्र छात्राओं के हित में राशि को उपयोग किया जाना था जिसे लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों संग बैटक करवाकर सहमति प्राप्त कर अध्यक्ष तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक (सचिव) के संयुक्त हस्ताकर से ही विभाग द्वारा भेजी गई राशि का निकासी कर विद्यालय विकास कार्य किया जाना था। लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक किन्ही को कोई सूचना नहीं दिया और अपने स्वयं हस्ताकर कर पीएफएमएस के माध्यम से तीन किस्तों में कुल 79364 ऊनासी हजार तीन सौ चौसठ रुपये की निकासी की जिसमें मध्य खंड के रंग रोगन हेतु 71564 रुपये एवं 13 छात्रों के पोशाक हेतु 13600=7800/-रुपये कुल 79364 रुपये की निकासी किया।

अदाणी फॉउंडेशन ने ग्रामीणों को दिया मॉनसून किट

बड़कागांव। अदाणी फॉउंडेशन ने गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत ग्रामीणों के बीच निःशुल्क मॉनसून किट का वितरण किया। बड़कागांव स्थित कार्यालय परिसर में शुक्रवार और शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फॉउंडेशन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को मॉनसून किट के तहत छाता, थर्मस, मछरदाननी, तौलिया, जूट का बैग आदि प्रदान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हर मौसम में अदाणी फॉउंडेशन की ओर से लगातार सहयोग प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। पिछले दिनों ही बारिश के दौरान बड़कागांव प्रखंड के गाली, बलोदर और गोंदलपुरा के ग्रामीणों के बीच 50-50 किलोग्राम डीएपी खाद, 50-50 किलोग्राम यूरिया और दस-दस किलोग्राम धान के बीज प्रदान किए गए थे। कार्यक्रम में अदाणी फॉउंडेशन ने अधिकारियों के कहा कि इलाके में ग्रामीणों के लिए लगातार जनकल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, जिसे लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में गांधीबपुरा खनन परियोजना के प्रमुख धर्मेन्द्र दुबे, डीजीएम संजय कुमार, सेवानिवृत्त डीएसपी सुकुमार सिंह, वरीय प्रबंधक भीखम सिंह, उप प्रबंधक मोहित गुप्ता, संतोष तिवारी, चेतन साई और शरद मिश्रा समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे।

अच्छी नींद के लिए उचित आहार



सोने से पहले इन चीजों के सेवन से आती है अच्छी नींद

1. दूध

सोने से पहले दूध लेना अच्छा है। इसमें एक ऐसा योगिक पाया जाता है जो सेरोटॉनिन को बनने में मदद करता है। इससे शरीर को आराम मिलता है। आराम मिलने से नींद अच्छी आती है।

2. शकरकंद

शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट और पोटैशियम होता है, जिससे बाँड़ी रीलेक्स फील करती है। रात में सोने से पहले शकरकंद खाने से नींद अच्छी आती है।

3. केला

केले में भी पोटैशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। यह दोनों ही तत्व शरीर को आराम देते हैं। सोने से पहले केला खाने से नींद अच्छी आती है।

4. चेरी

चेरी में मेलैटॉनिन नामक तत्व पाया जाता है। इसे खाने से भी नींद अच्छी आती है।

इन चीजों को खाने से करें परहेज

रात में सोने से पहले कुछ भी ऐसा न खाएँ, जो भारी हो। बहुत अधिक मसालेदार और ऑयली खाना खाने के बाद नींद अच्छी नहीं आती और बेचैनी बनी रहती है। विशेषज्ञ भी रात को हल्का खाने की सलाह देते हैं। रात में सोने से पहले नशीले पेय-पदार्थ, कैफीन और बहुत अधिक मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का सेवन कर भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इन चीजों के सेवन और आपके सोने के बीच दो से चार घंटे का अंतर जरूर हो।

नींद के लिए दवा नहीं उचित आहार लें

अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए कई लोग दवाई लेना शुरू कर देते हैं लेकिन सोने के लिए दवा लेना सही नहीं है।

सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि आपको यह प्रॉब्लम है क्यों? अगर आप बहुत अधिक तनाव लेते हैं, आपकी जीवनशैली अस्त-व्यस्त है और आपके सोने

की जगह सही नहीं है तो भी आपको यह दिक्कत हो सकती है।

इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि सोने से पहले आप जो खाते हैं वह सही नहीं है। सोने से पहले क्या खाएं और क्या न खाएं... यह पता होना जरूरी है।

डीहाइड्रेशन की वजह से होती है झुर्रियाँ



गर्दन और चेहरे पर झुर्रियाँ डीहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। ज्यादातर यह समयसमय बढ़ती उम्र में होती लोगों में होती है लेकिन कुछ लोग कम उम्र में इस समस्या से परेशान हो जाते हैं। झुर्रियाँ पड़ने पर त्वचा उम्र दराज सी दिखने लगती है। ऐसे में आप बहुत से प्रॉडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिनके कई साइड-इफेक्ट भी होते हैं। आप चाहे तो कुछ घरेलू तरीके अपनाकर भी गर्दन और चेहरे की झुर्रियाँ से छुटकारा पा सकते हैं।

1. कैस्टर ऑयल

कैस्टर ऑयल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। यह त्वचा को हाइड्रेट कर उसे मुलायम बनाता है। इसको गर्दन पर लगाकर मसाज करने से झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं।

2. पेट्रोलियम जैली

पेट्रोलियम जैली के झुर्रियों वाली त्वचा पर लगाने से मदद मिलती है। झुर्रियाँ धीरे-धीरे मिटने लगती हैं।

3. विटामिन ई तेल

कम उम्र में ही झुर्रियों की समस्या होने पर विटामिन ई का तेल लगाएं और अच्छे से मसाज करें। गर्दन की झुर्रियाँ मिट जाएंगी।

4. नारियल तेल

रात को सोने से पहले गर्दन पर रोज नारियल तेल से मालिश करें, इससे झुर्रियाँ कम होंगी।

5. बादाम तेल

बादाम के तेल में विटामिन ई होता है जो त्वचा को अंदर से पोषण पहुंचाता है और झुर्रियों की समस्या को ठीक करता है।

मूंगफली खाएँ स्वस्थ रहें



सर्दियों में मूंगफली खाना सभी पसंद करते हैं। इससे टाइम भी पास होता रहता है। मूंगफली स्वाद में जितनी अच्छी है सेहत के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है। जी हाँ, मूंगफली खाने से बहुत से लाभ मिलते हैं।

मूंगफली खाने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

■ मूंगफली में कैलोरी की मात्रा कम होती है। इसका सेवन करने से मोटापा नहीं बढ़ता है साथ ही भूख भी मिट जाती है।

■ इसके सेवन से शरीर का कॉलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है। मूंगफली में मौजूद मोनो-सेचुरेटेड फैटी एसिड हृदय संबंधी रोगों को खत्म करने का काम करता है।

■ मूंगफली एंटी-ऑक्सिडेंट और ट्रिप्टोफेन गुण काफी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो तनाव की समस्या को दूर करते हैं। इसलिए रोजाना मूंगफली का सेवन करें।

■ मूंगफली में विटामिन ए भरपूर मात्रा होती है, जिससे बाल लंबे और घने होते हैं। इसलिए रोजाना मूंगफली का सेवन करें।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ गर्भवती महिला के लिए मूंगफली काफी फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड शिशु में होने वाले न्यूरोल ट्यूब डीफेक्ट का खतरा कम करता है।

■ इतना ही नहीं, मूंगफली के सेवन से त्वचा में ग्लो आता है। इसमें मिले मोनो-सेचुरेटेड एसिड और एंटी-ऑक्सिडेंट गुण स्किन को नमी देते हैं। साथ ही त्वचा निखरती है।

■ डायबिटीज के मरीजों के लिए मूंगफली काफी फायदेमंद है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।

■ मूंगफली में विटामिन ए भरपूर मात्रा होती है, जिससे बाल लंबे और घने होते हैं। इसलिए रोजाना मूंगफली का सेवन करें।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली में विटामिन ए भरपूर मात्रा होती है, जिससे बाल लंबे और घने होते हैं। इसलिए रोजाना मूंगफली का सेवन करें।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

■ मूंगफली से मिलने वाले प्रोटीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

अमरूद से कई रोगों का होता है इलाज



फलों को सेहत के लिए शुरू से ही माना गया है लेकिन अमरूद एक ऐसा फल है जिसके फायदे ही फायदे हैं। इसके सेवन से न जाने कितनी बीमारियों का इलाज हम घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। इसके पेड़ लोग अपने घरों में भी लगाते हैं।

1.पेट ठीक करने में सहायक

इसकी तासीर ठंडी होती है, ये पेट की बहुत सी बीमारियाँ जैसे अपच, गैस आदि में वरदान सिद्ध होता है।

2.कैंसर से बचाव

अमरूद के सेवन से कैंसर के सेल्स मर जाते हैं। अमरूद खाने से ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर और यहां तक की फेफड़ों के कैंसर से भी बचा जा सकता है।



3.झुर्रियों को खत्म करना

त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों को रोकने के लिए रोजाना एक अमरूद खाना चाहिए। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन ए त्वचा पर ग्लो लाता है। 4. काले घेरे की समस्या से निजात अमरूद की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर आंखों के नीचे लगाने से काले घेरे और सूजन कम हो जाती है।

मोटापा से छुटकारा दिलायेगा आसन

बदलते लाइफस्टाइल और खानपान के कारण आज हर 5 में से 3 व्यक्ति मोटापे का शिकार हैं। ऐसे में हर कोई स्लिम बॉडी पाने की चाहत रखता है। बॉडी को स्लिम करने के लिए लड़कियाँ ज्यादा मेहनत करती हैं, जिसके लिए वह तरह-तरह के उपाय और जिम जाकर एक्सरसाइज करती हैं लेकिन आप चाहे तो योग करके शरीर की अधिक चर्बी को कम और शरीर को लचीला बना सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही योगासन के बारे में बताएँगे, जिन्हें करके आप आसानी से स्लिम बॉडी पा सकते हैं।

1. भुजंगासन

इस योगासन से पेट की चर्बी कम, कमर

पतली और कंधे चौड़े, बाजू मजबूत होती हैं। इसको करने के लिए पहले पेट के बल लेट जाएँ और दोनों हाथों को सिर के नीचे रखें। अब माथे को सामने वाली दिशा में उठाएँ और दोनों बाजूओं को कंधों के समानांतर रखें। शरीर को स्ट्रेच करें और लंबी सांस लें।

2. पश्चिमोत्तानासन

यह योग सई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करता है और शरीर को लचीला बनाता है साथ ही अत्यधिक चर्बी को कम करने में मदद करता है। सीधे बैठकर दोनों पैरों को फैलाकर सीध में रख लें। अब हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए झुककर पैरों के अंगूठों को पकड़ें। घूटने

मुड़ने न पाएँ।

3. पूर्वोत्तानासन

शरीर के निचले भाग और बाजूओं को सुदौल बनाने के लिए आसन है। पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखें। फिर पंजे को आपस में जोड़ें और रोड की हड्डियों को सीधा रखें। अब हाथों को नीचे जमीन पर टिकाकर कमर को ऊपर की ओर उठाएँ।

4. बालासन

इस आसन में बच्चों की तरह पोज बनाया जाता है। पहले घुटनों के बल बैठ जाएँ और फिर हाथों को ऊपर उठाएँ और धीरे-धीरे आगे की तरफ झुकते हुए हथेलियों को जमीन से लगाएँ।

सोया प्रकृति से वरदान के रूप में मिला है



सोयाबीन एक ऐसा शाकाहारी भोजन है जिसमें मांसाहार से भी ज्यादा प्रोटीन और पौषक तत्व पाए जाते हैं। लोग इसे खाने के लिए तरह तरह से उपयोग में लाते हैं। सोया प्रकृति से वरदान के रूप में मिला है। सोयाबीन खाने से आप खूबसूरत दिख सकते हैं। इसमें कैल्शियम, ओमेगा 3, ओमेगा -3, फाइबर जैसे तत्व मौजूद होते हैं

जिससे शरीर की कितनी ही बीमारियों का इलाज संभव है। जो लोग बराबर सोयाबीन का सेवन करते हैं वे लोग जल्द बूढ़ा नहीं होते हैं। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई भी काफी मात्रा में पाया जाता है जो शरीर निर्माण में अमिनो एसिड प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करके उसे उर्जा देने के लिए बहुत लाभदायक

सिद्ध होता है।

सोयाबीन खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ

1. दिल के रोगों में फायदेमंद सोयाबीन खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह दिल के रोगियों के लिए लाभदायक है।

2. उच्चरक्तचाप

सिर्फ आधा कप रोस्टेड सोयाबीन रोज 8 हफ्तों तक खाने से ब्लैड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है।

3. त्वचा संबंधी रोगों में लाभकारी

ये शरीर के खून को साफ करता है। एनीमिया से बचने के लिए भी सोयाबीन का उपयोग कर सकते हैं।

4. डिप्रेशन कम करें

सोयाबीन खाने से मेमोरी पावर बढ़ती है और तनाव व चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, जिससे मन शांत रहता है।

5. हड्डियों को मजबूत करें

इसके लगातार प्रयोग से हड्डियों की कमजोरी दूर होती है जिससे अस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का खतरा नहीं रहता।

6. कैंसर रोकने में सहायक

इसमें भरपूर मात्रा में कैंसर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जिससे स्तन व प्रोस्टेट कैंसर काफी हद तक रोका जा सकता है। महिलाओं में 45 वर्ष की आयु के बाद मेनोपोज की समस्या से आने वाले बदलावों को भी काफी कम करता है।

7. प्रोटीन

शरीर के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता

होती है और सोयाबीन दूध में अंडा, मांस, मछली से कहीं अधिक ज्यादा प्रोटीन होता है। सोयाबीन में शरीर को ताकत देने वाले जरूरी रसायन मौजूद होते हैं जिससे हमारे दिमाग, फेफड़े, दिल, नाखून, बाल आदि मजबूत होते हैं।

8. विभिन्न प्रकार से उपयोग

अलग-अलग वर्गों के लोग सोयाबीन का सेवन अलग-अलग तरीके से करते हैं। जैसे कुछ लोग सोयाबीन का दूध का उपयोग करते हैं तो कुछ लोग सोयाबीन के पनीर की सब्जी बनाकर खाते हैं या सोयाबीन के पनीर को रुखा ही खाते हैं। अभी इस समय सभी जगह पर सोयाबीन के तेल का उपयोग भी काफी मात्रा में होता है।

अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है तो आपका दिन भी तनाव से भरा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि नींद तो आती रहती है लेकिन घबराहट के चलते हम सो नहीं पाते। रातें घड़ी की सुइयाँ देखते हुए बीत जाती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि हमारी सुबह भी अच्छी नहीं होती। शरीर में भारीपन रहता है, सिर दर्द होता है, आंखों में दर्द-जलन जैसी कई समस्याएँ हो जाती हैं।

ओल्ड एज में एक्सरसाइज में सावधानी

कसरत वैसे तो हर उम्र के व्यक्तियों को स्वस्थ बनाने में सहायक है। बढ़ती उम्र में यदि नियमित रूप से कसरत की जाए तो शरीर स्वस्थ व चुस्त रहता है। अगर रोजाना



20 मिनट कसरत की जाए तो हृदय और मांसपेशियाँ स्वस्थ बनी रहती हैं। अक्सर 40 की उम्र पार करते ही घुटनों और कमर दर्द की शिकायत होने लगती है जिससे कि कसरत करने में लोगों को परेशानी आती है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे कसरत के बारे में बताएँगे जिन्हें 40 से अधिक उम्र के व्यक्ति भी आराम से कर सकते हैं।

1. कुर्सी द्वारा कसरत

कुर्सी द्वारा घर में आराम से कसरत की जा सकती है। कुर्सी को पीठ के साथ इस तरह रखें कि कुर्सी की पीठ आपकी तरफ हो। हाथों को कंधे की सीध में रखते हुए कुर्सी के ऊपरी भाग को पकड़ें और कमर सीधी रखें। टांगों को पीछे की ओर बढ़ाएँ और कुर्सी को अंदर की ओर खींचें। कोहनी को मोड़ें और

छाती के नीचे लाएँ जब तक कि छाती का दबाव कुर्सी की ओर न हो। ऐसा धीरे-धीरे करें और 15 बार दोहराएँ।

2. तौलिए से करें कसरत

तौलिए से भी बड़े आराम से कसरत की जा सकती है। दोनों हाथों से तौलिए को पकड़ें और बांहों को छाती की सीध में रखें। तौलिए को एक हाथ से बाईं ओर खींचें और दूसरी ओर से इसे मरोड़ें। बांहों को सिर के पीछे ले जाएँ और ऐसा 10 बार दोहराएँ।

3. धीरे-धीरे चल के भी करें कसरत

धीरे-धीरे दौड़ कर भी आप आसानी से यह कसरत कर सकते हैं। इससे शरीर में बहुत से भागों को लाभ मिलता है और रक्त चक्र भी सुचारू रूप से होता है।

स्पीड न्यूज

बागबेड़ा लाल बिल्डिंग में कुंदन सिंह को घर में घुस कर गोली मारी

जमशेदपुर। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के लाल बिल्डिंग साई मंदिर के पास रेलवे क्वार्टर में घुसकर कुंदन सिंह नामक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। कुंदन सिंह के घट में गोली लगी है और टीएम्पच में उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कुंदन के परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की आधी रात के 2:00 बजे दो बाइक पर सवार होकर 9-10 की संख्या में बदमाश खिड़की तोड़कर कमरे में घुस गए और कुंदन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। भागते हुए बदमाशों ने भी हवाई फायरिंग की। इसके बाद कुंदन को इलाज के लिए टाटा मेम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुंदन सिंह के परिजनों ने बताया कि कुंदन की शादी 15 दिनों पूर्व ही हुई थी और वह शादी के पश्चात शांति पूर्ण जीवन बिता रहा था। इसी बीच बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। कुंदन सिंह की पत्नी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए रमेश सिंह का खास आदमी अंकित आया हुआ था। अंकित ने ही कुंदन सिंह को गोली मारी है। कुंदन की पत्नी ने कहा कि आरोपियों ने जाते समय धमकी दी है कि वह फिर आएंगे और सभी को गोली मार देंगे। आरोपी गांजा और ब्राउन शुगर का कारोबार करते हैं और उनके पास बहुत अवैध पैसा है।

ग्रामीणों के बीच बतख चूजे का वितरण

नामकुम। शनिवार को प्रखण्ड परिसर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बतख चुजा का वितरण किया गया रामपुर और कुटियातु पंचायत के चालीस लाभकों के बीच चुजा का वितरण करते हुए प्रखण्ड प्रमुख आशा कच्छर और बीडीओ ज्ञानशंकर जयसवाल ने कहा कि लाभक अपने अपने चुजा की देखभाल सहित तरीके से करें और उनको समय से खाना और दवा की सुखाक दे तो वे जल्दी बढ़े हों जाएंगे और लाभक मुनाफा कमा सकेंगे, वहीं बीएचओ डा अमरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत प्रत्येक लाभक को पंद्रह चुजा नब्बे प्रतिशत अनुदान पर दिया जा रहा है, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें। मौके पर मुख्य मंत्री से विधायक प्रतिनिधि माधो कच्छर, मनोज सिंह, धर्मवीर सिंह, समाजसेवी प्रदीप लकडा मौजूद थे।

आजसू पार्टी बीडीओ को ज्ञापन सौंपा

खलारी। आजसू पार्टी के द्वारा खलारी प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता को लेकर शनिवार को हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत उपायुक्त के नाम प्रखंड पदाधिकारी को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जिसमें सीसीएल के कार्य में पारिवारिक सौंपी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एसीटी रकम की मांग की जाती है इस प्रथा को खत्म किया जाए। समय पर छात्र छात्राओं का आयुष्य जाति और आवासीय प्रमाण बनाया जाए। अवैध बालू और कोयले की तस्करी पर प्रखण्ड सतर्क लगाए कोल डंप और निजी कर्मियों में 75: स्थानीय उन लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाए। प्रदूषण और नदियों को प्रदूषित होने रोक लगाया जाए। लॉकड डॉखिल खारिज को पूरा किया आदि मांगे शामिल थीं। मांग पत्र सौंपने में पार्वती देवी पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष पार्वती देवीए प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमारए बाबूलाल गंडूए सन्नी कुमारए रंजीत कर्मालीए दशरथ शामिल रहे।

राहे: विधायक ने किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन

राहे। विधायक सुदेश महतो ने शुक्रवार को राहे प्रखंड के अभिराम उच्च विद्यालय पोपाड़ा, रंगामाटी और प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय डोमनडीह में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में विधायक सुदेश महतो ने कहा कि हमारा प्रयास क्वालिटी एजुकेशन देने की है। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन किये जायेंगे। सिल्ली विधानसभा के 26 हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास से शिक्षा देने की तैयारी है। बोर्डे ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की ओर जा रहे है। शिक्षा में नयी क्रांति लाने की तैयारी है। बस सेवा कोचिंग निरालक लाइब्रेरी की तैयारी किया जा चुका है।

खबर मन्त्र संवाददाता

सतबरवा पलामू। प्रखंड क्षेत्र के बकोरिया में शुक्रवार को कार और टेपो की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो जाने के बाद ग्रामीणों ने बकोरिया में 5 घंटे तक सड़क को जाम रखा। जाम शाम 6:30 से लेकर 11:30 बजे रात्रि तक रहा। इस दौरान ग्रामीण काफी उत्तेजित थे। मालूम हो कि शुक्रवार के शाम 4:00 बजे के करीब इकोस्पॉर्ट कार और टेपू में भीषण सड़क हादसा बकोरिया पेट्रोल पंप के आगे तीखे मोड़ पर हो गया था। इसमें टैपू पर आधा दर्जन भर लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। मनीका प्रखंड के कोपे गांव के किशोर नीरज कुमार अपने निहलाल बकोरिया आ रहा

एक्सएलआरआइ समेत देश के 160 बिजनेस स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू

>> देश में 90 शहरों में परीक्षा केंद्र, 30 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। एक्सएलआरआइ समेत देश के 160 बिजनेस स्कूलों में एडमिशन के लिए होने वाले जेविंयर एटीट्यूड टेस्ट (जैट) की परीक्षा सात जनवरी 2024 को होगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। इसे लेकर जेविंयर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उक्त नोटिफिकेशन के अनुसार जैट में शामिल होने के लिए 15 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। साथ ही 20 दिसंबर से एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी

परीक्षा के पैटर्न में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं

परीक्षा के पैटर्न में फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। प्रश्नों की संख्या साल दर साल बदलती रहती है। प्रत्येक खंड में लगभग 22-30 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान सहित प्रश्नों की कुल संख्या 100-105 से अधिक नहीं होगी। कटऑफ में जीके व निबंध लेखन के स्कोर को शामिल नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले को जीडी-पीआइ में शामिल होने के लिए कॉल किया जायेगा। परीक्षा में प्रश्न दो पार्ट में पूछे जायेंगे। पार्ट वन में वर्बल एबिलिटी व लॉजिकल रिजनिंग, डिजिजन मैकिंग, क्वांटिटिव एटीट्यूड व डाटा इंटरप्रेटेशन जबकि पार्ट टू में जैनरल नॉलेज व अनालिटिकल निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।



व्या है परीक्षा में शामिल होने की योग्यता

कोई भी स्नातक जैट में शामिल हो सकता है। अगर कोई उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या डिग्री यूनिवर्सिटी में स्नातक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है, और उनका रिजल्ट 10 जून 2024 तक जारी हो जायेगा तो वह भी इसमें शामिल हो सकेगा।

किया जा सकेगा। इसके

एक्सएलआरआइ की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर

अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर

सकते हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर की योग्यता परीक्षा है, जो यह MBA/PGDM प्रवेश के लिए सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी

परीक्षा में से एक है। जैट के स्कोर

के जरिये एक्सएलआरआइ जमशेदपुर व दिल्ली कैम्पस के अलावा चेन्नई के लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस

मैनेजमेंट, सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आइएमटी गाजियाबाद, जीआइएम गोवा, श्री बालाजी यूनिवर्सिटी, टीएमपीआई मणिपाल, एक्सआइएमबी भुवनेश्वर, दिल्ली के फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट समेत अन्य करीब 160 बिजनेस स्कूलों में एडमिशन हो सकता है।

व्या होगा रजिस्ट्रेशन फीस

जैट के रजिस्ट्रेशन फीस में पिछले साल की तुलना में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है। पिछले साल जहां रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये थी वहीं, इस बार यह बढ़ा कर 2100 कर दी गयी है। जबकि एक्सएलआरआइ के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये है।

बिरसानगर बीवाइडब्ल्यूसी मैदान में आधुनिक स्टेडियम बनवायेंगे : विधायक सरयू राय

विधायक ने दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय शनिवार को बिरसानगर, जॉन नं. 1, गुड़िया मैदान में बिरसा युध वेलफेयर क्लब द्वारा आयोजित दो दिवसीय समीर मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। श्री राय ने खेल में भाग ले रहे खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्द्धन किया।

श्री राय ने निक मार कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए क्लब के अध्यक्ष अनूप महतो ने विधायक श्री सरयू राय से आग्रह



खिलाड़ियों से परियव प्राप्त करते विधायक सरयू राय।

किया कि मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित कराने में सहयोग करें। इसके पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस मैदान में विषय स्तरीय मानकों के अनुरूप एक स्टेडियम का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा इसके लिए वे संबंधित विभाग में प्रस्ताव रखेंगे। मौके पर ही श्री राय ने जमशेदपुर

अक्षेस के कनीय अभियंता को बुलाकर मैदान की मापी करवाया ताकि यह पता किया जा सके कि यहां उपलब्ध भूखंड का क्षेत्रफल और विश्व स्तरीय स्टेडियम के लिए आवश्यक अन्य मानकों को पूरा करता है या नहीं।

राय ने कहा कि यहां एक उच्च स्तरीय स्टेडियम का निर्माण के लिए



फुटबॉल मैच का लुक उठाते विधायक सरयू राय व अन्य अतिथि।

पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी और एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। राय ने कहा कि यहां स्टेडियम बन जाने से बिरसानगर सहित समीपवर्ती क्षेत्र के युवा यहाँ खेल का अभ्यास कर सकेंगे और अपनी

खेल प्रतिभा को निखारेंगे। यही युवा भविष्य में शहर, राज्य और देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान देंगे। उद्घाटन समारोह का संचालन क्लब के हिरिक होरो ने किया जबकि अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत क्लब के अध्यक्ष अनूप महतो, सचिव नीरज तोपनॉ और श्री शुरु ने किया।

झारखंड में बोर्ड एवं निगमों में कांग्रेसियों को पद दिलाने की मांग

नयी दिल्ली में खड़गे से मिले पूर्व जिला अध्यक्ष रामाश्रय समेत अन्य कांग्रेसी

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामाश्रय प्रसाद के नेतृत्व में नरेश कुमार सिंह अल्पसंख्यक समुदाय के वरिष्ठ नेता फिनरोज खान माइनारिटी के प्रदेश सचिव रईस रिजवी सिमरिया से शुभेंद्र शंकर चतरा से मो नमरुद्दीन एवं झारखंड के अन्य जिलों से आए हुए प्रतिनिधि लोग अध्यक्ष मलिकार्जुन खन्ने महासचिव केसी वेणुगोपाल झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे महासचिव तारिक अनवर राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जमशेदपुर



के पूर्व सांसद अजय कुमार एवं उदित राज से मिले। इन नेताओं से मिलकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के संगठन एवं बोर्ड एवं निगम के गठन के बारे में चर्चा की गई जो सुझाव प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिया गया सभी माननीय पदाधिकारियों ने इस पर सकारात्मक विचार रखते हुए सभी समय पर कदम उठाने का आश्वासन दिया।

बाल गोविंद उर्वि के विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

खबर मन्त्र संवाददाता

नामकुम। शुक्रवार को बाल गोविंद उच्च विद्यालय तेतरी टोली नामकुम में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मैट्रिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल शोलड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रांची लोकसभा पूर्व सांसद रामटहल चैधरी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पीएनबी नामकुम के शाखा प्रबंधक जयंत कुजूर,स्टडी कम्युनिटी बार काउंसिल रांची के परशुराम प्रसाद, हाईकोर्ट की

खबर मन्त्र संवाददाता

अधिवक्ता रेनु तिकी एवं भाजपा नेता पिंटू सिंह उपस्थित थे।कार्यक्रम की शुरूआत छात्राओं ने स्वागत गान पर नृत्य कर किया। वहीं छात्राओं को सम्मानित करते हुये मुख्य अतिथि रामटहल चैधरी ने कहा कि विद्यार्थी अनुशासन में रहकर पढ़ाई करें। अनुशासन से पढ़ाई करके ही मॉजिल हासिल की जा सकती है। इसके लिये समय समय पर अपने आप को साबित करने का भी प्रयास करें। कहा कि जो शिक्षक आपकी शिक्षा देते है उनके द्वारा दी गयी शिक्षा को ग्रहण करने का कार्य करें। प्रभुनाथ प्रसाद ने कहा कि बच्चे का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है।

आरएसबी ग्लोबल के कर्मचारियों ने किया रक्तदान

चेन्नैनगर आरके बेहरा और एमडी एसके बेहरा ने रक्तदाताओं का बढ़ाया हॉलवा

खबर मन्त्र टीम

जमशेदपुर/गम्हरिया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख ऑटो कंपोनेंट्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी आरएसबी ट्रांसमिशन लिमिटेड के प्लांट एक में शनिवार को वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सरायकेला के अनुमंडल पदाधिकारी राम कृष्ण कुमार, कंपनी के चेयरमैन रामकृष्ण कुमार ने अपने संबोधन में आरएसबी कंपनी द्वारा रक्तदान जैसे मानवीय कार्य किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक



महान कार्य है जिससे सभी लोगों को बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस शिविर के माध्यम से कुल 330 यूनिट रक्त संग्रह किया गया जिसे जमशेदपुर ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा गया है। कंपनी की एचआर प्रमुख जया सिंह समेत का योगदान रहा।

37 पशुओं के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के जयपुर जिले में 37 पशुओं को जब करते हुए 8 पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जब पशु में चार मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने पशु तस्करों के एक स्वीप कार, मारुती सुजुकी व दो मोबाईल भी जब किया है। शनिवार को रायडीह थाना परिसर में इंस्पेक्ट बैजू उरांव, थाना प्रभारी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के साईं टांगरटोली लेनापुर ट्रक संख्या सीजे 14 एमएच 5738 में पशुओं को लोड कर बुचड़खाना में वध करने हेतु लोहरदगा जिला

गिरफ्तार पशु तस्करों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल पुलिस पदाधिकारी।

खबर मन्त्र संवाददाता

रायडीह। रायडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को 37 पशुओं को जब करते हुए 8 पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जब पशु में चार मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने पशु तस्करों के एक स्वीप कार, मारुती सुजुकी व दो मोबाईल भी जब किया है। शनिवार को रायडीह थाना परिसर में इंस्पेक्ट बैजू उरांव, थाना प्रभारी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के साईं टांगरटोली लेनापुर ट्रक संख्या सीजे 14 एमएच 5738 में पशुओं को लोड कर बुचड़खाना में वध करने हेतु लोहरदगा जिला

टीम गठित कर हुई कार्रवाई

एक टीम गठित कर रायडीह थाना क्षेत्र के सिलम ढलान के पास ट्रक का इंटरजार कर रही थी। अपराह्न करीब ढाई बजे ट्रक को दिखा तो गश्ती दल के सहयोग से ट्रक रोका गया। ट्रक रुकते ही पुलिस को देख वालक सेन्हा का मो साजिद अंसारी (34), तसलीम खान, मंसूर खान, बरगींडड का सहबाज खान, साईं टांगर टोली का मुशीद आलम, सुधीर वासनी का मो मुशीद आलम तथा स्कॉट कर रहे वाहन के साथ मवेशी व्यापारी तसीवर अंसारी व सेन्हा के इमरान अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

तस्कर ले जा रहे हैं। पशु लंदे ट्रक की रेकी व स्कॉट मवेशी कारोबारी सह तस्कर तसीवर अंसारी व इमरान

अंसारी दोनों लोहरदगा जिला के सेन्हा निवासी कार व मारुति सुजुकी से कर रहे हैं।

ग्रामीणों ने बकोरिया में किया पांच घंटे सड़क जाम

एसडीओ के आश्वासन पर हटा जाम



था तथा बकोरिया के भलुआही टोला के टेपो चालक अशोक राम की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। बकोरिया में जाम कर रहे लोगों को समझाने के लिए सदर एसडीएम राजेश कुमार शाह, एसडीपीओ ऋषभ गं गं साह थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीडीओ

राज किशोर प्रसाद ने मृतक के परिजनों को 20000 नगद सौंपा तथा परिवारिक लाभ योजना का लाभ देने, आवास, पेंशन तथा एक्सिडेंटल बीमा देने का आश्वासन के बाद जाम हटया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी मनोज कुमार सिंह, अवधेश सिंह चरेरो, भाजपा मंडल

अध्यक्ष विजय पाठक, बकोरिया

पंचायत के मुखिया संतोष उरांव, कमलेश प्रसाद, भोला प्रसाद, मो शमशाद अंसारी, मो अकबर अंसारी, टिंकू आलम समेत कई लोग जाम कर रहे लोगों को समझाते देखे गए। सतबरवा थाना पुलिस ने नीरज कुमार तथा ऑटो चालक अशोक राम का शव को डाल्टेनगंज के राजा मेदनी राय मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम कराने के बाद शनिवार को दाह संस्कार के लिए सौंप दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 लोग तुंबागड़ा के नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। जिसमें एक किशोर की मौत हो गई थी।

चतरा लोकसभा क्षेत्र को नहीं बनने देंगे चारागाह : भोक्ता दो लाख से अधिक मतों से जीतेंगे चुनाव

खबर मन्त्र संवाददाता

नीलांबर पितांबरपुर पलामू। श्रम

रोजगार प्रशिक्षण कोशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को यहां दौरा क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाहरी प्रत्याशियों ने चतरा को चारागाह बना दिया है। यहां के विकास राशि को लूटने का काम किया है। यही कारण है कि चतरा संसदीय क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। नौ साल का इनका नारा बेमानी है। इन नौ वर्षों में सांसद

चतरा लोकसभा क्षेत्र को नहीं बनने देंगे चारागाह : भोक्ता दो लाख से अधिक मतों से जीतेंगे चुनाव

खबर मन्त्र संवाददाता



आदर्श ग्राम में कहीं भी पुलिस, कुआं, स्कूल सड़क नहीं बना है। भोक्ता ने कहा की आजादी के 75 वर्षों में पीढ़ी दर पीढ़ी यहां की जनता बाहरी प्रत्याशियों को वोट करते आ रही है।

महत्वपूर्ण तिथियां

>> परीक्षा तिथि - 7 जनवरी 2024
>> रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई 2023 से शुरू होगा
>> रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर 2023 को समाप्त होगा
>> जैट एडमिट कार्ड डाउनलोड : 20 दिसंबर 2023 के बाद

इन कोर्स में होगा दाखिला

1. बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम (बीएम)
2. ब्रूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम (एचआरएम)
3. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (18 माह)
4. फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (एफपीएम)
5. एक्सएलआरआइ-आरबीएस डबल मास्टर्स प्रोग्राम

कैसे करें आवेदन

1. खुद को पंजीकृत करें
2. ईमेल आईडी सत्यापित करें
3. जैट आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें
4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें
6. अपना आवेदन पत्र जमा करें

व्या पूछे जायेंगे

1. वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रिजनिंग
2. डिसेशन मैकिंग
3. क्वांटिटिव एटीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रेटेशन
4. जेनरल नॉलेज
5. निबंध लेखन

खबर एक नजर में

मानगो : सुंदर गार्डन सोसायटी में रुद्राभिषेक एवं महाभोग का आयोजन

जमशेदपुर। सावन माह के पावन अवसर पर सुंदर गार्डन सोसायटी मानगो स्थित शिवालय में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। रुद्राभिषेक सोसायटी के निवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। संघ्य आरती के पश्चात भोग-प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उमा शंकर सिन्हा, अवधेश शर्मा, नवीन कुमार पाण्डेय, हरेन्द्र सिंह,सावलीया पाठक,एस सी झा, वी एन मिश्रा, विवेक पराशर सिन्हा, रीतू आर्या, रेणुका ठाकुर, सविता बर्मा, चन्द्रकला देवी,ललीता मिश्रा, चन्द्रवती देवी आदि ने सहयोग दिया।



बीके विकास रंजन ने ध्यान और व्यायाम से छात्रों को सिखाया क्रोध प्रबंधन

जमशेदपुर। शुक्रवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा मिसंज केपीएम योकेशनल कॉलेज, बिस्टपुर, जमशेदपुर में क्रोध प्रबंधन पर एक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में ब्रह्माकुमारीज के प्रख्यात वक्ता बी के विकास रंजन ने लोगों को राजयोग मेडिटेशन द्वारा स्वयं की भावनाओं को नियंत्रित रखने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्रोध प्रबंधन का उद्देश्य युवा व्यक्तियों को प्रोत्साहित करके असहमति को हल करने के लिए एक सकारात्मक विकल्प प्रदान करना है। अनुशासन के माध्यम से भावनाओं और निराशाओं को प्रसारित करके, छात्र आत्म-नियंत्रण, सम्मान और व्यक्तिगत विकास में मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा कभी भी जवाब नहीं होनी चाहिए, उन्होंने छात्रों को गुस्सा कम करने के लिए कुछ ध्यान और व्यायाम कराए। बी के अंजना बहन भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। प्राचार्य डॉ. मीता जखनवाल ने विद्यार्थियों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने छात्रों को गुस्सा कम करने के लिए प्रेरित किया। स्वागत भाषण सीएमए शशि किरण तिवारी एचओडी बीबीए विभाग ने दिया। इस कार्यक्रम में समस्त विद्यार्थी एवं स्टाफ उपस्थित रहे।




टाटा स्टील यूआइएसएल के सहयोग से बागबेड़ा कालोनी नाले की सफाई शुरू



जमशेदपुर। पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार,जुको के हेड कैप्टन धनंजय मिश्रा, अर्बन सर्विस के सीनियर मैनेजर केशव रंजन एवं मैनेजर गुरुवारी हेंडम के संयुक्त सहयोग से हरहरगुडू एवं बागबेड़ा कॉलोनी के बीच स्थित कृष्णापुरी नाला, एवं हरहरगुडू स्थित देवी बागान के समीप तीनों पंचायत

को जोड़ने वाला नाला की साफ-सफाई एक जैसीबी और हाईवा से करवाया गया। इसके अलावे मजदूरों से रोड नंबर 4 के क्वार्टर के पीछे गली की भी साफ सफाई कराई गई है। विगत कई वर्षों से इस नाला कि दूक बार भी साफ सफाई नहीं की गयी थी। जिसके कारण बरसात के मौसम में नाला का पानी मुख्य सड़क पर बहता था। जिसके कारण आवागमन में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने इन्फ्री शिकायत पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर, मुखिया उमा गुड्डा, बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के अध्यक्ष अनिल सिंह से की थी। पंचायत प्रतिनिधियों ने विधायक संजीव सरदार से आवेदन में अनुशंसा कर जुल्को के हेड कैप्टन धनंजय मिश्रा से मिलकर उनके कार्यालय में आवेदन दी। कैप्टन धनंजय मिश्रा ने अर्बन सर्विस के सीनियर मैनेजर केशव कुमार रंजन को यह पत्र भेज कर साफ सफाई करने की बात कही। सतुष्कट सीनियर मैनेजर केशव कुमार रंजन एवं मैनेजर गुरुवारी हेंडम से मिलने के पश्चात आज नाला की साफ-सफाई एवं बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के क्वार्टर के पीछे गली में साफ सफाई का कार्य प्रारंभ हुई। इस दौरान पूरे मंत्र उच्चारण के साथ नारियल फोड़कर और अंगरखती दिखाकर कार्य का शुभारंभ किया गया। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि बरसात के पूर्व बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के क्वार्टर के पीछे गली की नाली का साफ सफाई लगातार जारी रहेगी। इस साफ सफाई अभियान में मुख्य रूप से वाई सदस्य प्रतिनिधि राकेश सिंह, राजकुमार सिंह, अरविंद पांडे, समाजसेवी पवन ओझा धनंजय सिंह संदीप सिंह, महेश ठाकुर, रामभाबू, के डी मुञ्ज, आनंद शर्मा सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे।

अकाट्य अन्न है प्रेम, सीताराम से करें प्रेम : नीरज मिश्रा



इंडिया की विंडीज पर धमाकेदार जीत, अश्विन ने बरपाया कहर

एजेंसी

डोमिनिका। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत हासिल की। उसने पारी और 141 रन से मैच को अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की अच्छी शुरुआत की। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट इतिहास में 23वाँ जीत हासिल की है। इससे ज्यादा टेस्ट वह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया (32) और इंग्लैंड (31) के खिलाफ ही जीत सका है। उसने न्यूजीलैंड और श्रीलंका को 22-22 मैचों में हराया है। वेस्टइंडीज ने मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में पांच विकेट पर 429 रन बनाए। टीम इंडिया को 271 रनों की बढ़त हासिल हुई। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 130 रनों पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा की टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई से त्रिनिदाद में होगा। भारत ने एशिया के बाहर पारी के अंतर से सबसे बड़ी जीत हासिल की है।

यशस्वी बने प्लेयर ऑफ द मैच

भारत के लिए मैच में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया। टीम इंडिया को एक पारी में ही बल्लेबाजी का मौका मिला। गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए रविचंद्रन अश्विन ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में पांच विकेट लिए थे और दूसरी पारी में उन्होंने सात विकेट अपने नाम किए थे। यशस्वी को पहली पारी में 171 रन बनाने के लिए प्लेयरऑफ द मैच अवार्ड दिया गया।

भारतीय महिला हॉकी टीम चीन के खिलाफ मुकाबले से जर्मनी दौरे की शुरुआत

नयी दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी दौरे के पहले मैच में रविवार को चीन से भिड़ेगी। भारतीय टीम इस दौरे पर 16 जुलाई से 19 जुलाई तक तीन मैच खेलेगी। शीर्ष गोलकीपर सविता और उप-कप्तान दीप ग्रेस एवका के नेतृत्व वाली टीम 16 जुलाई को लिम्बर्ग में विश्व नंबर 11 चीन के खिलाफ एक मैच खेलेगी, इसके बाद मेजबान जर्मनी के खिलाफ क्रमशः वेसबाडेन और रसेलहेम में 18 जुलाई और 19 जुलाई को दो बैक-टू-बैक मैच खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का लक्ष्य इस दौरे का उपयोग हांगजो एशियाई खेल 2023 की तैयारी के लिए करना है।

नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव समेत छह के खिलाफ हत्या का शिकायती मुकदमा दर्ज

पटना। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या एवं हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों में एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया। प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन झा की अदालत में यह शिकायती मुकदमा संख्या 6398/2023 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कथित सक्रिय सदस्य गांधी उफैन थाना क्षेत्र स्थित साल्टिमपुर अहरा गली के निवासी कृष्ण कुमार सिंह 5 फुट क्लन्वू ने भारतीय डंड विधान की धारा 323, 341, 307, 302, 120 बी, 504, 506, 354, 34 के आरोपों के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अरुण कुमार, पुलिस उपअधीक्षक सचर पटना अशोक कुमार सिंह एवं अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ दायर किया है। अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे पर सुनवाई के लिए 19 जुलाई 2023 की तिथि निश्चित की गई है।

पुलिस ने लूट कांड के आरोपी को किया गिरफ्तार

किशनगंज। एक वर्ष पूर्व एमजीएम रोड के पास व्यवसायी से 55 हजार रुपये लूटने के आरोपी को सदर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नौशाद आलम दामनवाड़ी कॉलोनी पहाड़कट्टा का रहने वाला है। घटना को लेकर एक वर्ष पूर्व 7 जुलाई 2022 को पीड़ित धर्मगंज नया बस्ती निवासी विजय कुमार श्रीवास्तव ने सदर थाने में 55 हजार रुपये लूट लेने का मामला दर्ज करवाया था। जिसमें यह बताया गया था कि बंगाल के भजालिसपुर में लॉटरी का एजेंसी लिया हुआ था। एक वर्ष पूर्व लॉटरी बिंदी का 55 हजार रूपया लेकर लौट रहा था। इसी क्रम में एमजीएम रोड काटपुल एवं पेट्रोल पंप के बीच दो मोटरसाइकिल पर सवार चार व्यक्ति के द्वारा रुपये लूट लिया गया।

ट्रक के धक्के से साइकिल सवार छात्र की मौत

भागलपुर। जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के जाह्नवी चौक स्थित रिंग बांध पर शनिवार को ट्रक के द्वारा साइकिल को टक्कर मारने से साइकिल सवार छात्र की मौत हो गयी। मृतक छात्र इस्माइलपुर थाना के छोटी परबता निवासी चंद्रशेखर मंडल के पुत्र कृष्ण कुमार हैं। बताया जाता है कि पिता गंगाजल लेकर देवघर गये हुए हैं। कृष्ण कुमार गांव के ही मध्य विद्यालय में वर्ग छह में पढ़ता है। परिजन ने बताया कि कृष्ण कुमार साइकिल से पशु के लिए चारा लाने के लिए रिंगबांध के पास खेत गया था। खेत से वह पशुचारा लेकर साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान रिंग बांध पर ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी। जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हो गयी।

दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, एक गिरफ्तार

बेगूसराय। बेगूसराय में हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को भी दिनदहाड़े बेखोज अपराधियों ने एक अथेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफरिसल थाना क्षेत्र के पहाड़कचक की है। मृतक की पहचान पहाड़कचक निवासी सुरेश पंडित के रूप में की गई है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने लोगों को किसी तरह से समझा-बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया तथा मामले की छानबीन कर रही है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है सुरेश पंडित जमीन का कारोबार करता था। शनिवार को जब वह लालपुर में एक चाय दुकान पर बैठा हुआ था, तभी किसी ने फोन करके बुलाया। इसके बाद सुरेश पंडित के पहाड़कचक निवासी के समीप स्थित मुर्गा फार्म के पास पहुंचते ही सिर में ताबड़तोड़ तीन गोली मार दी और मोटरसाइकिल से फंकार हो गए। गोली की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

दूसरी पारी में नहीं चले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज

दूसरी पारी में वेस्टइंडीज का कोई बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया। उसके लिए एलिक नथनेज ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए। जेसन होल्डर ने नाबाद 20 रन बनाए। जोमेल वॉरिफन ने 18, अल्जारी जोसेफ ने 13 और जोशुआ डी सिल्वा 13 रन बनाकर आउट हुए। रेमोन रीफर ने 11 रन बनाए। फ्रेग ब्रैथवेट और तेजनारायण चंद्रपाल सात-सात रन बनाकर आउट हुए। जर्मेन ब्लैकवुड पांच और रहकीम कार्नवाल चार रन ही बना सके। केमार रोच अपना खाता नहीं खोल सके। भारत के लिए अश्विन के अलावा रवींद्र जडेजा ने दो विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को एक सफलता मिली।

यशस्वी-रोहित व कोहली ने की अच्छी बल्लेबाजी

इससे पहले पहली पारी में भारत के लिए जायसवाल, रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने शानदार पारियां खेलीं। यशस्वी ने 171 रन बनाए। यह उनका यह डेब्यू टेस्ट था। वहीं, कप्तान रोहित ने 104 रन की पारी खेली। विराट कोहली शतक नहीं लगा पाए और 76 रन बनाकर आउट हो गए। रवींद्र जडेजा 37 और ईशान किशन एक रन बनाकर नाबाद रहे। शुभमन गिल ने छह और अर्जिंक्य रहाणे ने तीन रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए केमार रोच, अल्जारी जोसेफ, रहकीम कार्नवाल, जोमेल वॉरिफन और एलिक एथनेज ने एक-एक विकेट लिए।



अश्विन ने हासिल की कई उपलब्धियां

अश्विन ने मैच में कुल 12 विकेट लिए। इन्होंने भारत के लिए आठवीं बार एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। इस मामले में अश्विन ने अनिल कुंबले (आठ) की बराबरी कर ली। हरभजन सिंह ने पांच बार मैच में 10 या उससे अधिक विकेट लिए थे। इसके अलावा अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ छठी बार पारी में पांच या उससे अधिक विकेट लिए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट में वह ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज मैल्कम मॉर्शल को पीछे छोड़ दिया। हरभजन सिंह ने पांच बार भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट में एक पारी में पांच या उससे अधिक विकेट लिए थे।

जायसवाल को इनाम में मिले सिर्फ 41 हजार, फैन ने लिखा- साइकिल ले लो



जायसवाल ने 171 रनों की पारी खेली, जिस कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि, उन्होंने इनाम में 500 डॉलर यानी कि 41 हजार रूपए मिले। उनके इस नकद पुरस्कार पर ट्विटर पर कई तरह की राय सामने आईं। कुछ प्रशंसकों ने इतनी कम राशि पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की, तो कईयों ने यह कहा कि इनाम फितना भी हो वो आपके लिए अहमियत रखता है। एक यूजर ने इनाम लेते हुए जायसवाल की फोटो शेयर कर हेरानी जताई, साथ ही लिखा- बस 500 डॉलर। जवाब में एक यूजर ने लिखा- हां साइकिल खरीदने के लिए। बता दें कि साइकिल प्यूर अगरबती स्यॉन्सर रहा। ऐसे में कईयों ने तंज कसते हुए कहा- अगरबती वाले इतना ही कमाते हैं भाई साहब। वहीं एक यूजर ने लिखा- चेक के लिए 2030 भी लिखा है.... शायद एफडी है जो 2030 में ब्रेक करोगे तो 500 यूएसडी मिलेंगे।

माकेर्टा वॉड्रोसोवा ने पहली बार विंबलडन जीता, फाइनल में ऑस जेब्यूर को हराया

एजेंसी

लंदन। विंबलडन ओपन में महिला एकल के फाइनल में चेक गणराज्य की 24 वर्षीय माकेर्टा वॉड्रोसोवा ने ट्यूनीशिया की ऑस जेब्यूर को हरा दिया। इस जीत के साथ ही उन्होंने पहली बार विंबलडन ओपन अपने नाम किया। किसी भी ग्रैंड स्लैम में यह उनकी पहली खिताबी जीत है। वॉड्रोसोवा ने जेब्यूर को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। वॉड्रोसोवा विंबलडन जीतने वाली चेक गणराज्य की तीसरी खिलाड़ी बनीं। उनसे पहले 1998 में जाना नोवोला जीती थीं। उनके बाद पेत्रा क्वितोवा ने 2011

और 2014 में खिताब पर कब्जा किया था। वॉड्रोसोवा ने पहले सेट को 6-4 से जीतकर मैच में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले सेट में ऑस जेब्यूर एक समय 3-2 से आगे चल रही थीं, लेकिन वॉड्रोसोवा ने वापसी की और सेट में 5-4 की बढ़त हासिल कर ली है। इसके बाद उन्होंने जेब्यूर को कोई मौका नहीं दिया और सेट को 6-4 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में भी जेब्यूर ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी एक बार फिर देखे को मिली। इसका फायदा वॉड्रोसोवा ने उठाया और सेट को 6-4 से जीत लिया।

खिताब के लिये अल्काराज भिड़ेंगे जोकोविच

लंदन। विश्व के नंबर एक कार्लोस अल्काराज रविवार को विंबलडन के अपने पहले खिताब के लिये मौजूदा चैंपियन और विश्व के नंबर दो खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से रविवार को भिड़ेंगे। जोकोविच ने इटली के यानिक सिनर को रोमांचक मुकाबले में हरा कर नौवीं बार विंबलडन के पुरुष एकल के फाइनल में प्रवेश किया

वॉड्रोसोवा फाइनल खेलने वाली पहली महिला गैर-वरीय खिलाड़ी

वॉड्रोसोवा विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस मौके को यादगार बनया और शानदार जीत हासिल की। वॉड्रोसोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलीना

स्वितोलिना को हराया था। दूसरी ओर, ऑस जेब्यूर लगातार दूसरी बार खिताबी मुकाबले में उतरीं, लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा हाथ लगी। वॉड्रोसोवा की बात करें तो वह दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में खेलीं। इससे पहले 2019 में उन्हें फ्रेंच ओपन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।



बिहार की सरकार ने रैली को कुचलने का काम किया : रघुवर दास

एजेंसी

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चार सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम ने गुरुवार को भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच करने पहुंची। टीम ने इसे राज्य प्रायोजित हिंसा करार दिया है। टीम के संयोजक रघुवर दास ने कहा कि बिहार की सरकार ने रैली को कुचलने का काम किया है। पटना में पत्रकार वार्ता में रघुवर दास ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने लाठीचार्ज को गंभीरता से लिया है। हमने मौके पर जाकर लोगों से बात की है। हमारे एक हजारा कार्यकर्ताओं को चोट लगी। इनमें से 300 को गंभीर चोटें आई हैं। जांच टीम को जितनी जानकारी मिली, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्रूरता पूर्वक लाठी चार्ज करवाया। हम मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। रघुवर दास ने कहा कि नेता जनहित के मुद्दे पर शांति मार्च

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बोला हमला

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस घटना को देखकर ऐसा लगता है कि जेपी आंदोलन के समय जो इमरजेंसी लगी थी वैसे ही नजारा है। अगर हम ठीक से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार की पूर्व नियोजित तैयारी थी। भाजपा नेताओं को मरना है। हत्या होनी है। मनोज तिवारी ने



कहा कि राजनीतिक आंदोलन को डील करने का अपना तरीका है। पुलिस मैनुअल अलग है। मैनुअल के मुताबिक लाठी चार्ज कमर से नीचे करना होता है लेकिन यहां सिर पर मारा गया। बैरिकेडिंग तोड़ने पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यहां पहले लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद पानी छोड़ा गया। यह सब पूर्व नियोजित था। मनोज तिवारी ने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। भाजपा सांसद के मुताबिक भाजपा नेताओं को अस्पताल तक पीटा गया। यहां को पुलिस जांच से

पहले ही फाइनल रिपोर्ट देती है। ह्यूमन राइट कमीशन में मामला ले जाएंगे। सब पहले से प्रायोजित था, फिर उस सरकार के पास क्या जाना? हम जनता के पास जाएंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जांच टीम में शामिल भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम पटना के एसएसपी भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन रोकने के लिए कम से कम बल का प्रयोग करना होता है। जब हमने अपने कार्यकर्ता से बात की तो कहें से नहीं लगता है कि कम से कम बल का प्रयोग किया गया। यहां तो एक व्यक्ति के पीछे 20-20 पुलिस

लगाई गई थी। टीम में शामिल सुनीता दुग्गल ने कहा कि शांति पूर्वक मार्च था। नीतीश सरकार ने महिलाओं पर लाठियां बरसाई हैं। बहुत-सी महिलाएं घायल हैं। कई महिलाओं की छाती की फसलियां टूट गई हैं। पुरुष पुलिस कर्मी ने बंदूक के कुंदे से मारा है। मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है। जालियांवाला बाग में जिस तरीके से जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थीं, वैसे ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है।

भाजपा ने दिया धरना

भारतीय जनता पार्टी आज बिहार सरकार के खिलाफ धरना दिया। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया गया। पार्टी अपने नेता विजय सिंह की मौत के लिए पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री समेत कई बड़े नेता

धरने में शामिल हुए। भाजपा ने लाठीचार्ज को बर्बरता बताया है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम लोगों ने भी पुलिस की लाठी खाई है, जेपी मूवमेंट में जेल भी गया हूं। महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भला ऐसा हमला किया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय पटना में लाठीचार्ज के दौरान भाजपा नेता विजय कुमार सिंह की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सियासी बयानबाजी के बीच शुक्रवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह और एसपी संजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएम का कहना है कि भाजपा नेता की मौत लाठीचार्ज में नहीं हुई है। जिला प्रशासन के मुताबिक विजय सिंह की टाइट और लोकेशन चेक की गई है, जो लाठीचार्ज की लोकेशन में नहीं है। एक जगह की फुटेज में वह पूरी तरह आराम से बात करते दिखे हैं। महामंत्री के साथ 3 लोगों और साथ में थे।

खाते में हजार करोड़ शेष रहते शिक्षकों का वेतन रोकना गलत : सुशील कुमार

पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब सरकार पहले से नियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है, तब नये शिक्षकों के वेतन मद में सालाना 11000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ कैसे उठायेगी? पैसे कहाँ से बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। उल्लेखनीय है कि चिराग पासवान से दिल्ली स्थित उनके आवास पर शुक्रवार रात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच देर रात खाने के टेबल पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नित्यानंद राय से चिराग की एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात है। इससे चिराग की भाजपा में शामिल होने की संभावना की ओर बल मिल गया है। बताया जा रहा है कि चिराग की शर्तों पर भाजपा ने सहमति जताई है।



राशि मिल जाएगी। राज्य सरकार के खाते में अब भी 1000 करोड़ रुपये बिना खर्च हुए पड़े हैं। इससे शिक्षकों को वेतन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर तथ्यहीन आरोप लगाना नीतीश सरकार की आदत बन गयी है। यह सरकार शिक्षकों की पीठ पर लाठी चलाती है और वेतन रोक कर पेट पर लात मारती है।





एनईटी नेट परीक्षा में सफल छात्र को दी बधाई

बोकारो। गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल सोसायटीज टैक्निकल कैंपस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एप्लिकेशन एवं फैशन कॉलेज, बोकारो के एमबी, विभाग के मेधावी छात्र आसिफ जैदी ने राष्ट्रीय स्तर की एनईटी नेट परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपने परिवार व कॉलेज को गौरवान्वित किया है। कॉलेज निदेशक डॉ प्रियदर्शी जरूहार, एमबीए विभागाध्यक्ष प्रोफ विकास जैन, अन्य प्राध्यापकों, संस्थान अध्यक्ष तरसेम सिंह तथा सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने आसिफ जैदी की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

एसजीडी मॉडर्न स्कूल में करियर पर सेमिनार चिरकुंडा। एसजीडी मॉडर्न स्कूल चिरकुंडा में शनिवार को करियर पर सेमिनार व इन्वीशियन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्कूल के भूतपूर्व छात्र आईआरएस डिप्टी कमिश्नर निखिल सिंह, डॉ देवाशीष गुप्ता व एटप्रेनर राहुल खरकिया को साल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को करियर व उनकी स्ट्रीम के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान 'स्मार्ट फोन हमें अनसूटा बनाता है' विषय पर डिवेट भी आयोजित की गई। जिसमें छात्रों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए। मौके पर स्कूल के प्राचार्य जुबिन बोस व उप प्राचार्य जॉली दाता ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मार्गदर्शन किया।

नाबालिग पुत्री को भगाने का आरोप कुमारघुडी। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत एगयारकुंड प्रखंड के निवासी लाला यादव के घर पर निरसा थाना कांड संख्या 201/22 धारा 366 (ए) भा, द, वी एवम पोकोको एक्ट के अधिनियम 11 लाला यादव स्थायी रूप ग्राम खंढरा, थाना सिमरी थाना अंतर्गत बक्सर जिला के बिहार के निवासी हैं। इस संबंध में निरसा पुलिस ने बीते 11 जून को स्थानीय ग्रामीणों एवम परिजनों के समक्ष एक इस्तेहार चिकाया, माननीय न्यायालय धनबाद में सरेंडर करने की आग्रह किया। इस इस्तेहार के बाद भी अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, तो अभियुक्त के घर की कुकी की जाएगी। बता दें कि कांड संख्या के वादी प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज लाला यादव के ऊपर अपनी नाबालिग पुत्री को भगाने का आरोप लगाया है।

बीएलओ-बीपीओ को दिया गया प्रशिक्षण कुमारघुडी। एगयारकुंड प्रखंड सभागार में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के संदर्भ में बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने कहा कि एस एस आर 2024 के तहत मतदाता सूची का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना है। उन्होंने कहा कि 1/1/2024 को अहता तिथि मानते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संदर्भ में पूर्व पुनरीक्षण गतिविधियां के तहत मतदाता सूची का सतप्रतिशत 21 जुलाई 2023 से 21 अगस्त 2023 तक किया जाना है।

एनटीसीए के हर्षित, आरुषी और स्वामी विवेकानंद के कार्तिक और अनन्या बने चैंपियन गढ़वा। आरकेबीएस संस्थान में खेले जा रहे 13वीं गढ़वा जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेले गए अंडर-13 मैच के बालक वर्ग में एनटीसीए के हर्षित कुमार पांडेय ने सचिन को, बालिका वर्ग के अंडर-11 में एनटीसीए की आरुषी कुमारी ने शांति निवास की आशा रानी को हराकर चैंपियन बनी। वहीं अन्य आयु वर्ग में बालिका वर्ग में शांति निवास, गोविन्द उच्च विद्यालय एवं बालक वर्ग में एनटीसीए और गोविन्द उच्च विद्यालय फाइनल में पहुंचे।

बिंदी मामला: मौत की जांच करने के लिए एनसीपीसीआर अध्यक्ष पहुंचे तेतुलमारी

जांच में पुलिस की लापरवाही उजागर

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद/कतरास। धनबाद जिला अंतर्गत तेतुलमारी थाना क्षेत्र में धनबाद सेंट जेवियर स्कूल की दसवीं की छात्रा द्वारा बिंदी लगाकर विद्यालय आने पर विद्यालय की शिक्षिका के द्वारा एसेंबली में दो थपपड़ मारने के बाद छात्रा द्वारा फांसी के फंदे पर झूल कर आत्महत्या करने के बाद मामले की जांच को लेकर शनिवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो धनबाद के तेतुलमारी स्थित छात्रा के आवास



पर पहुंचे। जहां पहुंचकर उन्होंने छात्रा के माता एवं भाई-बहन तथा साथ में पहुंचने वाली सहेली से बात की। जिसके बाद वह थाना पहुंचकर पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों से मिले, उनसे बात की मामले की जांच कर रहे आइओ से मिलकर मामले की जानकारी ली। धनबाद उपायुक्त के द्वारा जो

जांच टीम बनाई गई है जिसमें वाद्यमारा वीडियो शामिल है उनसे भी बात की गई। वहीं मामले की जांच करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि कतरास में एक दसवीं क्लास की बच्ची की मृत्यु के दुखद संदर्भ

स्कूल को परीक्षा दिलाने की नहीं है मान्यता

जांच के क्रम में एक और गंभीर तथ्य उभरकर सामने आया है एक गोविंदपुर का क्रिश्चियन स्कूल है जिसके साथ इस स्कूल का टाइफ है, मान्यता के अभाव में बच्चों को वहां से परीक्षा में बैठाया जाता है यह तो एक बहुत ही गंभीर क्रिस्म का अपराध है 420 है। इस मामले में धारा 420 की एक फ़्रीस एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर को दिया है।

में शिकायतकर्ता शांकां राज के द्वारा जानकारी मिली थी,जिसके बाद हमारी टीम जांच करने पहुंची है। साथ में झारखंड राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष काजल यादव एवं आयोग के सदस्य सुनील कुमार मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कई खामियां पाई गई हैं। पुलिस ने आरोपियों का पुलिस अभिरक्षा का आवेदन

न्यायालय में नहीं लगाया। घटना के अगले दिन सवेरे 10:00 बजे हमको बताया गया कि पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया, लेकिन उन दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में रखने की डिमांड पुलिस ने न्यायालय से नहीं की। यह घटना जैसा कि मीडिया के साथी जानते हैं बच्चों को बिंदी लगाने से रोकने पर स्कूल में शिक्षिका के द्वारा पीटा गया।

डीपीएस चास के विद्यार्थियों ने जाना चुनाव की प्रक्रिया

बोकारो/चास। डीपीएस चास में कक्षा-4 के बच्चों के लिए मतदान का आयोजन किया गया। इसमें उम्मीदवार, मतदाता, पीठासीन पदाधिकारी, चुनाव पदाधिकारी के रूप में विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई। स्कूल की कार्यवाहक प्राचार्य दीपाली भुसकुटे ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को खेल-खेल में चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। मतपत्र के माध्यम से चुनाव हुआ। कक्षा-4 के प्रतिनिधि पद के लिए चुनाव कराया गया।

इस पद के लिए कुल चार उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कराया था। इसमें आहान को मोरए स्मृति को कमल, मो सुफियान को बाघ और कुमार कृतज्ञ को आम चुनाव चिह्न के रूप में आवंटित किए गये। इसमें 34 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मो सुफियान को सबसे ज्यादा वोट मिले और वे विजेता घोषित किए गए। मौके पर चीफ मॅटर डॉ हेमलता एस मोहन ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया का आयोजन किया गया।

तमिलनाडु में फंसे युवक झरिया पहुंचे

भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने सुरक्षित झरिया लाने में की मदद

झरिया। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रागिनी सिंह की सहदयता का उदाहरण इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल झरिया ऊपर कुली के दो युवक अमित गुप्ता और विशाल कुमार रवानी तमिलनाडु कोयंबटूर एक ठेका कंपनी में काम करने के लिए गए। उक्त ठेकेदार ने इन्हें सभी सुविधा देने का वायदा किया था फ़ाम के दौरान अमित गुप्ता घायल हो गया। उसकी दार्हिनी

हाथ की दो अंगुली बुरी तरह जख्मी हो गई। लेकिन ठेका कंपनी द्वारा उसे किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता नहीं दी गई। दोनों जब लाचार और विवश हो गए तो वीडियो जारी कर अपनी व्यथा भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रागिनी सिंह तक पहुंचाई। माध्यम बने धर्मशाला रोड निवासी युवा समाजसेवी सौरभ शर्मा एवं झूलन सिंह भाजपा प्रदेश

कार्यसमिति प्रतिनिधि रागिनी सिंह इन युवाओं की दशा देख व्यथित हो गई और हर संभव मानवीय सहायता प्रदान किया। इतना ही नहीं इन लोगों के सुरक्षित झरिया आगमन की व्यवस्था करते हुए रकम पहुंचाया। शनिवार को दोनों युवक झरिया पहुंचे और भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रागिनी सिंह को आभार व्यक्त किया इनके प्रवास से उनका सफ़र आसान हुआ।

आवास प्रखंड समन्वयक के निधन पर शोक सभा



शोक सभा में बीडीओ व अन्य

खबर मन्त्र संवाददाता

भवनाथपुर। प्रखंड कार्यालय में कार्यरत आवास प्रखंड समन्वयक सिराज अहमद की शुकृवार की शाम तुलसीदासर घाटी में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शनिवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में शोकसभा का आयोजन किया गया। शोकसभा में सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभी कर्मियों और सभामंडल के मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उसके के बाद प्रखंड व अंचल कार्यालय में अवकाश की घोषणा कर दी गई। शोकसभा की अध्यक्षता बीडीओ जयपाल कुमार महतो ने की। मौके

पर बीडीओ ने कहा कि आवास प्रखंड समन्वयक सिराज अहमद काफी मिलनसार व्यक्ति थे। इस दुःख की घड़ी में प्रखंड सह अंचल के सभी कर्मियों परिजनों के साथ खड़े हैं। शोकसभा में सीओ रामाशंकर श्रीवास्तव, प्रमुख शोभा देवी, उपप्रमुख पिन्दु टोपो, जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा, बीडीसी चन्दन ठाकुर, सरिता देवी, रीता देवी, बीस सूत्री अध्यक्ष इंद्रदेव बैठा, मुखिया बेबी देवी, शुक्नी देवी, पंचायत सचिव अजीत सिंह, सतीश सिंह, धुनेश्वर सिंह, विष्णु प्रसाद, प्रिया कुमारी, प्रवीण पांडेय, शशि कुमार, विष्णु कान्त, जयराम, अनिल चौबे, रामप्रताप यादव, सुमित देव, गौरव आनंद, मानस कुमार, जेएमएम अध्यक्ष मनोज यादव, लल्लू राम, निरंजन पाठक, विजय राम, श्याम कुमार आदि लोग उपस्थित थे।

पर्यावरण संरक्षण प्रतियोगिता

कार्यक्रम की सफलता में स्कूली बच्चों का रहा भरपूर सहयोग



कार्यक्रम में शामिल स्कूली बच्चे

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। लायंस क्लब गढ़वा असम के तत्वावधान में लहसुनिया पहाड़ पर आयोजित पर्यावरण संरक्षण महा अभियान पौधरोपण कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली बच्चों का सहयोग काफी सराहनीय रहा। बच्चों ने भी पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान बच्चों के उत्साह देखते हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि

सभी स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को वे अपनी ओर से पांच-पांच हजार रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान करेंगे। मौके पर जीएन कान्वेंट स्कूल, बीएपीटी सेंट मैरी स्कूल, ब्राइट फ्यूचर स्कूल, बीपी डीएवी स्कूल, मदरसा गरीब नवाज झलुवा के छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम की सफलता में सराहनीय भूमिका निभाई। मौके पर मुख्य रूप से मदन प्रसाद केशरी, आशीष अग्रवाल, उमाकांत तिवारी, अमित तिवारी, एसएन पाठक, सुशील कुमार केशरी, प्रो. लखन कश्यप, अशोक

का आयोजन, बच्चों को पुरस्त करेंगे मंत्री

शांति निवास हाइ स्कूल को मिली सीबीएसई से प्लस टू तक की मान्यता

गढ़वा। जिला मुख्यालय स्थित शांति निवास हाई स्कूल को सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं की मान्यता प्रदान की गई है। विद्यालय को प्रकृत मिलने के बाद विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों एवं शिक्षकों में काफी हर्ष है। शनिवार को स्कूल की प्राचार्य सिस्टर रोशना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर या जानकारी दी। प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय अपने फैसिलिटी के आधार पर 12वीं की मान्यता प्राप्त कर लिया। अब विद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होगी। 12वीं की पढ़ाई तीनों संकाय में होने वाला पहला विद्यालय होगा। सिर्फ बालिकाओं के लिए जिले में



जानकारी देती विद्यालय की सचिव, प्राचार्य व अन्य

सीबीएसई बोर्ड का यह एक मात्र संस्थान है। यहां छात्राओं को सीबीएससी पैटर्न पर अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि प्रयास रहेगा कि बच्चों और अभिभावकों के सहयोग से जिस तरह से स्कूल

बेहतर कर रहा है वह आगे भी जारी रहेगा। इस स्कूल की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बने इसका प्रयास होगा। इस मौके पर विद्यालय की सचिव सिस्टर लिंडा, सिस्टर जेमाप्रिया, सिस्टर प्रतिमा शामिल थीं।

गढ़वा सिटी, लायंस क्लब गढ़वा ग्लोरियस आदि के पदाधिकारी व सदस्य अनु दुबे, जितेंद्र कमलपुरी, सुनील खान, उमेश अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, नीरज कमलापुरी, डॉ असजद अंसारी, दया शंकर गुप्ता,

संजय सोनी, विजय सिन्हा, राहुल जायसवाल, पूतम कांश्यकार, दीपाली अग्रवाल, सुजाता अग्रवाल, विनीता जायसवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

एक नजर में

मल्होर परिवार झोपड़ी में रहने को विवश
चतरा। सदर प्रखंड के आरा पंचायत के धमनियां के समीप निवास करने वाला मल्होर परिवार आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। इस परिवार को ना तो आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही बिजली पानी की सुविधा। यहां तक कि इनका आज तक आधार कार्ड, राशन कार्ड भी नहीं बन पाया है। इस परिवार के अधिकांश सदस्य मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में यह परिवार झोपड़ी और एक खंडहर रूपी घर में रहने को विवश है। मल्होर परिवार के एक सदस्य ने बताया है कि उसके परिवार में करीब 40 सदस्य हैं। जो प्लास्टिक से बनाए गए एक तंबू और एक छोटा सा खंडहर रूपी घर में रह रहे हैं। सबसे खराब स्थिति बरसात के दिनों में हो जाती है। बारिश होता है तो तंबू में बारिश का पानी घुस जाता है। सरकार के द्वारा पूर्व में तीन इंदिरा आवास मिला, लेकिन ठेकेदार द्वारा एक आवास बना और दो आवास ठेकेदार द्वारा नहीं बनाया गया। ऐसे में पूरी रात कोने में बैठकर गुजरना पड़ता है। वहीं उर्मिला देवी बताती है कि सरकार के द्वारा करीब 20 वर्ष पहले तीन इंदिरा आवास मिला था। जिसमें से दो आवास की राशि बिचौलिए खा गए और जो एक बनाया वह आज काफी जर्जर हो गया है। उनका कहना है कि सरकार हमलोगो को आवास के साथ साथ बिजली, पानी, राशन कार्ड और सबका आधार कार्ड बना दे।

फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहले उचित जगह दें

कोडरमा। बेहतर व स्थायी स्थल का इंतजाम कर पाने में नाकाम रहने वाली नगर प्रशासन फुटपाथों से अस्थायी दुकानदारों को हटा कर रोजगार विहीन व बेरोस कर देने पर आमदा है। जिला में ढिबरा व पत्थर की बंदी ने तो पहले से रोजगार विहीन कर रखा है, अब अस्थायी दुकानदारों को उजाड़कर पूर्णतया रोजगार मुक्त करने की दिशा में जिला व नगर प्रशासन निरन्तर कार्यरत हैं, यह घोर निन्दनीय और चिंता का विषय है। उक्त बातें कांग्रेस नेता सईद नसीम ने बयान जारी कर कहा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार और झारखंड सरकार की संकल्प है कि सभी शहरों में फुटपाथ व अन्य जगहों पर वर्षों से दुकानदारी कर जीवकोपार्जन करने वालों फुटपाथ दुकानदारों को उस समय तक न हटाया जाएगा जब तक उनके लिए कोई बेहतर इंतजाम न हो जाए।

कौशल को बढ़ा और स्वरोजगार से जुड़े युवा: विधायक

शिकारीपाड़ा। शनिवार की शिकारीपाड़ा विवाह भवन में मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत बिरसा योजना का उद्घाटन विधायक नलिन सोरेन एवं जिला परिषद अध्यक्ष जेएस बेसरा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने उद्घाटन भाषण में विधायक नलिन सोरेन ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि यह मिशुक्त कार्यक्रम प्राप्त कर अपने कौशल को बढ़ाएं और स्वरोजगार कर अपने जीवन को रोजगार से अपने आप को जोड़ सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि यहां के बेरोजगार छात्र-छात्राएं को इस सेंटर में प्रशिक्षण देखकर रोजगार से जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है।

अनाड़ियों व अनिभिज्ञ चालकों के हाथों वाहन

मरकच्चो (कोडरमा)। प्रखंड क्षेत्र में स्कूली वाहन अनाड़ियों व अनिभिज्ञ चालकों के हाथों में दौड़ रहा है। चालकों के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस है और न ही वाहन में फिटनेस प्रमाण-पत्र ही है। वहीं स्कूली वैन और ऑटो में तो बच्चे भेड़-बकरियों की तरह दौंस कर ले जा रहे हैं। साथ ही तमाम सुरक्षा को दरकिनार कर बच्चों का परिवहन किया जा रहा है। इसकी परवाह न तो जिला प्रशासन न तो जिला परिवहन विभाग को ही है। इतना ही नहीं दूसरे राज्यों से रजिस्ट्रेशन फेल वाहनों को मरकच्चो प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में दौड़ाया जा रहा है। इन वाहनों का अगर जांच किया जाय तो कोई भी वाहन के पास सतोंपजनक कागजात नहीं मिलेंगे। इसकी परवाह ना तो स्कूल प्रबंधन को है और ना ही वाहन मालिकों को है।

पेज 1 का शेष

बाबूलाल ने लिया प्रदेश अध्यक्ष...

भगवा रंग की पगड़ी पहने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी संभालने पहुंचे बाबूलाल मरांडी को बधाई देने के लिए कार्यक्रमों और नेताओं का तांता लगा रहा। मौके पर प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता मौजूद थे। बाद में दफ्तर से कॉर्निवल में आयोजित पार्टी कार्यक्रम के लिए बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश एक ही गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। रंग गुलाल खेल लोगों ने खुशी मनायी और गुलबंद देकर पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बाबूलाल मरांडी को शुभकामनाएं दीं। **दोनों चुनाव में खिलेगा कमल** : प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने मीडियाकर्मीयों से बात करते हुए कहा कि 2024 के चुनावी जंग को जीतना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। कार्यक्रमों के बल पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य है। विधानसभा चुनाव में भी कार्यकर्ताओं के सहयोग से भाजपा राज्य में सरकार बनायेगी। इस तरह से केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में भाजपा की सरकार बने इसी लक्ष्य को लेकर पार्टी काम करेगी। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए पीएम मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुर्ग मंत्री अमित शाह समेत सभी बड़े नेताओं का आभार जताया।

शिक्षक नियुक्ति घोटाले में...

तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक पुरेंद्र विक्रम शाही, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के प्रधान सहायक अजीत कुमार तथा सहायक धर्मेन्द्र कुमार पर शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हजारीबाग ने इन तीनों के खिलाफ 27 जून 2019 को आइआर दर्ज किया था। जिसकी विस्तृत जांच के लिए पीडि दर्ज करने की अनुमति मांगी, जिस पर सीएम ने स्वीकृति दे दी।

जेल से छूटे डडी गवाह...

अशोक यादव पर कई केस दर्ज : पत्थर कारोबारी अशोक यादव, अवैध खनन के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी छोटे यादव के क्रशर जब्ती में डडी का गवाह है। 30 जुलाई को साहिबगंज पुलिस ने अशोक यादव को गिरफ्तार किया था। उसे दाह यादव के जहाज पर गोलीबारी मामले में साहिबगंज थाने में दर्ज केस में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आधा दर्जन से अधिक केस भी दर्ज हैं, जो बिजली चोरी, अवैध खनन व अमर्ष एक्ट से संबंधित हैं। पंकज मिश्रा व अन्य सहयोगियों से जुड़े 20 ठिकानों से छापेमारी में जो करोड़ों रुपये बरामदव अन्य दस्तावेज मिले थे, उसकी जब्ती सूची अशोक यादव ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे।

विश्व को बेहतर बनाने में जुटे...

भारत और यूएई व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, फिनटेक, रक्षा, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। राष्ट्रपति भवन 'कसर अल वतन' में पारंपरिक स्वागत किया गया जहां राष्ट्रपति ने उनकी आगवानी की। इस दौरान बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिये हुए थे। मोदी की मौजूदगी में आइआरटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर से भारतीय शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण का एक नया अध्याय शुरू होगा। **मोदी का यूएई को आश्वासन** : पीएम मोदी ने 'कॉप-28' की यूएई की अध्यक्षता के दौरान भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। पीएम ने यूएई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 'कॉप28' के नामित अध्यक्ष डॉ सुल्तान अल जाबेर के साथ शनिवार को सार्थक बातचीत की। उन्होंने यूएई में होने वाले 'कॉप28' के नामित अध्यक्ष एवं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीओओ डॉ सुल्तान अल जाबेर के साथ भी सार्थक बैठक की। मोदी ने कॉप-28 की यूएई की अध्यक्षता के दौरान भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।





बंगाल से रास के सात प्रत्याशी निर्दिरोध जीते कोलकाता। बंगाल की सात राज्यसभा सीटों पर निर्दिरोध निर्वाचन हुआ है। छह सीटों पर तुणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार ने निर्दिरोध जीत हासिल की। 17 जुलाई को रिटर्निंग ऑफिसर आधिकारिक तौर पर विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। तुणमूल कांग्रेस की जो पांच सीटें रिक्त हुईं उनमें डोला सेन, सुखेंद्र शेखर रॉय, डेरेक ओब्रायन, शांता छेत्री और सुभिता देव शामिल हैं। सातवीं सीट पर भाजपा के उम्मीदवार नागेंद्र रॉय चुने गए हैं। उत्तर बंगाल में उन्हें अनंत महाराज के नाम से जाना जाता है।

द. कोरिया में बाढ़ से 20 मरे, हजारों बेघर सोल। दक्षिण कोरिया में हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 20 लोगों की मौत हो गयी है तथा हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहां पर तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश और भूस्खलन हुआ, जिसके कारण मध्य उत्तर प्रांत में स्थित चुंगवेओंग प्रांत में स्थित एक बांध में जलस्तर काफी बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से सड़के जलमग्न हो गई हैं और कारों बाढ़ के पानी में तैर रही हैं तथा इसके कारण रेलवे यातायात भी प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि 10 लोग लापता हैं और हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं।

उच्च न्यायालयों के तीन जजों का तबादला

नयी दिल्ली। दिल्ली, इलाहाबाद और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों के तीन न्यायाधीशों का शनिवार को तबादला कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने उनकी पसंद के पदस्थापन संबंधी उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ट्विटर पर घोषणा की कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का तबादला केरल उच्च न्यायालय किया गया है।

गैस सिलेंडर में विस्फोट दो बच्चे समेत तीन मारे

जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई क्षेत्र में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में चार अन्य लोग घायल हो गये। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के कांशी राम कॉलोनी निवासी अशोक के घर शुक्रवार की देर रात्रि सीएनजी सिलेंडर के माध्यम से कबाड़ के सामान से गैस कटर द्वारा पीतल निकालने का प्रयास कर रहे थे।

सपा विधायक चौहान ने विस से दिया त्यागपत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी सीट से सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने शनिवार को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यालय ने त्यागपत्र प्राप्त होने की पुष्टि की है। चौहान भाजपा की पिछली सरकार (2017-2022) में मंत्री थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह सपा में शामिल हो गए थे। चौहान, एक ओबीसी नेता हैं। योगी के नेतृत्व वाली पहली सरकार में चौहान वन एवं पर्यावरण मंत्री थे।

दिल्ली और पटना में टमाटर की बिक्री शुरू

नयी दिल्ली। मानसून की भारी बारिश और आपूर्ति प्रभावित होने से शनिवार को प्रमुख शहरों के खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें 250 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गईं। खुदरा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली-पनसीआर, पटना और लखनऊ जैसे बुनियादी शहरों में 90 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर टमाटर बेच रही है।

भारत में निवेश पर विचार करें फ्रांस के उद्योगपति

देश की वृद्धि-गाथा का हिस्सा बने कंपनियां : प्रधानमंत्री

सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए

एजेंसी

पेरिस। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के बड़े उद्योगपतियों से भारत में आधारभूत ढांचे और अन्य क्षेत्रों में निवेश पर विचार करने और भारत की वृद्धि-गाथा का हिस्सा बनने का आग्रह किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रॉन के साथ भारत-फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित करते हुए आर्थिक सुधारों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।

इस मंच में विमानन, विनिर्माण, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों से संबंधित 16 फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और भारत की ओर से 24 सीईओ शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने सीईओ को भारत में निवेश अवसरों का उपयोग करने और भारत की वृद्धि-गाथा का



उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रॉन

हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। मंच में शामिल होने वाले प्रमुख फ्रांसीसी उद्योगपतियों में एयरबस के गिलाउम फॉरी, एलस्टॉम के हेनरी पौपर्ट लाफार्ज, रनाइडर इलेक्ट्रिक के पीटर हर्वेक, टोटल एनर्जीज की निमिता शाह, सैफ्रान के फिलिप एरेरा और कैपजेमिनी के पॉल हर्मेलिन शामिल रहे।

भारत की तरफ से इस मंच में जुबिंकोट लाइफ साइंस लिमिटेड के हरि एस भरतिया, आर्सेलर मित्तल

के लक्ष्मी मित्तल, एथर एनर्जी के तरुण मेहता और भारत फोर्ज के अमित वी कल्याणी आदि उद्योगपति शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में उद्योग जगत की इन हस्तियों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान और बुनियादी ढांचे में भारत की प्रगति

और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी के नौ वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों में ढील देना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और कॉरपोरेट कर को कम करना आदि शामिल हैं।

एक और भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को दो साल की सजा

एजेंसी

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्थानीय सांसद-विधायक अदालत ने शनिवार को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में उप्र सरकार के पूर्व मंत्री एवं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को दोषी ठहराते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके पहले भी भड़काऊ भाषण देने के एक अन्य मामले में खान को सजा सुनाई जा चुकी है जिसके चलते उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवा दी थी। सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने आजम खान को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई और दहा हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान द्वारा थाना शहजादनगर के धमोरा में एक चुनावी जनसभा में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर एक मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी

2019 में मोदी और योगी के खिलाफ सपा नेता ने अग्रद भाषा का किया था इस्तेमाल



टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान को के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पिछले साल रामपुर की एक सांसद/विधायक अदालत ने खान को 2019 के एक अन्य नफरती भाषण मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य

घोषित कर दिया गया था। खान के खिलाफ उक्त मामला अप्रैल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र के खत नगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज किया गया था। इस साल मई में, एक सांसद-विधायक सत्र अदालत ने सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा खान को दो गई तीन साल की सजा को पलट दिया था। संयुक्त निदेशक शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि आजम खान को आज अदालत ने दोषी ठहराया है। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आठ अप्रैल को धमोरा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए खान ने अग्रद भाषा और अमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आज फैसला सुनाया गया।

चंद्रयान-3 चंद्रमा की ओर 40 दिन के महत्वपूर्ण चरण से गुजरेगा : नायर

तिरुवनंतपुरम/श्रीहरिकोटा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर ने कहा कि शुक्रवार को प्रक्षेपित किया गया ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन 40 दिन के महत्वपूर्ण चरण से गुजरेगा और अंततः चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए इसमें लगे थ्रस्टर्स की मदद से इसे पृथ्वी से दूर ले जाया जाएगा। नायर ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रक्षेपण यान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अंतरिक्ष यान के लिए आवश्यक प्रारंभिक स्थितियां बहुत

सटीकता से प्रदान की गई हैं। इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एलवीएम3-एम4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया था। शुक्रवार अपराह्न 2.35 बजे उड़ान भरने के 17 मिनट बाद उपग्रह को उसकी लक्षित कक्षा में प्रवेश करा दिया गया था। नायर ने कहा कि आज से, इसमें (यान) लगे थ्रस्टर्स को फायर किया जाएगा और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए चंद्रयान-3 को पृथ्वी से दूर ले जाया जाएगा।

मुंबई में 30 दिन ड्रोन ग्लाइडर उड़ाने पर बैन

मुंबई। मुंबई पुलिस ने शनिवार को एक आदेश जारी कर अगले 30 दिन के लिए महानगर में ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट विमान, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर और गॉम हवा के गुब्बारे उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक नियमित आदेश है क्योंकि अति महत्वपूर्ण लोगों को निशाना बनाने, बड़े पैमाने पर आम लोगों के जीवन को खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने के लिए ऐसी वस्तुओं के दुरुपयोग की आशंका रहती है।

आंतकियों को पनाह दे रहा है अफगानिस्तान : आसिफ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को दावा किया कि उनके देश में खून-खराबा करने वाले आतंकवादियों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान में शरण मिल रही है और पाकिस्तान अब इसे सहन नहीं करेगा। आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान पड़ोसी देश होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा है और दोहा समझौते का पालन नहीं कर रहा है। पचास से साठ लाख

अफगानों को सभी अधिकारों के साथ पाकिस्तान में 40 से 50 वर्ष के लिए शरण प्राप्त है। मंत्री ने कहा कि लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तानियों को बहाने वाले आतंकवादियों को अफगानी धरती पर पनाह मिल सकती है। इस तरह की स्थिति अब और नहीं चल सकती। बलूचिस्तान में 13 जुलाई को दो आतंकवादी घटनाओं में 12 सैनिकों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में रोष है।



आखिरी शेड्यूल खत्म किया। मुंबई, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के अलग-अलग स्थानों पर 45 दिनों में शूट की गईं जब फिल्म दर्शकों को अटल बिहारी वाजपेयी के वचन और असाधारण राजनीतिक यात्रा से रूबरू कराएंगे। शानदार कलाकारों के सहयोग से बनी यह फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

यूई के साथ सौ अरब डॉलर तक पहुंचेगा व्यापार

दुबई में आइआईटी दिल्ली का खुलेगा कैम्पस

हिन्दी में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मुझे आज अबू धाबी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करने का मौका मिला। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों की चल रही प्रगति, सतत वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में हमारे साझा हित एवं हमारे देशों और हमारे लोगों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे अबू धाबी आकर और आपसे मिलकर खुशी हुई है। गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए और आपके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर भारतीय आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है। मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ व्यापार, निवेश और रक्षा संबंधों समेत और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार 20 फीसदी बढ़ गया है। हमने 85 अरब डॉलर का व्यापार हासिल कर लिया है

और जल्द ही हम 100 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। भारत और यूई ने तीन महीने के भीतर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौते पर आज का समझौता इस मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी के यूई दौर पर भारतवासियों और यूई में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री के दौर पर भारत सरकार और यूई में एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। समझौते के तहत यूई में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली की ओर से यूई में अपना कैम्पस खोला जाएगा। कैम्पस में जनवरी 2024 से मास्टर पाठ्यक्रम और अगले साल सितंबर से स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

राजग की बैठक में शामिल होंगे चिराग

नयी दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान के 18 जुलाई को भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की बैठक में शामिल होने की संभावना है।

केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय शुक्रवार रात चिराग से मिले। यह पिछले एक हफ्ते में दोनों नेताओं के बीच हुई दूसरी मुलाकात थी। इसके अलावा, लोजपा (आर) ने भाजपा अध्यक्ष द्वारा चिराग को लिखा गया पत्र साझा किया, जिसमें उन्हें राजग की बैठक में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया गया है। पत्र में नड्डा ने लोजपा (आर) को राजग का एक प्रमुख घटक करार दिया। उन्होंने पार्टी को गरीबों के विकास एवं कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में एक प्रमुख भागीदार बताया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार करने के लिए राजग से अलग हो गए थे। उस समय जदयू राजग का हिस्सा था। चिराग से संपर्क बढ़ाने की भाजपा नेताओं की कोशिशों को उन्हें राजग में वापस लाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

दिल्ली में भारी बारिश से यातायात जाम

नयी दिल्ली। दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को भारी वर्षा हुई जिससे जलभराव एवं यातायात जाम की समस्या खड़ी हो गयी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को वर्षा से शहर में पारा एक डिग्री घटकर 34.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

खबर मंत्र के स्थापना दिवस पर समस्त झारखंड वारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

आलोक कुमार दूबे

प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) झारखंड।

VERMA PRESS

वर्मा प्रेस प्रा0 लि0 राँची

Verma's Today

शुंखला की निम्न पुस्तकें सर्वत्र उपलब्ध हैं—

Class - X	Class - IX
Hindi ₹ 140	Hindi ₹ 140
English ₹ 140	English ₹ 140
Mathematics ₹ 140	Mathematics ₹ 140
Science ₹ 140	Science ₹ 140
Social Science ₹ 140	Social Science ₹ 140
Sanskrit ₹ 120	Sanskrit ₹ 120
Hindi - B ₹ 140	Hindi - B ₹ 80
Hindi Vyakaran-I ₹ 120	Hindi Vyakaran-II ₹ 120
English Grammar-II ₹ 120	English Grammar-II ₹ 120
Sanskrit Vyakaran-II ₹ 100	Sanskrit Vyakaran-II ₹ 100
Hindi Practical ₹ 55	Hindi Practical ₹ 55
English Practical ₹ 55	English Practical ₹ 55
Maths. Practical ₹ 65	Maths. Practical ₹ 65
Science Practical ₹ 65	Science Practical ₹ 70
S. Science Practical ₹ 65	S. Science Practical ₹ 65
Sanskrit Practical ₹ 55	Sanskrit Practical ₹ 55
Maths. Practical (Combined) ₹ 90	Maths. Practical (Combined) ₹ 75
Science Practical (Combined) ₹ 90	Science Practical (Combined) ₹ 75

English Medium

Mathematics ₹ 200	Mathematics ₹ 130
Science ₹ 200	Science ₹ 200
Social Science ₹ 200	Social Science ₹ 130
Maths. Practical ₹ 80	Maths. Practical ₹ 80
Science Practical ₹ 80	Science Practical ₹ 80
S. Science Practical ₹ 80	S. Science Practical ₹ 80

मिलते-जुलते नाम वाली नकली पुस्तकों से सावधान!

